

DURGA SAGI MUNICIPAL LIBRARY

NAINI TAL

गृहीत संस्कृति प्रशासन  
नीमाल

संग्रह

Class no. 591033

Book no. 1778

Reg. no. 2110





राजकमल कथा माहित्य — ४

# बहती गङ्गा

शिवप्रसाद् मिश्र 'रुद्र' काशिकेय



राजकमल प्रकाशन  
दिल्ली बम्बई नई दिल्ली

करणापति मुकुर को

• • • • • • • • • • • • • • •

कापीराइट, १९५२

मूल्य एक हपया चौदह आने

मुद्रक—गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली।

प्रकाशक—राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई

Durga Sah Municipal Library,

Naini Tal.

दुर्गसाह मुनिसिपल लाइब्रेरी

नैनीताल

Class No. (विभाग) ..... 891-38

Book No. (पुस्तक) ..... Sh. 77. B

Received On. ..... Oct. 1952

३४

## पारिचय

• • • •

गंगा भागीरथी की कथा भी थों तो औपन्यासिक चमत्कार, विभीषिका, लोमहर्षणता और कौतूहल से ओत-मोत है, किन्तु बहती गंगा भी उससे किसी प्रकार कम नहीं है। आँस्कर वाह्यलड और वाल्टर स्कॉट ने ऐतिहासिक सामग्री में से औपन्यासिक घटनाएँ निकालकर कौतूहल का अत्यन्त भव्य प्रसाद खड़ा किया, डिकन्स ने अपनी सूचम इष्टि से पात्रों और स्थानों को शब्द-तूलिका से चित्रित करके इतना सजीव बना दिया कि कोई चाहे तो सूचम-से-सूचम रेखाओं को भी नयनस्थ कर ले। पुलेग्ज़ेरडर ड्यूमा ने अपने पात्रों और घटनाओं में ऐसी अद्भुत चपलता, गति और वेगशीलता भर दी कि प्रत्येक पंक्ति के साथ पाठक का मन उछलता-कूदता, हँसता-रोता, दौड़ता-बहराता चलता है। शरत्चन्द्र बंगाल के मध्य-वर्ग की पारिवारिक समस्याओं के प्रौढ़ विश्लेषक हैं, हरिनाशयण आदि, फ़इके और सामा बरेकर ने महाराष्ट्र की सामाजिक समस्याओं को अत्यन्त सतकता, सहृदयता और सूचमदर्शिता के साथ चित्रित किया है। रमण पिल्लह और चन्तुमेनन ने मलयालम में अपने समाज को अपनी संस्कृति की छाया में अत्यन्त विदर्घतापूर्ण बारी में पूर्ण सहानुभूति और सात्त्विक निष्ठा के साथ प्रदर्शित किया है और यही कौशल कन्नड में स्थित वैकटेश अच्यंगार ने अपने वर्णन-नैपुण्य और चित्रण-सूचमता के साथ सुन्दर प्रवाह रूपी अलंकृत शैली में व्यक्त किया है। प्रेमचन्द्र जी ने आदर्श की नींव पर

अपने उपन्यासों के महल उठाये और उस आदर्श के निर्वाह में वे पूर्ण रहे। वे अध्यापक थे, कक्षा में भी उपदेश देते रहे और साहित्य के द्वारा भी उन्होंने उपदेश हां दिया। वे कला के फेर में कभी नहीं पड़े, इसकी सम्भवतः उन्होंने आवश्यकता भी नहीं समझी।

किन्तु बहती गंगा विश्व-भर के उपन्यास-जगत् में एक नई शक्ति, एक नई आभा और एक नई कला लेकर अवतरित हुई है। राज-वर्ग, मध्य-वर्ग और निम्न-वर्ग के पात्र अपनी-अपनी कल्पना, भावना, प्रकृति और प्रवृत्ति की स्वाभाविक भूमिका में ऐतिहासिक घटना-प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं; इन्हें उपन्यासकार छूता नहीं है, रँगता नहीं है, वरन् किकेट मैच का रेडियो पर विवरण देने वाले प्रवक्ता की भाँति आँखों पर दूरबीनण-यन्त्र लगाकर प्रत्येक पात्र की किया का वर्णन सूचमता, सजीवता और भावुकता के साथ करता चला जाता है। बहती गंगा ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें पिछले दो सौ वर्षों की काशी के मस्तीमय जीवन का सरस विश्लेषण है, जिसके पात्र वास्तविक हैं और जो अपने वास्तविक जीवन में कल्पना को परास्त कर देने वाली घटनाओं की सृष्टि करके उसके सजीव, सक्रिय, अलौकिक, कौतूहलपूर्ण नट बनकर स्वयं उपन्यास का अवतार बनकर जी गए हैं, मर गए हैं; जिनके पौरुष की गाथा पढ़कर आश्चर्य होता है, अद्वा होती है और गर्व होता है—‘वाह रे शेर ! वाह !’

आज के बनारस या काशी के राज्य की स्थापना करने वाले राजा वल्लवन्तसिंह की कथा सुनकर आप दंग रह जायेंगे कि राजसी वैभव के बीच उस बीर ने पौरुष के क्या आदर्श उपस्थित किए ! नागर और भंगड़ भिजुक बनारसी परिभाषा में शुद्ध गुणडे थे—वे गुणडे, जो जीवन की मस्ती को जीवन का आदर्श समझते थे, जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर दूसरों के प्राण बचाये, जो जीना भी जानते थे सिंह के समान और मरना भी जानते थे सिंह के समान। निम्न-वर्ग का सच्चा स्वरूप आप देखेंगे झींगुर में, जो गाढ़ी तो हाँकता है, पर जिसमें बनारसी मस्ती

चोटी से एड़ी तक भरी है, जो भावुक भी है और कलाप्रिय भी। आज-कल के भुखमरों के समान वह 'रोटी'-‘रोटी’ नहीं चिल्काता। वह हृदय को पेट से अधिक महस्व का समझता है। और फिर मंगला गौरी—भंगड़ भिज्जुक की शनी पत्नी—जिसने आत्मगौरव की रेखा बाँधकर उसमें अपने यौवन को तपाकर सती की टेक रखी; दुलारी मौनहारिन—अपनी चंचल चित्तवन और सुरीले कंठ से सैकड़ों सरस हृदयों को बेधती हुई वह अलिप्त नायिका—काशी की एक कला-परम्परा का सरस प्रतिनिधित्व करती है, जो न आदर्श का ढोंग करती है न उसका महस्व समझती है। गंगा पानवाली एक सुलभी हुई उलझन है, जिसमें राग-रंग की मादकता तो है, पर वह अपने में सिमटी हुई, जो नगर-भर की नायिकाओं की कथा-सरित् है, पर इस कौशल से वह इस कथा-सरित् को अन्तःसत्तिस बनाये हुए है कि खोदने पर भी उस कथा-सरित् का ठिकाना न मिले।

इस उपन्यास का एक नया कौशल है इसके परिच्छेदों के शीर्षक, जो स्वयं पाठक को सहसा अन्य भावों से विकेन्द्रित करके इधर ध्यानस्थ कर देते हैं। यों तो पूरा उपन्यास ही सरसता और कौतूहल का भण्डार है, किन्तु 'नागर नैया जाला कालेपनियाँ,' 'सूली ऊपर सेज पिया की,' 'आये आये आये,' 'रोम-रोम में चञ्चल' और 'एही ठैयाँ झुलनी हैरानी हो राम' तो औपन्यासिक घटना-गुम्फन-कला के अघट उदाहरण हैं। किस स्वाभाविक वेग से प्रत्येक घटना अपने प्रवाह में उलझे हुए पात्रों को बहाती, डुबाती, उतराती, उलझाती ले चलती है और किस प्रकार वे अपनी नैसर्गिक गति में अद्भुत, सुन्दर, सुन्दरतर और सुन्दरतम होते हुए चलते हैं कि चित्त खिल उठता है और उस प्रवाह में स्वयं कूदकर उन घटनाओं और पात्रों के साथ-साथ झूवने-उवारने लगता है।

इस बहुती गंगा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भाषा, जिसमें तनिक मिलावट नहीं, बनावट नहीं, सीधी, सुहावरेदार सरस सूक्ष्मियों

और लहरियादार शब्दावली से भरी, भावों के साथ ऐसी मूमती, हठलाती, बल खाती, लचकती, लहरें लेती, झूलती, मचलती चलती है कि आप एक-एक वाक्य को दस-दस बार भी पढ़ें तो जी न भरे। वर्णन ऐसे सजीव कि जिसका वर्णन करना प्रारम्भ करें कि उसे ही दुहराते-तिहराते रह जायँ। मुझे यह कहने और लिखने में कोई संकोच नहीं, कि सरशार के पश्चात् किसी ने ऐसी भाषा लिखी ही नहीं।

इस उपन्यास के खट्टा पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' इतिहास और हिन्दी साहित्य के तो विचलण पंडित हैं ही, साथ ही वे बनारसी जीवन के साक्षात् अवतार हैं। काशी का जीवन क्या है और क्या रहा है इसे वे जिस सूक्ष्मता के साथ जानते हैं उन्ना पढ़े-लिखे लोगों में कदाचित् कोई विरला ही जानता हो। उनके उपन्यास में जो सजीवता है उसका कारण यही है कि उन्होंने बलपूर्वक पात्रों की कल्पना करके उन्हें कृत्रिम रंगों से रंगकर आदर्श बनाने का आडम्बर लड़ीं किया और वही कारण है कि उनका उपन्यास एक नया जीवन और हिन्दी के गौरवमय इतिहास का एक नवीन उपोतिष्ठ पृष्ठ खोलकर अवतरित हुआ है।

मैं हिन्दी उपन्यास-केन्द्र में इस उपन्यास का, श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' का तथा उनकी बहती गंगा का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि साहित्य-जगत् इसकी पुनीत भाव-सीकरों से पावन होता रहेगा।

— सीताराम चतुर्वेदी

## सन्दर्भिका

० ० ० ० ०

मनुष्य की कथा कहने-सुनने की प्रवृत्ति परम पुरानी है। एक ही कहानी बार-बार सुनकर और सुनाकर भी मनुष्य कभी नहीं ऊबा; सदैव कथा के रस में डूबा ही रहा। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक कौतूहल की बात तो यह रही कि मनुष्य की आदिम कहानी में भी, जो सदा ही राजा और रानी से आरम्भ हुई, कथा का आधार नर-नारी की घोन-समस्या ही रहा। नर-नारी की उक्त शाश्वत समस्या सुलझाने का शैक भी मनुष्य में इतना अदम्य रहा कि उसने उस समस्या पर विभिन्न कोणों से आलोकयात कर उसे पुँखानुपुँख रूप से देखने का प्रयत्न किया। हजारों आदमियों ने हजारों ढंग से, हजारों बार एक ही बात शुमाफिराकर कही, परन्तु आश्वर्य की बात है कि हर बार उस बात में नवीनता बनी रही, सरसता का समुद्र उमड़ता रहा और कौतूहल को लूटनता की चृति प्राप्त होती रही। उसे अनुभव होता रहा कि नर-नारी प्रेम के कितने अधिक पहलू हो सकते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रेम-सम्बन्ध कहीं स्थिर तो कहीं कठोर, कहीं करुण तो कहीं लावण्यमण्डित, कहीं शान्त और गम्भीर तो कहीं रोमांचक और सरस रूप ग्रहण कर लेता है। यह दूसरी बात है कि साहित्य समाज का दर्पण होने के कारण समसामयिकता की छाप अपनी छाती पर लगाए रहता है। औपन्यासिक वाङ्मय भी साहित्य का ही अंग होता है। इसीलिए उपन्यास या कहानी पढ़ते समय यह न भूलना चाहिए कि उसमें सम-

कालीन जीवनधारा का ही चित्रण हो रहा है और क्योंकि यह जीवनधारा है अतः इसमें कूल भी वह रहे हैं और साथ ही कूड़ा-कचरा भी। कलाकार का कार्य केवल धारा का यथातथ्य चित्रण कर देना है। वह नीति-दुर्नीति से उपर होता है, भले या बुरे की बकालत नहीं करता। कलाकार तो कीचड़ और कमल दोनों दिखाएगा। यह काम पाठक का है कि वह कमल का स्निग्ध स्पर्श कर ले, परन्तु अपने पैरों में कीचड़ न लगाने दे।

प्रस्तुत पुस्तक का नाम ‘बहती गंगा’ अकारण नहीं है। जीवन-गंगा की धारा भी भागीरथी गंगा के ही समान पवित्र है। यदि उसमें एक और सड़ी-गल्ती लाशें हैं, आवर्जना का स्तूप है, उसके तल में हिंसक जन्तु हैं तो उसी के साथ दूसरी और उसमें शीतलता है, पवित्रता है और व्यापक उपयोगिता भी है। प्रस्तुत ‘बहती गंगा’ में सब्रह तरंगे हैं—एक-दूसरी से अलग, परस्पर-स्वतन्त्र। परन्तु धारा और तरंग न्याय से आपस में बँधी हुई भी हैं। इसी स्थल पर यह भी बता देना अप्रासंगिक न होगा कि ‘बहती गंगा’ की प्रत्येक तरंग का आधार कोई-न-कोई ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति, प्रथा या परम्परागत जनश्रुति है। जैसे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार काशी नगरी की भी अपनी विशेषता है। अनुकूल मस्ती, निपट निद्रा-न्दूता, उत्कट स्वातन्त्र्य-प्रेम और परमप्राचीनतावाद उक्त विशेषता के ही अंग हैं। सौं वर्ष के पूर्व ‘बनारसियों’ के सम्बन्ध में पिछली शताब्दी के एक अंगेज इतिहासकार ने लिखा है—

‘The inhabitants of Benares were a proud turbulent race, fond of ancient ways and very impatient of innovation. Previous to 1851 they had successfully resisted all attempts to trench upon any of their customs.’ अर्थात् ‘बनारस के वासी, अभिमानी और दुर्दन्त थे। वे ग्राचीन प्रथाओं के प्रेमी थे और नवीनता के प्रति असहनशील। सन् १८५१ से पहले तक उन्होंने अपनी प्रथाओं में हस्तक्षेप के सभी प्रयत्नों का सफलतापूर्वक विरोध किया था।’ प्रस्तुत

पुस्तक में 'बनारसियों' की इसी विशेषता का चिन्हण किया गया है। सन् १७५० है० से लेकर सन् १८५० है० अर्थात् दो सौ वर्षों की घटनाओं ने 'बहती गंगा' में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। कथाकम के अनुरोधवश तिथियों का निर्वाह कडाई से नहीं किया गया, परन्तु घटनाएँ प्रायः सब सही हैं। पहला अध्याय

### 'गाइए गणपति जगबन्दन'

उस घटना पर प्रकाश डालता है जिसके कारण काशी का ही नहीं समूचे भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। यदि शानी पन्ना चत्राशी न होकर राजा बलबन्तसिंह की सजातिया होतीं तो वारेन हेस्टिंग्स को चेतानिह के विरुद्ध सफलता कभी न मिलती और तब देश का इतिहास दूसरा ही होता। राजा बलबन्तसिंह विलीनीकृत काशी राज्य के संस्थापक थे। उनकी प्रस्तुत कथा मैंने उन्हीं के बंशज महाराजकुमार श्रीकान्त नारायणसिंह से सुनी थी। वारेन हेस्टिंग्स से काशीवासियों के संघर्ष की कथा

'घोड़े पे हौदा औ हाथी पे जीन'

शीर्षक कहानी में कही गई है। इस सम्बन्ध में 'इकोज़ फ्राम ओल्ड कैलकटा' नामी पोशी के परिशिष्ट में विस्तृत विचार किया गया है। हेस्टिंग्स के चुनार पलायन के सिलसिले में उल्लेख है कि

'The impression seems to be general that the night escape to Chunar by which Hastings and his party gave the slip to those who were preparing to attack his position at Benares, gave rise to the Hindostanee couplet so familiar to subalterns and others in India, viz.,

'Ghore par howdah hathi par zeen,-

'Jaldi bhag gaya ,Warren Hasteen.'

The circumstances of the move to Chunar leave no ground for the applicability of those lines to it.

सारांश यह कि जिन परिस्थितियों में हेस्टिंग्स चुनार भागा वे ऐसी

नहीं थीं कि जिनसे 'बोडे पै होदा औ हाथी पै जीन, जलदी भाग गया' वारेन हेस्टीन की रचना सम्भव हो सकती। मैंने इस कथन से उक्त कहियोंकी रचना का सामंजस्य एक-दूसरे ढंग से बैठा दिया है। तीसरे अध्याय का शीर्षक

'नागर नैया जाला कालेपनियाँ रे हरी'

उस प्रसिद्ध कजली की टेक है जिसकी रचना सुन्दर गौनहारिन ने की थी। 'बनारस' गजेटियर में नागर की सजा के सम्बन्ध में लिखा है कि 'About thirty Nagars of Benares resenting the just conviction and sentence on one of their number, proceeded to create a disturbance.' काशी के विशिष्ट विद्वान् श्रीसाँवलजी नागर ने 'हंस' के काशी अङ्क में लिखा है कि 'इसी अखाडे की शिष्य-परम्परा में तलवारिया दाताराम नागर हो गए हैं। काल भैरव के मन्दिर के पास, हाटकेश्वर के मन्दिर के बगल में इनका घर था।.....कहते हैं, जब विश्वेश्वर गंज की सड़क बन गई तो दाताराम ने सुतहैं ह्रमली, बुलानाला तथा ठड़ेरी बाजार वाली गली के रास्ते दुलदुल धोड़े की ले जाने का विरोध किया। उनका कहना था कि जब सड़क बन गई तब धोड़ा सड़क के रास्ते ले जाना चाहिए। इस पर तलवार चल गई, दाताराम ने अद्भुत कला प्रदर्शित की। अन्त में इन पर वारणट निकला। ये कटेसर में बड़ी कठिनाई से पकड़े गए। इनको कालेपानी की सज्जा हुई।' इन्हीं नागर के मित्र भंगड भिञ्जुक थे, जिनका चरित्र चित्रण

'सूली ऊपर सेज पिया की'

शीर्षक अध्याय में किया गया है। इनके सम्बन्ध में भी श्री साँवलजी नागर ने लिखा है—'ऐतरनी बैतरनी के तालाब के ऊपर एक बाग है जो श्री रणछोड़ जी मन्दिर की भेट छढ़ा हुआ है। इसमें कुछाँ है, जो भंगड भिञ्जुक का कुछाँ कहा जाता है। इनका एक जबरदस्त दल था। इनको वश में करने का सूबेदार का सब उद्योग व्यर्थ गया। अन्त में एक खेला फूट पड़ा। त्रिलोचन घाट पर एक लम्बी मढ़ी है।

इसी में मस्ताने भंगड़ भिज्जुकजी नशे में चूर सोते थे । कहते हैं, इसी मढ़ी में धेरकर रातोंरात वह जला दिये गए । पाँचवें अध्याय

‘आये, आये, आये’

में जिस रामदयाल चित्रकार का बर्णन है वह भी ऐतिहासिक कान्ति है । काशी के उस अन्तिम सुकदमे का वही नाथक था जिसमें अग्नि-परीक्षा से निर्णय किया गया था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुराने कागज-पत्रों में काशी के तत्कालीन फौजदार अली द्वारा हीमखाँ की एक रिपोर्ट है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है—

‘कृष्णश्वर भट्ट नामक एक ब्राह्मण ने रामदयाल नामक चित्रकार पर चौरी का अभियोग लगाया । रामदयाल ने अपने को निर्दोष बताया । इस मामले का फैसला खोलते तेल द्वारा करना निश्चित हुआ । मैंने उभय पक्ष को इस विधि से विरल करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु विवश होकर सुझे उन्हीं की बात स्थीकार करनी पड़ी । विचार-कार्य में अदालत द्वारा नियुक्त गोविन्दराम, हरिकृष्ण भट्ट और कालिदास नामक परिणडतों के साथ ही भीष्म भट्ट, नाना पाठक, मणिराम पाठक, मणिराम भट्ट, शिव, अनन्तराम भट्ट, कृपाराम, विष्णुहरि, कृष्णचन्द्र और रामेन्द्र नामक परिणडतों ने भी सहायता की थी । उत्तम तेल-परीक्षा के लिए निश्चित स्थान साफ करके वहाँ गोबर का छौका लगाया गया । दूसरे दिन सूर्योदय के समय गणेश पूजन आदि करके परिणडत ने हवन किया । एक पात्र में प्रायः सेर-भर तेल खौलाया गया था । उत्ताप की परीक्षा के लिए उसमें एक पत्ता छोड़ा गया जो तत्काल ही जलकर चुरस्तर हो गया । तब उसमें एक अँगूठी डाली गई और अपराधी से कहा गया कि वह तेल में हाथ डालकर अँगूठी निकाल ले । मैं भी शहर कोतवाल, फौजदारी और दीवानी अदालत दोनों दारोगाओं, अन्य सरकारी कर्मचारियों और काशी के विशिष्ट नागरिकों के साथ वहाँ उपस्थित था । उस समय भी मैंने रामदयाल से कहा कि तुम सुकदमे की यह विधि स्थीकार न करो । कारण, यदि तुम्हारा हाथ

जला तो तुम्हारे ऊपर जो वस्तु चुराने का आरोप है, उसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। साथ ही समाज में तुम्हारी बदनामी भी होगी। परन्तु रामदयाल ने मेरी बात न सुनी। उसने आँगूठी निकालने के लिए खौलते तेल में हाथ डाला, परन्तु तेल लूटे ही उसका हाथ जल गया। उपस्थित मण्डली ने कहा कि अपराध प्रमाणित हो गया। यदि अपहृत वस्तु का मूल्य पाँच-सौ अशक्तियों से अधिक हो तो शास्त्रानुसार अपराधी का हाथ काट लेना चाहिए, परिदृतों का यह मत सुनकर मैंने रामदयाल को आदेश दिया कि वह कुषीश्वर भट्ट की अपहृत वस्तु के मूल्यस्वरूप सात सौ रुपये दे। इसके अतिरिक्त मैंने उसे और कोई सजा नहीं दी।'

### 'अल्पा तेरो महजिद अव्वल बनी'

शीर्षक अध्याय में भारतीय इतिहास की वह घटना वर्णित है जिसे सन् १८५७ का गदर कहते हैं। 'बनारस गजेटियर' के अनुसार 'The mutiny was over in less than three hours, but the city was still a source of great anxiety.' अर्थात् 'तीन घण्टे से भी कम समय में गदर समाप्त हो गया, परन्तु नगर चिन्ता का विषय बना रहा' और 'In Benares a permanent gallows was erected, and the sharp lesson thus inculcated bore the most beneficial results.' अर्थात्, 'बनारस में स्थायी सूली खड़ी कर दी गई और इस प्रकार जो चोखी नसीहत दी गई उसका परिणाम बहुत ही उत्तम हुआ।' इस प्रसंग में जिस मस्जिद की चर्चा है उसका उल्लेख 'गजेटियर' ने इस प्रकार किया है—'Other remains exist on the Rajghat plateau beyond the railway. A short distance to the right of main road, still on the west side of the railway, is a mosque, used at any rate till the mutiny.' अर्थात्, 'राजघाट के मैदान में रेलवे लाइन के पार अन्य धर्मसावशेष हैं। मुख्य सड़क के दाहीं और थोड़ी ही दूर पर रेलवे लाइन के पश्चिम में एक मस्जिद है जो कम-से-कम गदर के समय तक उपयोग में आती रही है।'

## ‘रोम-रोम में बज्रबल’

शीर्षक अध्याय विशुद्ध जनश्रुति के आवार पर है। उक्त अध्याय के नायक भालर उपाध्याय के दंशाज अब भी काशी में हैं। इस अध्याय में जिस मढ़ी की चर्चा है वह आज से प्रायः सोलह वर्ष पहले तक काशी में मणिकर्णिका घाट पर चक्रवृष्टरिणी के ठीक दक्षिण-पूर्व में गङ्गाजी के ऊपर टेढ़े रूप में वर्तमान थी। ग्वालियर राज्य की ओर से घाट के उननिर्माण के समय वह तोड़ दी गई।

## ‘सिवनाथ-बहादुरसिंह का सूब बना जोड़ा’

शीर्षक अध्याय में जिस शिवनाथसिंह का उल्लेख है उसका स्मारक काशी में दारुमलवाही की कोठी के नीचे, सुवनेश्वरी मन्दिर के कोने पर, महाराज भावनगर के शिवाले के पीछे, रास्ते के बीच एक चौरी के रूप में है। इनके सम्बन्ध में श्री सांवलजी नागर ने लिखा है कि ‘शिवनाथसिंह बहादुरसिंह का एक जबरदस्त अखाड़ा था।’

इनको गिरफ्तार करने के लिए पलटन भेजी गई। ये तलवारबाजी के उस्ताद थे; लड़ पड़े। यह चौरी उस स्थान का स्मारक है जहाँ उन्होंने वीरता प्रदर्शित की और दोनों मित्र चन्दन की एक ही चिता पर भस्म किये गए। परन्तु ई० बी० हैवेल ने ‘बनारस—दि सेकिड सिटी’ नामक अपने ग्रन्थ में शिवनाथसिंह का उल्लेख एक दूसरी ही घटना के प्रसंग में किया है। लखनऊ के नवाब बज़ीरअली के विद्रोह के सिलसिले में उन्होंने लिखा है कि ‘His chief fellow conspirators at Benares were Jagat Singh, a relation of the Raja, and Shiv Nath, the leader of a gang of Bankas.’ अर्थात्, ‘बज़ीरअली के घड्यन्त्र में राजा के एक सम्बन्धी जगतसिंह और बाँकों का एक नेता शिवनाथ भी शामिल था।’ फिलिप्सके प के ‘बनारस—दि स्ट्रांगहोल्ड ऑफ हिन्दूज़’ नामक ग्रन्थ में इन बाँकों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—‘The city was at that time in the most turbulent state. It was infested by a species of swaggering

bully called Bankas, so named from the peculiar curved dagger they carried, in the use of which they were experts.'

अर्थात्, 'नगर उस समय एक प्रकार के गुण्डों से, जिन्हें बाँका कहते हैं, भरा हुआ था। वे बाँकी कटार बाँधते थे जिसके कारण वे बाँके कहलाते थे।' वज़ीरश्ली के विद्रोह के फलस्वरूप हुए युद्ध का वर्णन करते हुए हेले ने लिखा है कि 'The only partakers in the miserable plot who played their part with any sort of distinction were Shiv Nath and five of his gang of Bankas, who held at bay an overwhelming force of British troops for five hours, and then sallied out, sword in hand to meet their fate like men.' अर्थात्, 'इस भाग्यहीन घड़्यन्त्र में शामिल लोगों में यदि किसी ने कोई उल्लेख्य कार्य किया तो शिवनाथ और उसके पाँच बाँकों ने ही। उन्होंने बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना को पाँच घण्टे तक रोक रखा और तत्पश्चात् वे मर्दों की तरह जूझ जाने के लिए तलवार हाथ में लेकर बाहर निकल पड़े।' परन्तु प्रतीत यही होता है कि तीन बाँके तो 'मर्दों की तरह' माधोदास के बगीचे के बाहर मरे गए और शेष दो अर्थात् शिवनाथसिंह और बहादुरसिंह ब्रिटिश सेना को छीरते हुए दो कोस की दूरी तय करके बहानाल पहुँचे, जहाँ वे अपने मकान में ही घेर लिये गए। फलतः दूसरी लड़ाई हुई और उसमें उन दोनों ने वीर गति प्राप्त की।

### 'रामकाज छन भंगु सरीरा'

शीर्षक अध्याय का आधार मुझे मानस राजहंस श्री विजयानन्द जी ब्रिपाठी से प्राप्त हुआ। उसके ऐतिहासिक पहलू पर श्री बालमुकुन्द वर्मा ने अपनी पोथी 'बनारस' में जो प्रकाश ढाला है, वह निश्चलिखित है—'सन् १८६१ के अप्रैल में मदैनी मुहर्ले में जलकल बैठाने के लिए जमीन नापी गई। उसी नाप में वहाँ का श्रीरामचन्द्र जी का एक मन्दिर भी आ गया।' कुछ दिन बाद मन्दिर में जाने का रास्ता भी खुद गया जिससे लोग बड़े हुखी हुए। '१५ अप्रैल को दिन में

यथारह बजे यह अफवाह फैली कि रामजी का मन्दिर खोदा जा रहा है। बात-की-बात में शहर-भर में हड्डियाल हो गईं; रोजगार बन्द हो गए। जिसे देखिए वह मन्दिर की ओर ही चला जा रहा है। वहाँ मैदान में खूब भीड़ इकट्ठी हुई। लोग जोश में भरे थे। वहाँ बाटर वक्स के हूंजन, पीजे, नल वगौंथा तोड़ डाके गए। कितने ही गंगाजी में फेंक दिये गए। बदमाशों की बन आई। पास के पृक रईस की चीजें भी खोड़-फोड़ दी गईं। कुछ चीज़ें लोग उठा भी सके नहीं। हुल्लड़ बराबर बढ़ता गया। तारबर लूटा गया, टेलीफोन के तार तोड़े गए। कई घटे तक खूब मगमानी हुई।

शेष अध्यायों में वर्णित घटनाओं की सुरक्षा प्रत्यक्ष जानकारी रही है। इसके अतिरिक्त वे घटनाएँ लोगों की सजीव स्मृति में हैं और उनके कुछ पात्र अव भी जीवित हैं। अतः उनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछ कहना अनुचित ही नहीं, बातक भी हो सकता है। वे चाहे जैसे भी हों, वे हैं बनारस की विशृति ही और बनारसी जीवन की परम्परा में उनका भी स्थान है। वे और उनके चरित पैमे रहे हैं जिनके कारण काशी भारतवासियों को ही नहीं, विदेशियों को भी प्रिय रही हैं। ईरान के प्रसिद्ध सूफी सन्तकवि शेखअली हज्जी, जिन्होने अपने अन्तिम दिन काशी में ही वितार, इस नगरी के सम्बन्ध में यह अमर पद कह गए हैं—

‘अज्ञ बनारस न रवस, मावदे आमस्त ईंजा  
हर ब्रह्मन पेसरे लक्ष्मनो रामस्त ईंजा  
परी रुखाने बनारस व सद करिश्मो रंग  
पथ परात्तिशे महादेव चूँ कुनन्द आरंग  
ब-गंग गुस्ल कुनन्द व ब-संग या मालन्द  
ज्ञहे शराकते संग व ज्ञहे लताकते गंग।’

अधात्, ‘मैं बनारस से नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह सबकी उपासना

का स्थान है। यहाँ का प्रत्येक द्विज बटु राम और लक्ष्मण है। परियों-जैसी बनारस की सुन्दरियाँ सैकड़ों हावभाव के साथ महादेवजी की पूजा के लिए निकलती हैं। वे गंगा में स्नान करती हैं और पश्चर पर अपने पैर धिसती हैं। क्या ही उस पश्चर की सज्जनता है और क्या ही गंगाजी की पवित्रता !

बहती गंगा में भी गंगा-तट-स्थित काशी की विशेषता दिखाने का प्रयत्न किया गया है।

—रुद्र, काशी

## तरंग-तालिका

प्रिच्छथ

सन्दर्भिका

१. गाहुए गणपति जगवन्दन ( लगभग १७५० ) . . . . .	२१
२. घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन ( १७८० ) . . . . .	२७
३. नागर नैया जाला कालेपनियां रे हरी ( लगभग १८०० ) . .	३५
४. सूली ऊपर सेज पिया की ( लगभग १८०५ ) . . . . .	४५
५. आये, आये, आये ( १८१० ) . . . . .	५६
६. अदला तेरी महजिद अदबल बनी ( १८५८ ) . . . . .	७२
७. शोम-रोम में वज्रबल लगभग १८७५ ) . . . . .	८२
८. सिवनाथ-बहादुरसिंह वीर का खूब बना जोड़ा (लगभग १८८०) .	९३
९. एही ठैयां सुखनी हेरानी हो रामा ( लगभग १९२१ ) . .	१००
१०. रामकाज छन भंगु सरीरा ( आधुनिक काल ) . . . . .	११३
११. एहि पार गंगा ओहि पार जमुना . . . . .	१२२
१२. चैत की निदिया जिया अलसाने . . . . .	१३०
१३. इस हाथ दे उस हाथ ले . . . . .	१३८
१४. दिया क्या जले जब जया जल रहा . . . . .	१४७
१५. नारी तुम केवल अद्धा हो . . . . .	१५३
१६. मृषा न होइ देव रिसि बानी . . . . .	१६२
१७. सारी रंग डारी जाल-लाल . . . . .	१७०



## गाइए गणपति जगबन्दन

• • • • • • • • • • •

श्रीगणेशायनमः करते हुए विनय-पत्रिका में जिस समय गोस्वामी तुलसीदास ने 'गाइए गणपति जगबन्दन' लिखा उस समय उन्हें यह कल्पना तक न थी कि 'गणपति' की यह बन्दना किसी राजवंश के संस्थापक के यहाँ दाम्पत्य-कलह और चिर-अभिशाप का कारण बन जायगी। उनके मानस-पट पर निम्नलिखित चित्र की एक रेखा भी न खिची होगी—

: १ :

गढ़ राङ्गापुर के पश्कोटे पर अपने सखा और सेनापति पांडेय बैजनाथ सिंह के साथ टहलते हुए राजा बलबन्तसिंह ने थाली बजने और ढोकल क पर थाप पड़ने की आवाज सुनी। गानेवालियों के सुँह से 'गाइए गणपति जगबन्दन' का मङ्गलगान आरम्भ होते सुना और अनुभव किया कि पुरुष-करणों से उठे तुम्हुल कोलाहल में गीत का स्वर अधूरे में ही सहसा बन्द हो गया है। उन्होंने समझ लिया कि रानी पन्ना ने पुत्रप्रसव करके उन्हें निपूता कहलाने से बचा लिया।

और यह भी जान लिया कि मेरे 'पट्टीदरों' ने अनुचित हस्तक्षेप कर मङ्गलगान बन्द करा दिया है। उन्हें यह भी प्रतीत हुआ कि उनका कोई चर्चेरा भाई काशी की गलियों में निर्वन्द्र विचरने वाले सौँड की तरह चिल्ला रहा है—“ढोल-दमामा बन्द करो। वर्ण-संकरों के पैदा

होने पर बधाई नहीं बजाई जाती।” उन्होंने धूमकर कहा—“सुनते हो सिंहा यह बेहूदापन !”

“बेहूदापन काहे का राजा !” सिंह उपाधिधारी ब्राह्मण-तनय ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, “हन्हीं बाबूसाहब और आपके चाचा बाबू मायाराम का सिर काटकर रानी के पिता ने आपके पास भेजा था; बाबू साहब उसी का बदला ले रहे हैं।”

राजा ने बैजनाथ सिंह की ओर साश्चर्य देखकर कहा—“बदला ? वह तो तुम्हारे पराक्रम से मैंने पूरा-पूरा चुका लिया। अब खियों से कैसा बदला ?”

“मैं क्या जानूँ अनन्दाता ! आपने जो रास्ता दिखाया है, आपके भाई डसी पर सरपट दौड़ रहे हैं,” बैजनाथ ने उस उपेक्षा के भाव से कहा जो उत्सुकता उत्पन्न करती है।

“कुछ सनक गण हो क्या सिंहा ? कैसी बहकी-बहकी आते कर रहे हो !” राजा ने डॉटने का अभिनय किया।

“बहकता नहीं हूँ सरकार,” अनुनय-भरे स्वर में सिंहा बोला, “आप ही स्मरण कीजिए, जब ढोभी के ठाकुर की गुर्ज से आपका खांडा दो टूक हो गया था, तो मैंने धर्म-युद्ध के नियमों की परवाह न कर आपके और उसके द्वन्द्व-युद्ध में हस्तक्षेप किया; यों कहिए कि उसे मार डाला। छत्र-भंग होते ही ठाकुर के बच्चे-खुचे सिपाही भाग निकले। आपने पुरुषविहीन गड़ी में निर्वाध प्रवेश किया था सरकार !”

सिंहा की बोली में दर्प गूँजने लगा। राजा को चुप देखकर उसने पुनः कहा—“सामने ठाकुर की पुत्री, यही पञ्चा, सिर के बाल बिखेरे, आँखों में आँसू भरे, हाथ में हँसुआ लिये आपका रास्ता रोके खड़ी थी।”

“तुम भी स्मरण करो सिंहा, मुझसे आँख मिलते ही उसके हाथ से हँसुआ छूट गिरा था,” राजा ने कहा। जवाब में सिंहा फिर तड़पा—“मुझे सब स्मरण है सरकार ! आपने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। मैंने आपको रोकते हुए कहा था कि राजा, यह नारी

है, इसे छोड़ दीजिए। बाबू साहब ने राजा के बेटे को वर्ण-संकर कहकर उनकरों को यही स्मरण कराया है सरकार!” हाथ जोड़ते हुए अपनी बात समाप्त कर बैजनाथ सिंह ने मूँछों पर ताव दिया और फिर उत्तर के लिए विनोदपूर्ण दृष्टि से राजा के सुख की ओर देखने लगा। राजा ने उसकी बात का जवाब न दे एक टणडी सौंस ली और सिर झुका लिया।

बैजनाथसिंह के आधर प्रान्त पर वक्र रेखा-सी खिंच गई और वह पुनः धूरि से बोला—“पाप के वृक्ष में पाप का ही फल लगता है राजा!”

“जानता हूँ। केवल यही नहीं जानता था कि विवाहिता पत्नी का उत्र भी वर्ण-संकर कहला सकता है।”

“ईश्वर की दृष्टि में नहीं, समाज की दृष्टि में।”

“अध चेत हो गया सिंहा, मैंने भारी पाप किया।”

“तो जिसके पैदा होने से चेत हो गया उसका नाम चेतसिंह रखिएगा।”

“किन्तु यह जो उलझन पैदा हुई उसे क्या करूँ?”

“उसे तो समय ही सुलझापूर्गा सरकार!”

“मैं भी प्रयत्न करूँगा,” राजा ने कहा और वह अठारहवीं शताब्दी की यह सामाजिक समस्या सुलझाते हुए अन्तःपुर की ओर चले।

## : २ :

अन्तःपुर में पुरुषार्थी पुरुषों की पर्ष्ण हुङ्कार से होल बन्द होते ही प्रसूति पीड़ा से कातर रानी पन्ना के पीले सुख पर स्याही दौड़ गई। उसने विधादपूर्ण दृष्टि से दाई की गोद में आँखें बन्द किये पड़े सद्योजात शिशु को देखा। उसके सूखे अधरों पर रुदनपूर्ण स्मिति चण-भर चमक कर उसी प्रकार तिरोहित हो गई जैसे किसी पर्यावरणी की जीण धारा महभूमि की सिक्कताराशि का चुम्बन लेकर उसी में चिलीन हो जाती है। उसने उठकर शिशु का रक्ताभ ललाट चूम लिया। उसके हृदय में स्नेह की नदी उमड़ पड़ी, मस्तक में भावनाओं का तूफान बह चला और

आँखों से भरने की तरह वारि-धारा फूट पड़ी ।

त्रुदिमती दासी चुप रही । तूफान का प्रथम वेग उसने निकला जाने दिया और तब सान्त्वना के स्वर में वह कहने लगी—“क्या करोगी रानी मन को पीड़ा पहुँचाकर ? सोने की लंका तो दहन होती ही है । सहन करो !”

जामुन-जैसी रस-भरी काली आँखें अपनी विश्वस्त दासी की आँखों से मिलाती हुई पक्षा बोली—

“वैभव की आग में कब तक जलूँ लाली ! कभी-कभी तो धूणा के मारे मन में आता है कि बगल में सोए राजा की छाती में कटार उतार दूँ, परन्तु……”

“परन्तु……रुक क्यों जाती हो ??”

“मेरी दृष्टि के सामने वही मूर्ति आ जाती है जिसे देखकर मेरे हाथ का हँसुआ छू गिरा था । मैं कटार रख देती हूँ । चुपचाप लेटकर आँख मूँद लेती हूँ जिसमें वही मूर्ति दिखाई पड़ती रहे,” आँख बन्द करके कुछ देखती हुई-सी पक्षा ने कहा ।

“तब तो तुम सुखी हो रानी !”

“अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न में क्या कुछ कम सुख है लाली ! इन तीनों से हृदय में जो दारुण धूणा उत्पन्न होती है वह क्या परम सन्तोष की वस्तु नहीं ?” रानी के स्वर में तीव्रता आ गई ।

अम से हाँपते हुए भी उसने आवेश-भरे चढ़े गले से कहा—“भला सोचो तो । उस आदमी से मन-ही-मन घोर धूणा करने में कितना आनन्द आता है जो तुम्हें दबाकर बेबस बनाकर समझता है कि उसके दबाव से तुम उसका बड़ा सम्मान करती हो, उस पर बड़ी श्रद्धा रखती हो ।”

विष-जर्जर हँसी हँसती हुई पक्षा थककर चुप हो गई और शर्या पर उसने धीरे से अपनी शिथिल काया लुढ़का दी । रानी के मन में धूणा

का यह विराट कालकूट अनुभव करके लाली भी पीली पड़ गई। पन्ना ने लेटे-लेटे फिर कहा—

“इन लोगों ने आज मेरी प्रथम सन्तान के जन्म पर मंगलगान नहीं गाने दिया। गणेशाजी की स्थापना होते ही उनकी मूर्ति उलट दी। मैं तुमसे कहे देती हूँ लाली, कि यदि मेरे बेटे को इन लोगों ने राजा न होने देकर मुझे मेरी आजीवन व्याधान्साधना के मूल्य से वंचित किया तो ये वंशाभिमानी तीन पीढ़ी भी लगात्तार राजा न कर सकेंगे। हर दूसरी पीढ़ी हृन्हें गोद लेकर वंश चलाना पड़ेगा और तीन गोद होते-होते राज्य समाप्त हो जायगा।” अपलक नेत्रों से देखती हुई आविष्ट-सी होकर रानी ने अपना कथन समाप्त किया और तुरन्त ही राजा को सामने खड़ा देख वह सशब्द रो पड़ी।

सुतिकागार का परदा हटाकर राजा चौखट पर खड़े थे। उन्होंने सहानुभूति और अनुभय से समुटित वाणी में कहा—“शाप मत दो रानी, मेरे बाद तुम्हारा ही लड़का राजा होगा। क्लेश मत करो।” राजा ने रानी के प्रसूतिपाण्डुर मुख पर स्निग्ध दृष्टि डाली। वह यह भूल गए कि वृण के दाह को शोतल करने वाला धृत आग में पड़कर उसे और भी दहका देता है। उन्होंने अमवश समझ लिया था कि रानी उनके अत्याचारों की चोट से जर्जर है। इसीलिए वह उस पर मधुर वचनों का लेप लगाने आये थे। वह नहीं जानते थे कि रानी अप-मान की आग में जल रही है। अतः उन्हें यह देखकर आशर्च्य हुआ कि रानी की मुख-मुद्रा सहसा सघन गगन-सी गम्भीर हो गई, मुख लाल हो उठा, आँखों से चिनगारियाँ-सी छूटती प्रतीत हुई। सहानुभूति के चाबुक का आधात रानी सह न सकी। उसने आवेश में कहा—“जले पर नमक न छिड़को राजा ! जिसके जीते उसके बेटे के जन्म पर गाया जाने वाला मंगलगान लोग रोक सकते हैं वे लोग बाप के मर जाने पर बेटे को राजा न जाने कैसे हीने देंगे ! साहस हो तो अधूरी वन्दना पूरी कराओ राजा !”

“कुदुम्बियों से ही मेरा सैनिक बल है रानी ! राजनीतिक कारणों से……”

“चुप रहो । देखूँ कब तक तुम लोग राजनीति के नाम पर नारी के गौरव और हृदय की बलि चढ़ाते हो !”

“रानी !” राजा ने कुछ धमकी-भरे स्वर में कहा ।

“मैं न डरूँगी राजा,” रानी वैसे ही उद्धत स्वर में बोलती गई, “मैं न डरूँगी । तुम्हारी राजनीति रानी के गर्भ से राजकुमार के जन्म पर बधाईचादन रोक दे सकती है, परन्तु माता को अपने पुत्र के जन्मो-स्वव पर मंगलगान करने से न तुम रोक सकते हो, न तुम्हारे कुदुम्बी रोक सकते हैं और न तुम्हारी राजनीति रोक सकती है । समझे ! मैं बधाई गाती हूँ । बुलाओ अपने भाइयों को, रोके !” कहते-कहते जैसे किसी स्वजन की मृत्यु पर लोग छाती पीटते हुए रोते हैं वैसे ही दोनों हाथों से अपनी छाती धड़ाधड़ पीटती हुई रानी चिल्ला-चिल्लाकर विलिप्तों के समान गाने लगी—“गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन !”

## घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन

• • • • • • • • • • • • • •

“का गुरु ! पालागी !” लोटन बहेत्रिये ने नागर गुरु को कबीर चौरा की ओर से आते देख हाथ जोड़कर कहा ।

“मस्त रहड़ !” नागर ने आशीर्वाद देते हुए लोटन के पीछे देखा कि पीछे पर हौदा लिये एक घोड़ा और जील-कसा एक हाथी खड़ा है । उन्हें राजा के पञ्चीस-तीस सिपाहियों ने घेर रखा है । उसने लोटन से पूछा—“का हाल-चाल दौ ? दै कैसन तभासा बनउले हौथड़ ?”

लोटन नागर के समीप बढ़ आया और हँसकर धीरे से बोला—“राजमाताकड़ हुक्म हौ, अउर का ? सुनलड़ कि नाहीं, कम्पनी बहादुर भाग गैल ?”

नागर की उत्सुकता बढ़ गई । उसने लोटन का हाथ थामकर, जहाँ आजकल ज्ञान-मण्डल-यन्त्रालय का भवन है, वहीं बने एक चबूतरे पर बैठा दिया । नगर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था । दो दिनों से तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं । राजा चेतसिंह से जुरमाना बसूल करने के लिए बारेन हेस्टिंग्स स्वर्यं कल कलकत्ता से काशी आया था । राजा-प्रजा सभी घबराये हुए थे । राज्य की सेना अकर्मण्य होकर हाथ-पस-हाथ धरे बैठी थी और नगर-निवासी निरुत्साह थे ।

चबूतरे पर बैठकर लोटन ने धीरे-धीरे धीमे स्वर में नागर को बताया कि सबके घबराएँ रहने पर भी राजमाता पन्ना ने अपना दिमाग कैसे ठीक रखा । गली-गली में लड़ाई के लिए उन्होंने सब महाजनों को बुलाकर किस तरह अपने घरों में दस-दस बीस-बीस सिपाही छिपा

इतने के लिए राजी किया और किस तरह इन तैयारियों की खबर पाकर वरेन हैस्टिंग्स शातौरात चुनार भाग गया ! हाथ की उँगली से सामने इशारा करते हुए उसने कहा—“अब न पता चलता, गुरु ! सहेबवा वही भूसावाली कोठरी में लुकल रहता । जब हम हैं खबर राजमाता के देहली त ऊ कहलिन कि अस यही मोका है । हाथी पर जीन कस दृढ़ अडर घोड़ा पर हउदा, जेम्स मालूम होय कि सहेबवा घबराय के भागल है । एतनै से बनाएसिन के केर जोस आय जाहै । सुनँन गुरु लड़िकवा का चिल्लात है अन ! अडर ओहर देखउ । लबदन सहुआ आपन बाल-बच्चा लेहले कहाँ जात है । एसारे के हियाँ गढ़ली तो कहवाय देलास कि घरे नाहीं हौथ्रन । तनी पूर्णी कि घरे नाहीं रहल तउ अब आय कहाँ से गयल ?” लोटन चबूतरे से कूदा । नागर ने भी उसका अनुकरण किया ।

इतने में बेलगाम घोड़ी की तरह चब्बल और गुलाब के फूल-सी रंगीन, लुरहरी सहुआहन ने जेवरों की पिटारी और भी जोर से बगल में दबाते हुए बिजली की तरह चमककर कहा—“मर-किनौना !”

माँग और माथे पर सिन्दूर की मोटी-सी तह जमाए और सिर पर आवश्यक वस्त्रादि से भरी कम्बल की गठी उठाये, हथिनी-सी भारी-भरकम बड़ी सहुआहन ने मेघगर्जन किया—“बउजर परै !”

बड़ी सहुआहन के बीस वर्षीय रोग-कातर पुन्न सुदीन और छोटी सहुआहन की नौ वर्षीया पुत्री ‘गौरा’ ने लितिज के दो छोरों की तरह अपनी माताओं की प्रतिध्वनि की और ‘तमाखू के पिण्डा’ उनके पिता लबदन साव ‘रह तो जा, सारे’ कहते हुए उन लड़कों पर बरस पड़े जो जुलूस बनाए चिल्लाते जा रहे थे—

‘घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन  
जलदी से भाग जैल— — !’

सपरिवार सावजी इससे अधिक नहीं सुन सके । उन्होंने समझा कि लड़के उन पर व्यंग्य कर रहे हैं; जेवर की पिटारी को हौदा और कम्बल को जीन बताकर उनकी पत्तियों को घोड़ी और हथिनी कह रहे हैं ।

सावजी ने मन-ही-मन बिना सुने ही लड़कों के नारों की अधूरी पंक्ति भी पूरी कर ली थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि 'जलदी से भाग गैल' के बाद 'लबदन सुदीन' ही है। वह सचमुच घर छोड़कर भाग भी रहे थे। दयंग सोलह आने सही समझकर उन्हें कोध हो आया। वे जुलूस में सबसे पास वाले एक छोटे-से लड़के पर हाथ का डण्डा चला बैठे और एक हाथ चलाने के बाद चबूतरे की टेक लेकर हाँपने लगे। लकड़ी आते देख लड़का छलका, फिर भी छोर कू जाने से छिलोर-सी लग गई। सावजी को पागल समझकर उधर लड़का हँसने लगा और इधर सावजी सौंड की तरह डकारकर रो पड़े।

उनके गाल पर करारा तमाचा पड़ा था। हिलते हुए दो दाँत बाहर छिटक पड़े थे। मुँह से रक्त की ज़ीण धारा-सी बह रही थी। उन्होंने आँख उठाकर देखा कि नागर गुरु सामने खड़े पूछ रहे हैं—“लड़िका के काहे मरले ! बोल !”

“ए सारे से पूछ कि क्यूँ भागत काहे रहल ?” लोटन बहेलिए ने कहा।

लबदन साव विकट सङ्कट में पड़े। आज उनकी सालगिरह क्या आई कि खासी 'गरह-इसा' आ गई। सबेरे से ही घर में जो किचकिच चली उसने साँझ होते-होते यह रंग दिखाया। उनका लड़का 'फिरंग रोग' से पीड़ित था। उसके मुँह में छाले पड़ गए थे। सावजी 'फिरंग रोग' का अर्थ नहीं जानते थे, परन्तु सन्देह करते थे कि यह रोग कैसा होता है और यह भी समझते थे कि है वह बहुत ही शृणित। इसलिए सबेरे आँख खुलते ही बेटे का मलिन मुख देख उनका जी खट्टा हो गया। उन्होंने कोध से घूरते हुए बेटे को देखा। बेटे ने समझा कि पिता हशारे से उसका हाल पूछ रहे हैं। उसने विश्व की सारी करुणा अपनी मुख-मुद्रा में बटोरते हुए पिता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हँधे हुए गले से कहा—

“बाबू, यूकत नाहिं बनत; बड़ा कष्ट हौ !”

मन की सारी घृणा और क्रोध को पिंचले सीसे-सी प्रतप्त वाणी में बोलते हुए बाप ने उत्तर दिया—“तोसे थूकत नाहीं बनत तड़ नाहीं सही । हुनिया तो तोरे मुँह पर थूकत हौं ।”

बेटे जे यह जवाब सुना तो मुँह बनाकर बहाँ से हट गया । परन्तु उसकी जननी ने, जो पास ही बैठी मसाला पीस रही थी, इतनी ही बात पर महाभारत मचा दिया; ऐसे पैने-पैने बचन-बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी कि सावजी का कलेज जर्जर हो उठा । उन्होंने जलकर कहा—“कलसुर्ही, मैस ! बिहाने-बिहाने काने के जड़ी चरचराये लगत ।”

बड़ी सहुआहन ने भी उसी बजन में जवाब दिया—“निगोड़ा कुकुर, निरवसा विहाने-बिहाने लड़िका के कोसै लग गयत । जे बिहाने एकर नाँव ले ले ओके दिन भर अन्नकड़ दरसन न होय ।”

बात कुछ अंश तक सही थी । साव के सूमपन के कारण वास्तव में लोग सबेरे उनका नाम नहीं लेते थे । इसीलिए सहुआहन की यह बात उनके कलेज में बरछी की तरह चुभ गई । वर्षगांठ का झमेला न होता तो वह कुछ उत्तम-मध्यम किये बिना कढ़ापि न मानते । परन्तु पूजन के समय दोनों पत्नियों के साथ ग्रन्थिबन्धन आवश्यक था । अतः बड़ी सहुआहन के मुँह फुलाने की आशङ्का से उनके हाथ-पैर फूल गए । उन्होंने कहवे काढ़े-सा अपमान का प्याला पीते हुए भी पत्नी को मनाना आरम्भ कर दिया । छोटी सहुआहन ने भी आकर सपत्नी को समझाया—“आखिर कहलन तड़ अपने बेटवा के न, कोई पराये के तो नाहीं ! जाये दड़ ।”

अन्ततः बड़ी सहुआहन शान्त हुई । घर का बातावरण उन: साधारण हुआ । सावजी पूजा-पाठ के फेर में पड़े । नगर में दो दिनों से हड़ताल रहने के कारण बैचारे नवग्रह-पूजन और हवन की सामग्री भी न मँगा पाए थे । पड़ोसियों से माँग-जाँचकर किसी तरह सामान भी जुटाया तो परिडत ने पूजा कराने आने से इन्कार कर दिया । कहला भेजा—“नगर की स्थिति ठीक नहीं है, राजा अपने ही महल में बन्द

है, मखिच्छों की सेना सङ्क पर चक्कर लगा रही है। मैं ऐसा धन-चक्र नहीं कि चौखट के बाहर पैर रखूँ। यदि प्राण संकट में डालकर जाऊँ भी तो 'सीधा' तो ढेढ़ दमड़ी का मिलेगा न!"

साव ने जो यह बात सुनी तो उनका भी छवका छूट गया। वे स्वयं अनगढ़, अनवसर और बेहूदी बार्ता को ही खरी-खरी कहना समझते थे। उन्होंने जो परिषदतजी का निखरा-निखरा सन्देश सुना तो खरा बोलने का उनका हौसला पस्त हो गया। उधर छोटी सहुआहन को परिषद के उत्तर से आपना सौभाग्य-सूर्य अस्त होता हुआ ब्रतीत हुआ। वह अस्त-व्यस्त हो उठी। साव के तम्बाखू के पिरण-जैसी काली और स्थूल काया से आग की रेखा के समान सर्वती हुई उन्होंने गदगद गले से कहा—“तोहर्वै न रहवड तड धन रह के का करी? दूसर परिषदत बोलावड।”

पाँच पैसे का 'सीधा' देने का वचन देने पर दूसरा परिषद आया। दोनों परियों के साथ गाँठ बाँधकर साव ने सावधानी से मन्त्र पढ़ते, दक्षिणा के स्थान पर जल चढ़ाते, पूजा समाप्त की। हवन आरम्भ हुआ। घी की कमी से आग दहक नहीं रही थी। गौरा पंखे से आग सुलगा रही थी। सहसा चिनगारियाँ उसके हाथ और मुँह पर आ पड़ीं। सबके मुँह से सहानुभूतिसूचक ध्वनि हुई, परन्तु सावजी ने हँसते हुए छोह-भरी वाणी में कहा—“बिटिया, एक चिनगारी में तो तू धीरज छोड़ देहलू। जब सती होए के होईं तब तू का करबू?”

परिषदत दृक्का-बृक्का हीकर साव का मुँह निहारने लगा। गौरा चिना कुछ समझे हँसने लगी, परन्तु उसकी माँ का जी जलने लगा। बाहरी आदमी के सामने लड़ तो सकती नहीं थी; उसने झनककर साव के दुपट्टे से अपनी चादर की गाँठ खोल दी और चमककर खड़ी हो गई। साव भी अपनी भूल समझ गए, पर तीर हाथ से छूट चुका था। वह असहाय की तरह छोटी सहुआहन का मुँह निहारने लगे। बड़ी सहुआहन ने सौत का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा—“आखिर कहलन

तड़ अपनै बिटिया के न ! कोई पराये के तड़ नाहीं । जाये दड़ ।” और खुली गाँठ फिर से बाँध दी ।

झोटी सहुआइन ने वक्त-दृष्टि से सौत को देखा, परन्तु कुछ खोली नहीं । हवन बिना और किसी दुर्घटना के समाप्त हो गया । परन्तु साव के सिर की गदिंश अभी तक समाप्त न हुई थी । वह भोजन करने बैठे कि लोटन बहेलिए ने गली में से आवाज दी—“सावजी हो, हे लबदन साव !”

लबदन साव ने फरोखे से नीचे फाँका । देखा कि राजा चेतसिंह का अङ्ग-रक्त क लोटन बहेलिया जरी की डोरी-पड़ी और सोना-जड़ी कत्ती-दार पगड़ी सिर पर रखे, हरा श्रींगरखा पहने, कमर में गुलाबी फैटे से तलवार फँसाए, हाथ में असा लिये उन्हें आवाज दे रहा है । उन्होंने धीरे से गौरा को बुलाकर कहा—“बिटिया, कह दे बाबू घरे नाहीं हौअन !” उसने सिर निकालकर पिता की बात दोहरा दी ।

“लौटै तड़ कह दिहे ख्यौढ़ी पर आवै । राजमाता कड़ हुक्म हौ,” बहेलिए ने कहा और पैर आगे बढ़ाया । राजमाता के इस सन्देश में साव को अनश्व वज्रपात की ध्वनि सुनाई पड़ी । उन्हें आशङ्का हुई कि यह बुलाहट उनसे रुपया ऐंठने के लिए हुई है । वह चिन्ता में पड़ गए ।

लबदन साव ने ‘रामदाने कड़ लेडुआ पैसा में चार’ की बानी बोलते हुए काशी की गतियों में धूम-धूमकर व्यापार आरम्भ किया था और कौड़ी-कौड़ी जोड़कर नखास पर हलवाई की दूकान खोली थी । ज्यों-ज्यों उनका उदर स्फीत होता गया ज्यों-ज्यों बाजार में उनकी दर चढ़ती गई और वह दमड़ी पर चमड़ी निछावर कर बैठे । उसी पैसे पर राजा की दृष्टि लगी देख वह बिलकुल ही घबरा उठे । झोटी सहुआइन ने उन्हें सान्त्वना दी, संकट से बचने का रास्ता बताया और कहा—“घबड़ैले काम न चली । रुपया-पैसा जमीन में गड़ल हौ, ओकर कउने चिन्तै नाहीं । दू चारठे गहना जउन उपर हौ ओके ले लड़ आऊर कुछ

कपड़ा-जल्ता सधे बांध लड़। चलू चलू हमरे नद्दहर। ई आफत पटाफ  
जाई तड़ लड्ड आये।”

साव को बात पसन्द आ गई। वह बोरिया-बँधना बाँध अपनी  
समुराल कर्णधरगटा की ओर चले। परन्तु रास्ते में वह काढ़ ही गया।  
उन्होंने समझ किया कि अब जान किसी प्रकार नहीं बचती। इसलिए  
बहेलिए की बात सुनकर उन्होंने आँसू-भरी दृष्टि से एक बार नागर की  
ओर देखा और फिर लाडी की तरह सीधे उन दोनों के चरणों पर गिर  
पड़े।

नागर को दया आ गई। परन्तु उसने कर्कश स्वर में पूछा—“बोल,  
बोल, लड़िका के काहे मरले।” साव ने पढ़े-पड़े ही हाथ जोड़कर उत्तर  
दिया—“हमार तनिकौं दोस नाहीं हौं गुरु! हमरे भागे पर लड़िकवा  
हमार हँसी उड़ावत रहलन।”

“तोहार हँसी उड़ावत रहलन?” नागर ने आश्चर्य में पड़कर पूछा।  
वह समझ नहीं पा रहा था कि बोरेन हेस्टिग्स के पलायन की बात से  
साव को हँसी कैसे उड़ाई गई। साव ने लज्जावश अपनी पत्नियों के  
सम्बन्ध में घोड़ी और हथिनी-विषयक अपनी कल्पना पर परदा डाल  
दिया। केवल इतना ही कहा—“तोहँऊं तड़ सुनत रहलड़ गुरु! लड़ि-  
कवा का कहत रहलन।”

“का कहत रहलन, तोहईं कहड़,” नागर बोला।

भेष-भरी दृष्टि से इधर-उधर देखते हुए साव ने इतना ही कहा—  
“खे, अब का कहीं! लड़िकवा यही तड़ कहत रहलन—

घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन  
जलदी से भाग गइलै लबदन सुदीन।”

नागर और लौटन दोनों ठाकर हँस पड़े। नागर ने कहा—“धर्तेरी  
की! सहुआ समझला कि जीनकड़ तुक सुदीन के सिवा अउर कुछ  
होई नाहीं सकत। जा भाग हियां से!” नागर ने साव को ठोकर लगाई

और स्वयं आगे बढ़ा। लड़कों की भीड़ ने जारा लगाया—

“घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन

जलदी से भाग गैल चरेनहेस्टीन ।”

सावजी ने मुँह बाकर कहा—“ऐ !”

## नागर नैया जाला कालेपनियाँ रे हरी

\* \* \* \* \*

: १ :

तत्त्वारिणा दाताराम नागर को जब बीस वर्ष कालेपानी-निवास की सजा सुनाई गई तब वारणट के नगपाश से मुक्त उनके संगी-साथी और चेले-चपाठी रो पड़े। उन बहादुरों का पथर-जैसा कलेजा भी हिल गया और दिचकिराँ बैध गई। हथकड़ों और डण्डा-वेडों से कसा हुआ नागर का छुरहरा बदन लौह-बन्धन की परवाह न कर लाठों की तरह सीधा तन गया। उसकी आँखों के डोरों की ललाई और भी गहरी हो गई। उसके पतले ओढ़ों पर घुणा-भरी मुस्कान फैल गई और उसने न्याया-धीश की ओर तरेकर देखा। जज से चार आँखें हुईं और नागर की आँखों की ज्वाला सह न सकने के कारण उसने आँखें नीची कर लीं। वह ओढ़ों में ही छुद्गुदाया—“बहादुर आडमी है!” पर नागर ने उसकी बात न सुनी। उसकी निगाह अपने मित्रों और चेलों की ओर घूम गई थी। उसने उन पर क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली और गरजकर कहा—“नामदौं की तरह रोते क्या हो? बीस बरस ब्रह्मा के दिन नहीं हैं, चुटकियों में उड़ जायेंगे। जाओ, बाबाजी से कह देना कि आब हमारे घर-द्वार का भार उन्हीं पर है। और मिर्जापुर वाले बाबाजी से कहना कि सुन्दर की खोज-खबर लेते रहेंगे। जाओ!”

उस्ताद का आदेश पाकर भारी मन और भीगा नयन लिये नागर के चेले अदालत के कमरे से बाहर निकले। नागर एक बार पैर के पैंजों पर खड़ा हो गया; सारी नसें कड़कड़ाकर बोल उठीं। उसने अपना

शरीर जरा दाहिने-बाएँ हिलाया और उसके सुजदएँ पर मच्छियाँ तैर गईं; बेड़ी झनझनाई और वह बँधे हुए शेर की तरह मूमता बरकन्दाजों के आगे-आगे चल पड़ा ।

: २ :

सन् १७७२ की काशी अपने गुण्डों के लिए प्रसिद्ध थी । वरेन हेस्टिंग्स द्वारा काशीराज्य की सूट के बाद जब विदेशी शासन ने बीरों को अपनी तलवारें कोष में ही रखने के लिए विवश किया तब उनके लिए सिंह-वृत्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त और मार्ग न रहा । राजा चेतसिंह की हुर्दशा देखकर जिस समय काशी अचेत होने लगी तब उनके नालायक बेटे, जो गुरड़े कहलाते थे, सचेत हुए और उन्होंने विदेशी ‘मलिक्छ्य’ के प्रति धूणा का व्रत लिया । ऐसे लोगों में दाता-राम नागर और भंगड़ भिन्नक प्रमुख थे । अलइपुर में, जहाँ आज छुतहा अस्पताल है, उसी के सभी पैतरनी-बैतरनी तीर्थ के बगीचे में भंगड़ भिन्नक का कुआँ था । बाग तो अब नहीं रह गया है पर कुआँ अब भी मौजूद है । वहाँ नागर का अखाड़ा भी था । वहाँ उन्हीं-जैसे लोग एकत्र होते और फिरंगियों तथा उनके सहायकों को चति पहुँचाने को योजनाएँ बनाई जातीं । बनारस में शम्भूराम परिठंत, बेनीराम पण्डित, मौलवी अलीउद्दीन कुबरा और मुन्शी फैयाज अली तथा मिजापुर में अँग्रेजों की ओर से ठीकेदार बनकट मिसिर अँग्रेजों के प्रमुख सहायक थे । कुबरा तो राजा चेतसिंह के पलायन के समय ही बाबू ननकूसिंह नजीब द्वारा मरा जा चुका था । बेनीराम और शम्भूराम गुण्डों के भयवश घर के बाहर बहुत कम निकलते । परन्तु मुन्शी फैयाजअली बनारस के नायब और बनकट मिसिर मिजापुर में रहने के कारण अपने को खतरे से बाहर समर्थते थे । नागर के मित्रों की राय हुई कि पहले मिसिर से ही निषट लिया जाय । नागर ने अपने भाई श्यामू और बिट्ठा को मिसिर के पास भेजकर कहलाया कि अगली पूर्णिमा को

ओफला के नाले पर आपको भाँग छानने का न्योता है। मिसिर ने निमन्त्रण स्वीकार कर कहका भेजा कि भोजन-पानी का प्रबन्ध मेरी ओर से होगा।

: ३ :

जेत की काल-कोठरी में पड़ा-पड़ा नागर अपने जीवन का हिसाब-किताब जोड़ रहा था। उसे विश्वास था कि भाँसी वाले हिम्मत बहादुर राजा अनूपगिरि गोसाई के पुत्र उमरावगिरि के काशी में रहते उसके परिवार को कोई कष्ट न होने पायगा और मिर्जापुर में गोसाई जथरामगिरि सुन्दर को खाने-पहनने का कष्ट न होने देंगे।

सुन्दर का स्मरण होते ही उसे ओफला के नाले वाली घटना भी याद हो आई। मिसिर अकोढ़ी विरोही के सौ लड़तों को लेकर आया था। नागर भी अपने भाइयों, मित्रों और शिष्यों की पलटन के साथ वहाँ पहले से ही पहुँच चुका था। एक ओर पचीसों सिल-बट्टे खटक रहे थे; दूसरी ओर कदाइयों में पूढ़ियाँ छून रही थीं। भाँग-बूटी छानने और खाना-पानी हो जाने के बाद चाँदनी रात में दोनों दलों में जमकर भिड़न्त हुई। बीच-बीच मिसिर चिल्हा उठाता था—“भगवती विध्य-वासिनी की जय!” साथ ही नागर की ललकार उसकी ध्वनि से जाटकराती—“जय भगवान हाटकेश्वर की!” दोनों ही अपने-अपने गिरोह से बाहर आकर एक-दूसरे से भिड़ने का हौसला रखते थे।

अल्प में दोनों पुक-दूसरे के सामने आ भी पड़े। नागर ने खांडा चलाया; मिसिर ने अपनी लाठी पर बार भेला। खांडे के पानी में लाठी तिनके-सी बह गई। मिसिर पीछे हटा, पर नागर रपेटता गया। तब मिसिर सहसा घूमा और भाग चला। नागर ने उसका पीछा किया। चाँदनी रात होने के कारण मिसिर नागर की दृष्टि से ओफल न होने पाता था। सहसा द्राताराम ने सोचा—‘भगवते शत्रु का पीछा करना अधर्म है’ वह उम्रक गया।

शृंखलाबद्ध नागर की देहियाँ खनखनाई हैं और अपने जीवन का यह गौरवपूर्ण अध्याय पढ़ते-पढ़ते उसकी छाती गर्वसफीत हो उठी। काल कोटी के मच्छर उसका खून पीते-पीते तृप्त हो चुके थे, इसलिए उनका सामूहिक आक्रमण बन्द हो गया था। फलतः बन्दी नागर की आँखें लग गईं। परन्तु जाग्रतावस्था के विचार निद्रा में भी स्वप्न बनकर उसके मस्तिष्क में मंडराते रहे। उसने सपना देखा—

वह मिसिर का पीछा छोड़कर लौट रहा है। आधी रात का समय है। चाँदनी सोलहाँस कला से खिली हुई है। नाले के उस पार बबूल पर बैठा हुआ धुम्कू रह-रहकर चिल्ला उठता है। शिकार की आशा में एक ही पैर पर शरीर का भार देकर खड़े बगुले के सफेद परों पर ज्योत्स्ना विखरी पड़ रही है। स्तिरध आलोक में पैरों के नीचे पीली मिट्ठी उष्ण निश्वास के साथ ही कठोरता छोड़कर शीतल और कोमल हो गई है। नागर ने अनुभव किया नीरव शनि की निस्तधता, तीव्र ज्योत्स्ना, दूर प्रसुप वनस्थली और चतुर्दिक फैली पीली मिट्ठी ने सारे वातावरण को जैसे पांशुमुख रुग्ण शिशु के समान करुण बना दिया है। साथ ही उसने यह भी देखा कि सामने टीके से सटकर सफेद गठी-सी कोई वस्तु पढ़ी है। उसने निगाह जमाकर देखा —मालूम हुआ कि वह कोई आवगुणठनावृत्त नारी-मूर्ति है।

नागर के शरीर के रोएँ भरभरा उठे, शरीर काँप गया और वज्ञ-स्थल के नीचे हृतिपेड ने एक बार अत्यन्त द्रुतगति से चलकर स्नायु-मण्डल को छिक्का-भिक्का-सा कर दिया। उसकी शून्य दृष्टि धूमती दुर्वै अपने हाथ के सांडे पर पढ़ी। खांडे की चमक आँख में उत्तर आई। उसे स्मरण हो आया कि लोहे के सामने प्रेत नहीं ठहरते। उसने खांडा सँभाला और आगे बढ़ा। उसे पास आते देख नारी-मूर्ति उठ खड़ी हुई और उसने लज्जा, संकोच, भय और दुर्विधा-भरी दृष्टि नागर पर ढाली। नागर ने भी उसे भर-आँख देखा और आँखों से ही उसका परिचय पूछा। नागर की पौरष-भरी मूर्ति देखकर वह कुछ आशवस्त-सी हुई।

नागर की नोकदार, भीनी, काली, ऊपर की ओर मरोड़ी हुई मूँछें, कमर में एक और बिछुआ और दूसरी और खोंसी कटार, लम्बा, छरहरा कमाया हुआ शरीर, पट्टेदार घुँघराले बाल और डोरा पड़ी रतनार औँखें देख उसका संकोच जाता रहा। अत्यन्त प्रगल्भा की तरह उसने हँसकर नागर का हाथ थाम लिया। नागर के शरीर में बिजली दौड़ गई। रक्तस्रोत के आलोड़न से उसके शरीर की माँसपेशियाँ सनसना उठीं। उसने उसे स्नेहाद्रि प्रबुध दृष्टि से देखा। उसके भी हाथ उठे और उसने ज्योत्सना-स्नात सुरापूर्ण पात्र के समान मदिर उस रमणीय खींच के कमनीय कलेवर को अपनी ओर खींचा। रमणी खिंचने का उपक्रम कर ही रही थी कि नागर चौंका और उसका हाथ छोड़ते हुए उसने हल्के झटके से अपना हाथ भी छुड़ा लिया। नारी गिरते-गिरते बची।

नागर को सहसा अपने पिता का वचन स्मरण हो आया था जो उसे बीरब्रात में दीक्षित करते समय उसके पिता ने कहे थे—“वेदा ! इस व्रत का धारण करने वाला पर-खींची को माता समझता है।” और उसके पिता वह व्यक्ति थे जिन्होंने नागर ब्राह्मणों के कुलदेवता भगवान हाटकेश्वर की स्थापना काशीजी में की थी। उसने तड़पकर पूछा—“तू कौन है ?”

“ऐसे ही पूछा जाता है ?” नारी ने उल्टे प्रश्न किया। नागर दो कदम पीछे हटा। नारी के समझ कभी परव न होने वाला उसका हृदय स्वस्थ होते ही पुनः स्विन्ध हो गया था। उसने हताशा-से स्वर में कहा—“अच्छा भाई, तुम कौन हो ?” नारी हँसी, उसने उत्तर दिया—“पहले एक प्रतिष्ठित ठाकुर की कुँवारी कन्या थी, अब किसी की रखैल कस-बिन हूँ।”

“ऐसा कैसे हुआ ?” नागर ने पूछा।

“वैसे ही जैसे यहाँ आते-आते तो तुम मर्द थे पर यहाँ आते ही देवता बन गए।”

“तुम्हें कसबिन किसने बनाया ?”

“सब मिसिर महाराज को किरपा है। साल-भर हुआ मैं अपनी बारी में आम बीज रही थी जहाँ से मिसिर ने मुझे उठवा मँगाया और कसबिन से भी बदतर बनाकर रख छोड़ा है।”

“इस बखत यहाँ कैसे आई हो?”

“सुना था आज मिसिर से किसी की बढ़ी है। देखने आई थी कि मिसिर का गला कटे और मेरी छाती टंडी हो।”

“अब क्या?”

“क्या कहूँ! भागती बखत मिसिर ने मुझे यहाँ देख लिया है। अब वही हुंदशा से मेरी जान जायगी। तुम्हारी सरन हूँ, रच्छा करो।”

नागर ने दो मिनट कुछ सोचा, फिर बोला—“तुम नारवाट चली जाओ। वहीं घाट पर मैं तुमसे मिलूँगा।”

रमणी फिर हँसी। नागर सुस्करा उठा।

कठोर भूमि पर पड़े कैदी ने करवट बदली। उसके जेल-यातना-पीड़ित मुख पर मधुर मुस्कान दौड़ गई। स्वप्न ने भी करवट ली। नागर ने देखा रमणी को विदा करके वह पुनः चलने लगा। सामने रास्ता एक घाटी में होकर जाता था, जो इतना संकरा था कि उसमें एक समय एक ही व्यक्ति के चलने का अवकाश था। नागर ने देखा मिसिर भी लौटा है और घाटी में आगे-आगे जा रहा है। नागर की आहट पाकर भी वह पीछे न धूमा, बढ़ता ही चला गया। नागर ने आवाज दी—

“ठहरो, मिसिर जी!”

“चले आओ नागर!” बिना घूमे ही मिसिर ने जवाब दिया। नागर ने उसके साहस पर विस्मित होकर फिर कहा—“मिसिर जी, तुम साली हाथ हो और मैं हथियारबन्द हूँ। कहीं पीछे से हमला कर दूँ तब?”

मिसिर ठाटकर हँस पड़ा। फिर बोला, “मालूम है तुम गुण्डे हो, ऐसा छोटा काम कभी कर ही नहीं सकते।” नागर सरल आनन्द से आप्यायित हो उठा। फिर पूछा—

“तब मैदान से भागे क्यों थे ?”

“तुम मेरी लाठी टूटी देखकर भी जोश में आगे बढ़े आ रहे थे; तुम भूल गए थे कि निरख शत्रु पर चार न करना चाहिए ।”

“लेकिन मिसिर जी, तुमने काम बहुत खराब किया है । एक तो अपना देश फिरंगियों के हाथ बेच दिया । उस पर एक कुँवारी कन्या की इज्जत भी उतार ली है । तुम्हें हमसे लड़ना ही पड़ेगा ।”

“मैं तो अब भी खाली हाथ हूँ भाई !”

“इससे क्या, मैं भी खांडा रखे देता हूँ । मेरे पास विछुआ और कटार भी है । इनमें से एक तुम ले लो । बस यहाँ निवट जाय ।”

स्वप्न में युद्ध के घात-प्रतिघात के साथ ही उसके मुख पर भी विभिन्न रेखाएँ बन और बिगड़ रही थीं । उसने वैसी ही दीर्घ साँस ली जैसी मिसिर के कलेजे में कटार उतार देने के बाद उसने घटनास्थल पर ली थी । उसकी आँख खुल गई । स्वप्न ने उसे चिन्तित कर दिया था । समाज से बहिष्कृत सुन्दर को उसने निःस्वार्थ-भाव से आश्रय दिया था । नारघाट पर किराये के एक मकान में उसे टिकाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह उसे मिर्जापुर की पेशेवर गानेवालियों से गाने बजाने की शिक्षा दिलाने लगा । जब कभी वह मिर्जापुर जाता तब उसकी सारी व्यवस्था देख-सुन दिन रहते ही उसके यहाँ से चला आता । रात उसके घर कभी न ठहरता । उसे वह सुन्दर पुकारता था । वह उसे सुन्दर लगती थी ।

: ४ :

श्रावण कृष्ण-सप्तमी का चन्द्रमा आकाश में उदय हो गया था । बन्दी ने उंडी साँस खींची । वेही के चुभने से उसे कहीं पीड़ा हुई । उसने अपनी स्थिति अनुभव की और फिर वह स्थिति लाने वाली परिस्थिति पर विचार करने लगा—

मिर्जापुर में ही उसे खबर मिली कि बनारस के नायब फैयाज़अली

इस बार फिर मुहर्मी जलूस के दुलदुल घोड़े को ठेरी बाजार की ओर से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्पनी का राज होने के बाद गत दो वर्षों से फैयाज़अली मुहर्म के जलूस के लिए नया रास्ता निकाल रहे थे। दो बार तो नागर ने उधर से जलूस न जाने दिया था। इस बार उसने सुना कि फैयाज़अली जलूस के साथ पलटन भी भेजेंगे। नागर का इक उबल पड़ा। वह मिर्जापुर से सीधे बनारस आया और सुन्दिया होते ठेरी बाजार में उस समय पहुँचा जब दुलदुल घोड़ा उसके ठीक सामने से ही जा रहा था। उसने तड़पकर खांडे से घोड़े पर बार किया। घोड़ा दो टूक होकर ढेर हो रहा। पलटन भी नागर पर दूट पड़ी। गोरों की संगीनों और तिलंगों की तखारों से नागर के खांडे की लड़ाई थी। संगीने झुक गईं, तखारे मुढ़ गईं और खांडा रास्ता चीरता हुआ बढ़ता चला गया।

नागर ने ब्रह्मनाल जाकर उमरावगिरि की बावली के एक नाले में अपने को छिपाया। पर वहाँ अपने को सुरक्षित न समझ वह एक रात राजघाट की खोह में जा द्यसा। एक दिन कठेसर निवटने जाते समय मुख्यिरों से खबर पाकर गोरों और तिलंगों की सेना ने उसे किर जा वेरा। खाली हाथ केवल लोटे से दो-चार सैनिकों की खोपड़ी तोड़ने के बाद नागर गिरफ्तार हो गया।

नागर को जीवन-भर का हिसाब-किताब जोड़ने के बाद अनुभव हुआ कि मेरा जीवन सार्थक है। उसने सन्तोष की साँत ली।

#### : ५ :

नागर को सज्जा सुनाई जाने के दो दिन बाद जिस रात आवण कृष्ण-नवमी का चन्द्रमा उदित हुआ उस समय आकाश मेघाच्छमा था। अस्पष्ट फीके आलोक में व्यक्ति और वस्तु की सीमा-रेखा तो समझ में आ जाती थी पर वह स्पष्ट दिखाई न देती थी। हलके-फुलके मेवों के दल इधर-उधर उड़ते फिर रहे थे। आकाश के एक कोने में

एक चमकदार तारा किलमिला रहा था । इसी समय गोसाई<sup>१</sup> जयराम गिरि, भंगड भिज्जुक और नागर का एक चेला विरजू चीलह गाँव में इन्हें पर से उतर नारघाट जाने के लिए नाव में सवार हुए । उन्हें यह स्वधर न थी कि सुन्दर को नागर के कालेपानी जाने की खबर मिल चुकी है । उन्हें यह भी न मालूम था कि सुन्दर इस समय भी उस पार नारघाट की सीढ़ियों पर बैठ बढ़ी गङ्गा के पानी में पैर मुक्काए आकाश की ओर एक-टक देख रही है; वह सोच रही है कि सिर पर यह जो नीला आकाश है, आखिर वह है क्या ? उसके पार भी क्या इसी प्रकार सुख-दुःख और हास्य-स्दूर से भरा हुआ पृथ्वी के ही समान कोई स्थान है जो इसी प्रकार फल-फूलों और लताओं से झँझील हो रहा है ? वहाँ भी क्या ऐसे ही नर-नारी हैं ? वहाँ पर भी क्या ऐसे ही तुसिहीन, आश्रयहीन गृह हैं ? ऐसी ही लांछना है, ऐसा ही अविचार है ? नागर से उसका कितना अल्प परिचय था; फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका जन्म-जन्मान्तर का परिचित हो । वही नागर कालेपानी गया । सुन्दर सोचने लगी—‘कालापानी कहाँ है ? दूर, बहुत दूर कोई टापू है जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता ।’ सुन्दर का हृदय भर आया, उसके ऊँठ हिले । वह गुनगुनाने लगी—

“धरे रामा, नागर नैया जाला कालेपनियाँ रे हरी ।

सद्यकर नैया जाला कासी हो बिसेसर रामा,

नागर नैया जाला कालेपनियाँ रे हरी !”

उसका स्वर क्रमशः छँचा हुआ । निस्तब्धता की छाती चीर उसकी कहण ध्वनि आकाश में गूँजी । सूने पाषाण-तट, चंचल तरंगें और नौका पर सवार नागर के साथी सुनने लगे—

“धरवा में रोवै नागर, माई औ बहिनियाँ रामा,

सेजिया पै रोवै बारो धनियाँ रे हरी !

खुँटिया वै रोवै नागर ढाल तरवरिया रामा,

कोनवाँ में रोवै कड़ाबिनियाँ रे हरी !”

भी गेहूपूर्ण रंग की लुंगी कमर से बाँध रखी थी और शीत शत्रु होते हुए भी उसके शरीर पर गेहूपूर्ण रंग के जरी के एक दुपट्टे के सिवा और कोई वस्त्र न था। स्नेह-सिर्फ अमर-कृष्ण कुन्तित केश उसके कन्धों पर लहरा रहे थे और इसके साथ ही कानों के ठीक नीचे कटा चौड़ा पट्टा उसके मूँछ-दाढ़ी-मुड़े गोरे मुख-मण्डल पर ऐसा जान पढ़ता था जैसे सहस्र पूँछों और दो हाथों वाले सर्प ने किसी कनक-गोलक के दोनों ओर अपना पंजा जमाकर, उससे चिपक अपनी सारी पूँछें पीछे लटका दी हों।

उसके सरिमत ओष्ठाधर पान के रस से रंगे थे और नशे से डग-मग उसकी बड़ी-बड़ी मढ़-भरी आँखों में सुरमे की गहरी बाढ़ थी। दोनों कानों में एक-एक रुद्रालं की बाली और गले में स्फटिक का कण्ठा झूल रहा था। चौड़े लताट पर भ्रम का त्रिपुण्ड दमक रहा था और त्रिपुण्ड के बीच में एक सिन्दूरी टीका था। कन्धे के नीचे चौड़े फल का भीषण कुठार लटक रहा था। उसके पीछे सैकड़ों आदमियों की भीड़ थी।

गन्धियों ने दौड़िकर लक्षकों द्वारा मर्ता, मालियों ने गजेरे पहनाए और सेठ-साहूकारों ने रुपये-पैसे की भेट दी। वह काशीवासियों की बीर-वृत्ति का प्रतीक था। दाताराम नागर और भंगड़ भिज्जुक की जोड़ी नगर में राम-लाचमण की जोड़ी कहलाती थी। छः महीने पहले दाताराम कालेपानी गया और उसी दिन से भिज्जुक भी नगर से अन्तर्धान हो गया था। आज भिज्जुक के फिर प्रकट होने की बात जो जहाँ सुन्नता, वह वहीं से उसे देखने के लिए दौड़ पड़ता। शिवाला घाट पर बनी छंगेजों की कब्रें भिज्जुक के पौरूष की साक्षी थीं और उसी सिलसिले में आज उसकी गिरफ्तारी के लिए डौड़ी पीटी जा रही थी।

घरटे-सबा घरटे तक गाते-बजाते हुए समूचा चौक घूम लेने के बाद, बाजार के मध्य में स्थित शिव-मन्दिर के ऊँचे चबूतरे पर भिज्जुक चढ़ गया और उसने ऊँची आवाज में कहा—‘पंचो, आप सब लोग डौड़ी सुन लुके हो। पाँच सौ कलदार कम रकम नहीं है। जिसे हनाम

का हौसला हो सामने आये।”

भिज्ञुक की बात सुनकर उपस्थित लोगों में से कुछ हँस पड़े, कुछ मौन रह गए और शेष सभीत नेत्रों से कच्छरी की ओर देखने लगे। चाँदनी चौक के—जिसे आजकल गुदामी बाजार कहते हैं—दक्षिणी दरवाजे के ठीक ऊपर उन दिनों कच्छरी थी। न जनता में से उसकी ओर कोई बढ़ा और न कच्छरी से ही किसी ने झाँका। यह देख भिज्ञुक के अधरों पर उस भुवन-मोहन भुस्कान की रेख बिच गई जो यदि पुरुष के सुँह लगती है तो उसे देवता बना देती है और जब नारी के अधर पर खेलती है तो नारी कुछाटा कहलाने लगती है। समवेत जनसमूह पर उसी मुस्कान की मोहिनी डालते हुए उसने कहा—“आच्छा, अब चलता हूँ। कोतवाली जाकर तनिक कोतवाल का भी हौसला देख लूँ।”

: २ :

पौष की सन्ध्या सिहरने लगी थी। दालमण्डी में अमीरजान तथायक की दिव्य हवेली के दूसरे खण्ड बाले कमरे में तबला ठनकने लगा था। दीवारों पर टैंगे शीशे में दीपाधारों में मोमबत्तियों के गुल खिल चुके थे। खिड़कियों के छुर्जों में फूलों के गजरे लटकाए जा चुके थे। ठेका, सारंगी और मजीरे की सहायता से अमीरजान पीलू पर ‘रियाज’ कर रही थीं—“पीहा है, पी की बोली न बोल !”

अमीरजान ‘स्थायी’ समाप्त कर ‘अन्तर’ पर आ ही रही थीं कि उसी गली में हलाचल की आहट लगी। उसने देखा कि सामने की खिड़कियों में वेश्याओं का समूह बाहर गला निकाले गली में उत्सुकतावश कुछ देख रहा है। अमीरजान भी उठकर खिड़की पर आई। उसने देखा कि बूढ़े, अपाहिजों और भिखारियों को स्पष्ट-पैसे लुटाता मस्त मन्थर गति से गली में भंगड़ भिज्ञुक चला जा रहा है। उसके पीछे-पीछे आदमियों की बड़ी भीड़ है। लगर की प्रसिद्ध सुन्दरी बीरांगनाएँ अपने-अपने फरोखों पर डटी हैं, परन्तु भिज्ञुक की दृष्टि चतुर्दिक बक्कर

लगाने में ही व्यस्त है; उसे ऊपर देखने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। सौन्दर्य का यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ। वह स्वयं भी नगर की प्रसिद्ध वेश्या थी। उसके रूप की तृती बोलती थी। सुर ने उसे असुर की शक्ति दे रखी थी और तान ने उसे शैतान बना रखा था। हन्हीं दोनों के बल वह हृदयों पर आधिपत्य जमाती थी और उनके सारे रस का शोषण कर अन्त में उन्हें बरबाद कर देती थी।

औरों की तरह उसने भी भिन्नुक को देखा, औरों ही की तरह वह भी उसके रूप पर सुख हुई, किन्तु यह देखकर वह औरों से कहीं अधिक दुखी हुई कि अशक्तियों के मोल चाली उसकी मुस्कान का मोती भिन्नुक की नयन-झोली में न गिरकर सङ्क की धूल में लोट रहा है। तब औरों से बढ़कर उसने एक काम किया, अर्थात् पश्मीने का शरवती शॉल अपने शरीर से उतार उसने भिन्नुक के ऊपर डाल दिया। भिन्नुक ने शॉल नीचे खींचते हुए चौंककर सिर ऊपर उठाया। अमीरजान से उसकी चार ओरें हुईं। विजय-गर्व से भरी छुरी की धार-जैसी तीखी मुस्कान अमीरजान के अधर पर खेल गई, किन्तु वह देर तक न बनी रह सकी। भिन्नुक ने निशाना साधकर अपने हाथ की रूपयों-पैसों से भरी थैली ऊपर उछाली और वह पूरे ज़ोर से अमीरजान की नाक के सिरे पर तड़ाक से जा बैठी। उसकी नाक से रक्त टपकने लगा मालो किसी लचमण ने पुनः किसी शूर्पेण्याखा का नासिका-छैदन किया हो। भिन्नुक ठड़ाकर हँस पड़ा।

टीक उसी समय बगल की मस्जिद से एक कदर्य, कुरुप और बुढ़ी भिखारिन बाहर निकली। वह सैकड़ों पैबन्द-लगा पाजामा पहने थी। उसका कुरता तार-तार हो रहा था और चादर के नाम पर उसके पास एक चीथड़ा-मात्र था। उसने भी वेश्या-भिन्नुक-काण्ड देखा। उसके झुरियों से भरे पोपते मुँह से एक विचित्र ध्वनि निकली, जिसे हँसी भी कह सकते हैं और खाँसी भी। हाथ की लठिया पर सारे शरीर का भार देकर वह तन गई और अपनी गन्दी औंगुलियों से भिन्नुक का

चिन्हुक छूती हुई बोली—“वारी जाऊँ बेटा, शावाश !” बोगों को आशंका हुई कि कुछ भिच्छुक कहीं बूढ़ों को ढकेल न दे, परन्तु भिच्छुक ने दृष्टि और वाणी दोनों ही में कौतुक भरकर कहा—“माई, तू कहाँ ? अच्छा, आ ही गई तो कुछ लेती जा ।” और उसने शीत से थरथर बूढ़ी की जर्जर काय पर अमीरजान की शॉल डाल दी । बूढ़ी बदले में दुधा तक न दे पाई थी कि भिच्छुक आगे बढ़ा ।

“और कोतवाली आ गई । भिच्छुक के पीछे चलने वालों की संख्या अब तक हजार के ऊपर पहुँच चुकी थी । सभी उत्सुक थे कि देखें कोतवाली चलकर कैसे निपटती है । भिच्छुक के बल और जीवट, शस्त्र-कौशल और शास्त्र-ज्ञान, कुश्ती की निपुणता और संगीत की साधना आदि का हाल बनारस का बच्चा-बच्चा जानता था । साथ ही नये अंग्रेजी राज्य के कायदे-कानूनों की हृदयहीन पावन्दी का स्वाद भी काशी की जनता को अल्प समय में ही मिल चुका था । उस जनता का विश्वास पूरा था कि आज अद्भुत विराट् और ‘अवसि देविए देखन जोगू’-जैसी कोई बात होकर ही रहेगी । स्वभाव से ही तमाशबीन काशी के नागरिकों की उत्क्षणा जाग गई थी । परन्तु जब कोतवाली सामने आ गई तो कोरे तमाशबीन कतराने लगे, कायर छितराने लगे ।

वर्तमान चौक थाने के सामने जहाँ आज सवारियाँ खड़ी होती हैं, एक कुआँ था और कुएँ के चतुर्दिंक मैदान । तरकालीन काशी में गोल-गप्पे-कचालू की एकमात्र दूकान नियंत्र शाम उसी कुएँ पर लगती । थाने के दक्षिण ठीक सामने सड़क की पटरी पर कोतवाली थी । भिच्छुक ने कुएँ की ऊँची जगत पर खड़े हो कोलवाढ़ी की ओर सुँह उठाकर आवाज लगाई—“हुजूर कोतवाल साहब ! भिच्छुक छोड़ी पर आया है । क्या हुक्म होता है ?”

कोतवाल साहब मिनके तक नहीं और जो दो-एक बरकनदाज कोतवाली के फाटक पर थे, वे भी भीतर चले गए । भिच्छुक ने भैरव विषाणु के घञ्चनाल के समान भयंकर अद्भुतास किया । एकत्र जनसमूह का कौतू-

हल यान्त हो गया था। लीगों ने मान लिया कि सरकार भिजुक से पराजित हो गई। उन्हें अचरज न हुआ। वे जानते थे कि सदा से ही सरकार भिजुकों से हार मानती चली आई है और भविष्य में हार मानती जायगी। भिजुक पर उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। भिजुक भी धीरे-धीरे दो-चार घनिष्ठ साधियों के साथ कृत्या अजायबसिंह (वर्तमान कचौड़ी गली) पार करता हुआ अपने पंचरंगा घाट वाले आड़े की ओर चला।

: ३ :

भिजुक का तन थकावट से चूर और मन चिन्ता से जर्जर हो रहा था। वह गंगा-तट की एक मढ़ी पर जा बैठा। उसके साथी सब जगाग की सैर का डौल लगाने लगे। कल दोपहर से वह बरायर चल रहा था। सोने की बात ही क्या, उसे बैठने तक का अवसर न मिला था। वह पूरब की ओर मुँह करके लेट रहा।

शिशिर की सन्ध्या थी। पौष पूर्णिमा का हिमश्वेत चन्द्र नैशविहार के लिए निकल पड़ा था। उधर पानी से उठता हुआ कुहास कमशः दिग्नन्तव्यापी होने का प्रयत्न कर रहा था। प्रतीत होता था कि आकाश-गंगा के तट पर बैठी चन्द्रसुखी ने पार्थिव गंगा के ऊपर अपना सघन केश-जाल लटका दिया है। इस पार से उस पार की कोई वस्तु दिखाई न पड़ती थी, परन्तु भिजुक उसी ओर देखना चाहता था।

वह देखना चाहता था उस काली चाकूर के पीछे छिपे एक कच्चे दो-मंजिले ध्वलगृह को और वह देखना चाहता था उस ध्वलगृह में आलोक-शिखा-सी स्थित ध्वल सौन्दर्य की स्वाभिनी मंगला गौरी को। मंगला गौरी ने कल उसे बाल-बाल बचा लिया था। उसने उसे देखते ही पहचान लिया था, परन्तु भिजु ने उसे तब पहचाना जब उसने अपनी आम की फाँक-जैसी आँखों से अशुरस उलीचते हुए गद्गद करण ले पूछा था—“क्या गौरी की तपस्या अब भी पूरी नहीं हुई?” और तब

वह उसे पहचानकर पुनः दूसरी रात आने का वचन दे बैठा। वही से उसके मन में एक ही प्रश्न चक्कर काट रहा था कि क्या त्यागी हुई वस्तु पुनः ग्रहण की जा सकती है।

मंगला गौरी उसकी पत्नी थी। परन्तु उसने उसका मुख जीवन में दो ही बार देखा था—एक विवाह की रात और दूसरे तेश्वर वर्ष बाद पिछली रात। भिल्लुक ने अलवर के एक ऐसे चारण कुल में जन्म लिया था जिसकी जीविका का साधन कड़खा-पाठ न होकर असिस्तेंसालन था। उसे जन्म से ही व्यायाम और शास्त्र-संचालन की शिक्षा मिली थी। तेरह वर्ष की आयु में उसका विवाह जैसलमेर में हुआ। श्वसुर राज-स्थान के प्रसिद्ध चारण थे। कितने ही राजाओं ने ‘लाखपसाव’ और ‘कोट्यपसाव’ से उनका सम्मान किया था। उत्तर वर्ष में उन्होंने नाथ-द्वार जाकर करणी बैधवा ली थी। उसके बाद ही कन्या के रूप में उनके घर में प्रथम सन्तान ने जन्म लिया। कन्या पिता की आँखों की पुतली हो गई। अनजाने ही पुत्री पर भी पिता का रंग चढ़ने लगा। पिता पूजा करते और पुत्री गोविन्दलाल की प्रतिमा के समक्ष नाचती हुई तो ताली बोली से गाती—“मैं तो गिरधर आगे नाचूँगी!”

भिल्लुक को विवाह की रात की वह घटना याद आई जब सप्तपदी समाप्त होने पर सुराज की स्त्रियों ने उसको कविता और दोहा सुनाने के लिए कहा और वह मौन रह गया था। कारण तब तक उसे अपना नाम चन्द्रचूड़ को चनरचूर बताने का अभ्यास था। उसके चुप रह जाने पर महिलाओं का मर्म स्वर उसके कानों में धनुषट्कार की भाँति गूँज उठा—“मूर्ख है!” चतुर चतुरानन की चातुरी वहाँ भी चल गई। नैश जागरण से नींद में आती, भागवत के सैकड़ों करणस्थ रखनेवाली मंगला के भी मुख से प्रतिध्वनि की तरह निकल पड़ा—“मूर्ख है!”

वह अपढ़ था, परन्तु अज्ञानी नहीं। और मूर्ख यदि बलवान हुआ तो फिर उसके स्वाभिमान की सीमा नहीं रह जाती। वह उठ खड़ा हुआ और महिला-मण्डल को ढकेलता बाहर निकल आया। रात की

अन्धेरी में अपने को छिपाता वह जंगल में भागा और सहभूमि में महीनों का मार्ग पारकर वह काशी आ पहुँचा। यहाँ उसने विद्या पढ़ी, विद्वान् भी हुआ, पर फिर वह लौटकर नहीं गया।

भिज्जुक की विचारधारा में बाधा पड़ी। उसके एक साथी ने आकर कहा—“गुरु, तैयार हो गई।”

“बहा जाहा है, आज तो पञ्चरत्नी छानूँगा,” भिज्जुक ने कहा।

“अच्छा तो अभी तैयार हुई जाती है,” साथी ने कहा।

वागदृच्छा और धृतरो के बीज के साथ सिल पर संखिया की दो लकीर खींच भिज्जुक के हिस्से की भाँग पुनः पीसी गई। गोला तैयार होने पर उसके पेटे में थोड़ी आफी मख ढी गई और चुलतू-भर जल के सहरि भिज्जुक ने वह गोला अपने उदर में उतार दिया। आकाश को अपनी ताज से गुँजाते हुए वह उठ खड़ा हुआ। गंगा की जहरों ने प्रतिष्ठनी की—

“विष रस पीने का मज़ा कण्ठ से नीलकण्ठ के पूछो!”

: ४ :

दस बजे रात गंगा में ११ हुबिकियाँ लगाकर जब भिज्जुक बाहर निकला तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शीत के प्रहार से उसका नशा उखड़ गया है। उसके संगी-साथी विदा हो गए थे। उसने बदन पौँछते हुए घाट के किनारे स्थित अपनी मढ़ीसुमा खोह में प्रवेश किया। दीवट पर मुत्प्रदीप जल रहा था और भूमि पर वाघस्वर पड़ा था। उसी पर बैठ गौंजे की दम लगाते हुए वह विचार करने लगा। अभी तक वह हस प्रश्न की मीमांसा न कर पाया था कि जिसका ल्याग कर दिया उसका पुनर्गहण उचित है या नहीं। विधि और निषेध दोनों पहलू उसके सामने आते थे। ‘ल्यागी हुई वस्तु उचित है, मानो उसे ग्रहण नहीं करते। नारी साधना-पथ का अन्तराय है, मैं साधक हूँ।’

पुनः दूसरे ही दण वह सोचता—‘गौरी मेरी सहधर्मिणी है। वह

जैसी सुन्दरी है वैसी बुद्धिमती भी । उससे मुझे कर्तव्यपालन में सहायता ही मिलेगी । उसका मैंने पाणियहण किया है । उसका भरण-पोषण करना मेरा कर्तव्य है । मैं उसे वचन दे आया हूँ, वह मेरी प्रसीका करती होगी ।’ प्रश्न के इस सामाजिक पहलू ने निर्णय कर दिया । वह अभिभूत-सा धीरे-धीरे खोह के बाहर निकला । एक नाव खोली । उस पर बैठ उसने उसे धारा में छोड़ दिया और स्वर्यं भी विचारधारा में वह चला । उसके हाथ यन्त्रवत् नाव खे रहे थे । वह सोच रहा था कि यदि वह न होती तो सिपाही मुझे अवश्य पकड़ लेते । मैं खाली हाथ थका-माँदा और पैदल था; वे हथियारबन्द, घोड़े पर संचार थे । न जाने कैसे पहचान लिया दुष्टों ने ! अलीनगर से कटेसर तक ढौङा मारा । पर उन्हें पता भी चल गया होगा कि आज किसी से पाला पड़ा है । सब तो पीछे रह गए, परन्तु वह ससुरा हवलदार, उसने अन्त तक पीछा न छोड़ा ।

नाव किनारे लग गई । भिन्नुक उस पर से उतरा । रेती में खूँटा गाड़कर उसने नाव उसी में बाँध दी और स्वर्यं गाँव की ओर चला । फीकी चाँदनी में शुगाल चन्द्रमा की ओर सुँह उठा-उठाकर चौकार कर रहे थे । गाँव में पहुँचते ही कुत्ते उसके पीछे-पीछे भौंकते चले । मंगला गौरी के ओसारे के सामने पहुँच भिन्नुक ने देखा कि ओसारे में काठ की चौकी पर बैठा वही हवलदार सूँद्रों पर हाथ फेरता हुआ बड़े स्वर से रामायण की चौपाइयाँ उड़ा रहा है—

“हे खगमृग हे मधुकर श्रेष्ठी ।  
कहुँ देखी सीता मृगनैनी ॥  
तुम आनन्द करहु मृग जाये ।  
ये कञ्चन-मृग हेरन आये ॥”

भिन्नुक सामने नाँद के पीछे, जहाँ वह पिछली शाम छिपा था, आकर खड़ा हो गया । कल शाम वह यहीं बैल बाँधने के खूँटे से ठोकर खाकर तृष्णातुर गिर पड़ा था । गौरी वहीं खड़ी नाँद में बैलों के

लिए सानी दे रही थी। उसके गिरते ही वह पास आई थी। उसे देखते ही वह चौंकी थी और बगल से आती धोड़ी की टाप की आवाज सुनकर नाँद की ओर अँगुली उठाकर उसने भरे गले से कहा था—“वहाँ, नाँद के पीछे!” और वह कठिनाई से नाँद के पीछे छिप पाया था कि धोड़ पर चढ़ा यही हवलदार आया। उसने पूछा था—“गौरी, इधर से कोई आदमी अभी भागा है?” और गौरी ने ज्ञान-भर का भी विलम्ब किये बिना उत्तर दिया था, “नहीं तो, मैं आज दरवाजे पर दो घण्टे से हूँ।” इस पर हवलदार ने कहा था कि ‘अच्छा, थोड़ा पानी पिला।’

यह बात याद आते ही भिन्नुक ने देखा कि सामने का दरवाजा खुला और गौरी अपने हाथ में दूध-भरा कटोरा लिये निकली। उसने हवलदार से कुछ कहा। हवलदार ने सुस्कराकर कटोरा उसके हाथ से ले अपने सुँह लगाया। भिन्नुक की पीठ पर जैसे कोहा पड़ा। वह वहाँ से सरपट भागता हुआ गंगा-तट पर आया, नाव खोलकर उस पर बैठ गया और उसे खेते हुए मन-ही-मन अपने को धिक्कारने लगा—‘ओह, मैं पढ़-लिखकर भी भूख ही रहा। मैं अपनी कामुकता को कर्तव्य का चौका पहना रहा था। रूप के लिंगिक आकर्षण में मैं अपनी आजन्म साधना नष्ट करने जा रहा था। मैंने एक बार भी यह न सोचा कि ‘जैसलमेर की यह गोरेड़ी’ यहाँ कैसे चली आई और फिर यहाँ वह एक पुरुष के साथ रहती है, उससे सुस्कराकर बात करती है, उसे कटोरा भर-भर दूध पिलाती है।’

भिन्नुक के हाथों में डाँड़ा और विचार में उर्ध्व-बुन चल रहा था। तरी के पुष्ट बायु को तरावट से जब उसका मस्तिष्क कुछ ठरड़ा हुआ तो विचारों की धारा भी दूसरी ओर बूझी। आत्म-निन्दा के भाव ने विपरीत दिशा में जोर बांधा। भाव-सबलता के कारण उसके ओंठ हिल उठे और मन के विचार बड़बड़ाहट के रूप में लिकल पड़े—बिना समझे-बूझे निर्णय यही कहलाता है। केवल अनुमान के आधार पर मैं ‘यत्परोनास्ति’ चिन्ता में पड़ा हूँ। हो सकता है, हवलदार उसका कोई निकट सम्बन्धी

हो। उससे मिलकर पूछ लेने में ही क्या बुराई थी? पर वात यह है कि सब साध्य साधना करने पर भी जेरा मन साधारण जन की ही तरह अब भी ईर्ष्या-द्वेषग्रस्त है। विवाह की रात की तरह ही अब भी ऐसे घड़ियु जाग रहे हैं, अन्यथा मेरे नाम से डौड़ी पिट रही है, वह सुनकर मुझे नगर में लिकल पड़ने और दिन-भर घूमते रहने की क्या ज़रूरत थी। मेरे साथ बड़ी भोड़ थी, इसी से मेरे साथने आगे की किसी ने हम्मत न की। नहीं तो पकड़े जाने पर जो-कुछ लोगा वह मुझसे छिपा नहीं है। नगर कालापानी गथा, मैं काँसी जाऊँगा। अपनी जलन के कारण मैं गौरी के प्रति दूसरी बार आन्ध्याय करने जा रहा था।

और आधी गंगा पार कर लेने पर भी उसने अपनी नाव पुनः कटेसर वाले पुल की ओर चुम्बा दी। नाव चुमते ही उसने चकित होकर देखा कि उससे योड़ी ही दूर पर राजवाट की ओर से २०-२५ नावों पर सबार गोरे सैनिक उसी की नाव की ओर जड़े आ रहे हैं। उसने जलदी से नाव चुम्बा और सैनिकों को अपनी ओर बन्दूक छतियाते देखा। गोलियाँ छूटने के पहले ही वह पानी में कूद पड़ा। यथासम्भव अधिकाधिक ढुबकी लगाता हुआ वह किनारे पर पहुँचा और हँकवे में फँसाए सिंह के समान तीर की तरह वह अपनी गुफा में छुस गया। सैनिक भी नावों से उतर खोह के दरवाजे पर जड़े हो गए।

#### ५ :

सैकड़ों करड़ों से उठी उल्लास-ध्वनि गंगा की लाझरों पर लुढ़कती, रेती पर दौड़ती और चने के खेतों पर से उड़ती जब यदुनाथ हवलदार के दोमंजिले मकान में घुसकर भूमि पर सोई भंगला गौरी के कर्ण-पुटों से टकराई तो उसकी आँखें खुल गईं। उसने ध्वनि का अनुसरण करते हुए पश्चिमी दीवार में बने हुए गवाच से बाहर फँका। घनश्याम तरु-राज के अन्तराल से उसने देखा कि श्यामल शस्य-चेत्रों और बालू-भरी भूमि के बाद गंगा पर क्रमशः ऊपर उठती धूम्राशि माधवराव के धर-

हरे के कंगूरे पर चिराट आजगर-सी कुण्डली बाँध रही है ।

आज गौरी ने शत आँखों में काटी थी । नित्य भूमि पर शयन का नियम रखते हुए भी उसने आज शय्या बिछाई थी और उस पर सूचि-कार्य-खचित आस्तरण भी लाले रखा था । पर जिसे उस शय्या पर शयन करना था, वह आवा ही नहीं । सारी शत प्रतीक्षा करने के बाद जब भोर में दक्खिणी बायु चली तो उसकी पक्काएँ झप गईं । और अब उठने पर देख रही है कि उसके नयन और मन में ही नहीं गंगा-पार भी आग लगी है । सहसा किसी ने देखाजा खट्टलटाया; गौरी के किवाह खोलते ही एक पड़ोसी की चंचल और हँसोड़ मुत्री गेंदा लूफान की तरह कोठरी में घुसी और गौरी के गले में हाथ डाल फूलों के हार-सी मूलती हुई उसने कहा—“जीजी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ । चिल्हाते-चिल्हाते गला बैठ गया । तुम क्या कर रही थीं ?”

“सबेरे-सबेरे मुझसे तेरा कौनसा काम आटक रहा था, गेंदा ?” गौरी ने उससे अपना गला छुड़ाते और मुस्कराते हुए कहा । तेरह वर्ष की अल्हड़ छोकरी गेंदा को गौरी से कोई काम न था । वह केवल उसे यह समाचार देने आई थी कि उस पार नगर में आग लगी है । सो उसने कहा—“काम तो कुछ नहीं था, जीजी ! उस पार आग लगी है । गाँव-भर देखने गया है । मैं भी किनारे तक गई थी ।”

“अच्छा !” गौरी ने विस्मय का अभिनय करते हुए कहा ।

“अच्छा क्या ? सोचा था तुम्हें भी साथ लेती चलूँ । खिल्डकी के नीचे खड़ी होकर कितना चिल्हाई । रोज तो तुम चार बजे भोर से ही उठकर क्या-क्या गाया करती थीं । आज तुम्हारी आहट ही नहीं मिली । हाँ, वह गीत तो गाओ जीजी—‘झाँगे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला ।’ ” यह कहकर गेंदा खिलखिलाकर हँसी । फिर तत्काल संयत होकर बोली—“अच्छा जीजी, ये सब गीत तुमने सीखे कहाँ ?”

अल्हड़ गेंदा प्रश्न-पर-प्रश्न करती जा रही थी, बिना यह खयाल किये कि उसके प्रश्न गौरी के हृदय पर हथौड़ की चोट कर रहे हैं । फिर

भी गौरी ने कहा—“हज़में बताने की क्या बात है ? मेरे बाप श्री गोविन्द-लाल के उपासक थे न ! उन्हीं से यह सब सीखा है। उनके गोलोक-धाम जाने पर जब दामादों ने मेरी सब सम्पत्ति छीन ली तो मैं अपने मामा के पास चली आईं। मामा ने जब काशीराज की सेना में नौकरी की तो मैं भी यहाँ चली आईं।”

“अच्छा, एक गीत गाओ जीजी ! मुझे बड़ा अच्छा लगता है,” गेंदा ने कहा।

“इस समय चित्त ठिकाने नहीं है गेंदा, फिर कभी गाऊँगी !”

“नहीं मेरी अच्छी जीजी ! दो हो एक कड़ी सुना दो,” गेंदा ने बच्चों की तरह मच्छरते हुए कहा। अन्त में गौरी को गेंदा के हठ के सामने झुकना पड़ा। उसने शून्य-शथ्रा की ओर देख गुनगुनाना आरम्भ किया—

“एसी मैं तो दरद-दिवारी,  
मेरी दरद न जाने कोय ।  
सूखी उपर सेज पिया की  
केहि विधि मिलना होय !”

“किससे केहि विधि मिलना होय, जीजी ! उससे तो नहीं जो परसों साँझ को नाँद के पीछे छिपा था ?” फिर बिलखिलाकर गेंदा ने पूछा।

“आ मर कल्सुहीं !” गौरी ने कहा और साथ ही सुना कि उसके मामा नीचे खड़े पुकार रहे हैं—“गौरी, गौरी ! अभी तक नीचे नहीं उतरी, बात क्या है ?”

सीढ़ी पर मामा के चढ़ने की आहट मिली। वह कहीं कोठरी में न आ जायँ इसलिए गेंदा के साथ वह स्वयं बाहर निकल आई और सामना होते ही पूछ बैठी—“क्या है मामा ?”

“अपना अभाग है बिटिया ! कम्बख्त आज कुत्ते की मौत मारा गया। कहीं परसों ही गिरफतार हो गया होता तो पाँच सौ कलदार

मेरे हाथ लगता,” यदुनाथ हवलदार ने कहा। सुनते ही गौरी को जैसे काठ मार गया और उसके चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। उसने कठोर संयम से काम लिया और उसके सुँह से आह तक न निकली। गेंदा ने यदुनाथ से पूछा—“कौन कुते की मौत मारा गया काका!”

“अरे वही नाम गुण्डे का साथी भगव भिज्जुक! लेकिन बिटिया वह रहा बड़ा बहादुर। जिस गोरे ने उसकी खोह में घुसने के लिए भीतर सिर डाला उसका सिर भीतर ही रह गया। पाँच-सात गोरों के कटते ही सेना ने लकड़ियों से खोह को तोपकर उसमें आग लगा दी। देख न, कितनी लपटें उड़ रही हैं!”

गौरी और गेंदा दोनों पश्चिम की ओर अग्नि-ताण्डव देखने लगीं। गौरी ने देखा कि अशहीरी आत्मा की लोक लीलिहान अंगुलियों के समान लपलपाती लपटें आकाश कूने के लिए उचक रही हैं। उनके ऊपर उड़ती हुई छुएँ की रेखा ने सूली का आकार धारण कर रखा है और उसी सूली की नोक पर बैठा हुआ भिज्जुक क्रमशः ऊपर उठता जा रहा है। उसने कुछ सोचा और गेंदा से कहा—“तू नीचे जल, मैं आभी दरवाजा बन्द करके आहू!”

गेंदा नीचे उत्तर गई। गौरी फिर कोठरी में घुसी। उसने भीतर से द्वार बन्द कर दिया। कोने में रखा निष्ठाभ दीप अब भी मन्द-मन्द जल रहा था। उसने दीपक उठाया और उसकी लौशया पर बिछे बिछौने से लगा दी। ज्ञान-भर में ही शयया जलने लगी। वही दीपक अपने आँचल के लिये रख, उसने बारह वर्ष बाद शयया पर पैर रखा। आँचल को भी आग पकड़ लुकी थी। पल-भर में ही गेंदा और यदुनाथ को भी ज्ञात हो गया कि गौरी की कोठरी में आग लगी है। गेंदा दौड़ कर सीढ़ी चढ़ी और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई—“जीजी, जीजी, यह क्या?”

भीतर से चरडी के अद्वाल की तरह गौरी का शब्द सुनाहूं पड़ा—“गेंदा, सूली ऊपर सेज पिया की, एहि विधि मिलना होय!” और फिर काठ-कबाड़ तथा जलते माँस की हुर्गन्ध बाहर निकलने लगी।

## आये, आये, आये

• • • • • ,

: १ :

उस दिन ज्ञानवापी की आकामगीरी मस्तिष्क के मुश्वर्जन ने भिनसहरी रात नमाजियों को जगाने के लिए भीनार पर चढ़कर अजान नहीं दी, गंगा-स्नान करके नवस्थापित विश्वनाथ मन्दिर में जाने वाले दर्शनार्थियों ने 'हर हर महादेव शम्भो' की ध्वनि से नीचे गली नहीं गुँजाई, पहरेदार ने भी 'जागते रहो, चार बजा है' चिल्लाकर मुहल्ले का फाटक खुलवाने के लिए अन्तिम रौंद नहीं लगाया, परन्तु मस्तिष्क के सामने वाले दोमंजिले मकान के बरामदे में टैंगा हुआ तोता प्रतिदिन के अभ्यासबश ठीक समय पर बोल उठा—“राधेश्याम, राधेश्याम !”

पिंजरे के ठीक नीचे पड़ी तीन पैर की चारपाई पर बिछी जीर्ण कन्था पर लेटे बृद्ध और अन्यप्राय चिन्नकार रामदयाल की कँधती आँखें कीर कूजन से खुल गईं। उसने मुँह के आगे हाथ लगाकर जमुहाई ली और फिर चुटकी बजाते हुए स्वयं भी बोल उठा—“राधेश्याम, राधेश्याम !”

उसे फिर जमुहाई आई। मुँह बाए और उस पर हथेली लगाए ही उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा—“आज भी अमीरन न आई तो… और जमुहाईयों का कम अटूट-सा हो गया।

टिकियावाली बुद्धिया अमीरन का गत तीन दिनों से पता न था, इसलिए उसके ग्राहक घबरा उठे। जाड़ा हो, गरमी हो, बरसात हो, टिकियावाली अमीरन बिना नागा अपने गिने-चुने ग्राहकों के लिए

छोटी-सी टोकरी में टिकिया और अम्बरी तम्बाकू लेकर नगर की प्रद-  
चिणा करने सूर्य के साथ ही निकल पड़ती। उसकी ताजी कुरकुराती  
टिकियों और खुशबूदार नशीली तम्बाकू के चाहक हाथ में चिलम और  
टिकिया धरने के लिए चिलम में रखा अंगारा फूँक से जिलाते हुए  
टिकियावाली की प्रतीक्षा में अपने धरों से निकल आए रहते।

टिकियावाली भी सुँधनी रंग का चूड़ीदार पाजामा और हरे रंग  
का कुरता पहने, सिर पर गेस्टु रंग की चादर डाले, एक हाथ से  
लठिया टेकते और दूसरे हाथ से कमर के सहारे टोकरी सँभाले अपनी  
जर्जर जूतियाँ चटकाती आती। आतुर ग्राहक के सामने पहुँच हाँफते  
हुए लाठी पर टेक देकर खड़ी हो जाती, चबूतरे या सीढ़ी पर टोकरी रख  
देती और कानों में पड़ी चाँदी की छोटी-छोटी आध दर्जन बालियों में  
प्रभाती पवन के कारण उलझे रवेत केशों को चाँदी के ही लुल्लों से  
गूँथी कम्पित और शीर्ण अँगुलियों से लँवारती हुई चण्ड-भर दम  
देती। किर सिल पर कूँचकर सुँह में जमाया जर्दीपान जीभ से गाल  
की ओर हटा देती, खखारकर गला साफ करने का प्रयत्न करती और  
हँसकर चुटकी बजाते हुए फूटे परन्तु सधे गले से गा उठती—

“पिया आवन की भई बेरिया

दरवजवाँ लागि रहूँ !”

तत्पश्चात् कौड़ी-दो'कौड़ी की टिकिया बेच आगे बढ़ जाती। उसकी  
इन सुदाओं पर उसके ग्राहक सुस्करा देते। कभी-कभी कोई उसी जैसा  
बुड़ा ग्राहक यह भी कह बैठता—“बीबी, अब तो तुम्हारी वह उमर  
नहीं रही, नहीं तो लोगों को कुछ और ही शक हो जाता।” डॉटने का  
अभिनय करती हुई अमीरन जवाब देती—“मियाँ बुड़े हुए, लेकिन  
अकल न आई। सच तो यह है कि जिनकी शक के लायक उमर नहीं  
रही उन्हीं पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए।” इस पर कोई और बोल  
उठता—“यह कानून बनाश्रोमी तो तुम भी शक से रिहाई न पा  
सकोगी।” वह उसे भी चमकाती हुई कहती—“हमारी फिकर न करो।

हम औरतों को शक का रास्ता बचाकर चलने का आभ्यास होता है।” और इस जवाब के बाद सिवा मेंपकर हँसने के बात आगे बढ़ाने का रास्ता न रह जाता। उसके चले जाने के बाद वहाँ एकत्र लोगों में निमूँ-छिपे कहते—“वेहया है,” अथेड़ कहते—“वेलौस है,” तुड़े कहते—“जोगिन है” और स्वयं अमीरन पूछने पर कहती—“मैं क्या थी, यह भूले जुर्गों बीत गए। अभी आगे चलकर क्या हो जाऊँगी यह अल्लाह ही जानता है। अल्लाह मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं इस बखत क्या हूँ।” इस पर भी यदि कोई कहता कि ‘अच्छा यही बताओ कि तुम इस बक्त क्या हो,’ तो उसके मुखमण्डल पर विचित्र गम्भीरता ढां जाती। वह धीरे-धीरे कहती—“मैं घर-घर अलख जगाने वाली भैरवी हूँ।”

: २ :

बरामदे से संलग्न कोठरी में चित्रकार की पत्नी कृष्णप्रिया भी जाग चुकी थी और विछौने पर लेटे-ही-लेटे गुनगुना रही थी—“जागिए ब्रजराज कुँवर पंछी सब बोलो।”

सबेरा हो चुका था। रामदयाल को भ्रम हुआ कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। उसने अपनी पत्नी को पुकारा—“अज्ञी सुनती हो, उठो दरवाजा खोलो। शायद अमीरन आ गई।”

“तुम तो जैसे रात-भर अमीरन का ही सपना देखते रहे हो,” कहते-कहते कृष्णप्रिया उठी और बरामदे में आकर उसने गली में नीचे फौंका। किसी को न देख उसने कहा—“क्या अमीरन को अपनी जान भारी पड़ी है कि वह इस खून-खराबी में घर से बाहर निकले?”

“वही तो,” बूढ़े चित्रकार ने कहा, “परन्तु क्या करूँ? अमल बुरी चीज़ है। देखो, कोने अन्तरे में अगर शोड़ी-बहुत तम्बाकू पड़ी हो तो मुझे दे दो।”

“जो-कुछ था सब समाप्त हो गया, अब तुम्हीं खोजो,” उसने कहा और फिर सुनभुनाने लगी—“दोंगे का दिन है, अडोसी-पडोसी भी

भाग गए हैं नहीं तो उन्हीं से सबोरे-सबोरे भीख माँगती ।”

असहाय रामदयाल ने पत्नी के बचन सुने और वह जानते हुए भी कि अभीपिसत वस्तु मिलने वाली नहीं उसने एक कोने में हाथ बढ़ा टटो-लना आरम्भ किया । वह जो-कुछ खोज रहा था वह तो हाथ न लगा, परन्तु उसका हाथ अपनी ही बनाई हुई एक तसवीर पर पड़ गया । चित्र पर हाथ पड़ते ही उसकी हथेली एक बार पुनः वैसे ही जलने लगी जैसे २७ वर्ष पूर्व यही चित्र चुराने के अभियोग में अग्नि-परीक्षा के अवसर पर जलते हुए लौह गोलक से वह जली थी । उसने तत्काल चित्र पर से हाथ खींच लिया, परन्तु उसी आग धधक चुकी थी । उसने स्मृति के धुएँ में स्पष्ट देखा—

जमुना का किनारा है और किनारे काली मिठी के एक टीले पर फूँस से छाई हुई एक झोपड़ी । झोपड़ी की चूना-पुती भीत पर कोयले के छोटे से ढुकड़े से बारह तेरह वर्ष का एक बालक एक बालिका का चित्र बनाने के प्रयत्न में तल्लीन है । लड़का गत बारह घण्टे से भूखा है परन्तु चित्र-रचना के आगे उसे जुधा भी भूल गई है । उसकी पीठ पर तीखी धूप पड़ रही है, परन्तु उसे इसकी चिन्ता नहीं । उसी समय उसी की तरह धुन की पक्की सात-आठ वर्ष की एक लड़की एक हाथ में भट्टे से भरा लोटा और दूसरे में पत्ते में लपेटा नमक, मिर्च और मोटी-मोटी दो रोटियाँ लिये, बालू में झुलसते पैरों की ओर से सर्वथा लापरवाह जलदी-जलदी बहाँ आई । लड़के के पीछे खड़ी होकर आदेश के स्वर में उसने कहा—“हस्, पहले इसे खा ले, चित्र पीछे लिखना !”

लड़का चौंक पड़ा । लड़की को देखकर बोला—“काका देख लेंगे तो बिना पांट न लेंगेंगे ।” किंकिनी खिलखिलाकर हँसी । उसने कहा—“काका तो खा-पीकर चौंपाल में पड़े नागलीला बाँच रहे हैं । मैं देखकर लब आई हूँ । विरथा परिश्रम काहे करते हो ? तुमसे मेरी तसवीर न बन सकेगी ।” और उसने लोटा लथा पत्ते सहित रोटी उसके सामने रख दी । पुनः तत्काल ही श्रद्धन किया—“तुम काका से इतना डरते

क्यों हो ?”

“बप्पा कह गए हैं कि गरीबों को अमीरों से डरना चाहिए,”  
हंस ने कहा।

किंकिनी फिर हँसी। उसने पूछा—“हस्ती से तुम मेरे घर कभी नहीं  
आते ?” “हाँ,” सिर झुकाये हुए हंस ने कहा और लहसा। अपनी चम-  
कीली आँखें किंकिनी के चेहरे पर जमाकर बोला, “मैं तुम्हारी तसवीर  
जरूर बनाऊँगा।” “अच्छा, पहले खा लो !” किंकिनी बोली। हंस खाने  
लगा। किंकिनी ने बाती आगे बढ़ाई।

“अच्छा जब मेरा व्याह हो जायगा और मैं अपने घर जाऊँगी तब  
तुम वहाँ आना। आओगे न ?”

हंस ने कहा—“हूँ”

किंकिनी कहती गई—“तुम्हारे बप्पा के मर जाने के बाद यहाँ  
तो अब तुम्हारा कोई और रहा नहीं। वहाँ तुम्हें बड़े सुख से रखूँगी।  
ऐसे ही नदी-किनारे कोठिदार घर होगा। सामने अमराई होगी। पीछे  
फूलों का बगीचा होगा। वहाँ मैं दौड़-दौड़कर तितली पकड़ूँगी। तुम  
बैठकर मेरी तसवीर बनाना। अच्छा, बप्पा ने तुम्हें मेरे यहाँ आने से  
मना क्यों कर दिया ?”

किंकिनी की प्रत्येक बात पर हंस ‘हूँ,’ ‘हूँ’ करता जाता था। इस  
प्रश्न पर भी उसे यहीं करना पड़ा। काशण, उसे ज्ञात न था कि उसके  
कथावाचक पिता ने यह जानकर कि मैं स्वयं पुत्र का नाम परमहंस  
रख देने के सिवा उसे और कुछ न दे जा सकूँगा, वंश-गांरच के बल  
पर नम्बरदार से उसकी बेटी माँगी थी और धनमत्त नम्बरदार ने अप-  
मानपूर्वक प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके घर से लौटकर आत्मगलानि  
में गले पिता भगवत्ती ने स्वप्न में भी नम्बरदार की देहली न लाँघने  
का आंदेश पुत्र को दे दिया।

हंस का भोजन समाप्त हो गया। वह नदी पर जाकर पानी पीने  
और लोटा माँजने के लिए उठ खड़ा हुआ, किन्तु किंकिनी ने पहले ही

लोटा उठा लिया और वह नदी की ओर दौड़ चली। उसने बालू से रगड़-कर लोटा माँजा, पानी भरा और लौटने के लिए थूमी कि पास ही खड़ी एक-मात्र नाव पर से एक लम्बा-चौड़ा बलबान व्यक्ति किनारे कूदा। उसने एक हाथ से किंकिनी का मुँह बन्द कर दिया और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल उसे उठाकर वह नाव में चला गया। किंकिनी के हाथ से लूटा लोटा लुढ़ककर पानी में जा गिरा। पाँच-सात मिनट बाद नाव खुल गई।

हंस टीले पर खड़ा किंकिनी-हरण देखता रहा। सहसा उसे अपने पीछे कुछ लोगों के आने की आहट लगी। उसने सुना कि नम्बरदार अपने पियादे से कह रहा है—“रामदयाल, पैर पर ऐसी लाठी मारना कि सदा के लिए लंगड़ा हो जाय। बालक समझकर तरह मत दे जाना।” रामदयाल की क्रूरता से परिचित हंस जलदी से पार्श्ववर्ती पलाशवन में भागा। भागते-भागते कहूँ कोस निकल गया। थककर एक स्थान पर गिर पड़ा। घरटे-भर पड़े रहने के बाद एक पथिक ने उसे उठाकर उससे उसका नाम पूछा। नशे में चूर आदमी की तरह हंस ने कहा—“ऐं, मेरा नाम ? मेरा नाम रामदयाल है।”

इसके बाद उस गाँव में किंकिनी का शब्द किर कभी न सुनाई पड़ा। हंस तो सदा के लिए उड़ ही गया।

### : ३ :

“कोने में आँख फाड़-फाड़कर क्या देख रहे हो ?” चित्रकार की पत्नी ने पूछा।

“कुछ नहीं,” अपनी भावना में खोये हुए चित्रकार ने उत्तर दिया, परन्तु उसने अपनी आँखें कोने की ओर से नहीं हटाईं। उसकी स्मृतियाँ उसके मानस-चलु के सामने विचित्र-विचित्र चित्र प्रस्तुत कर रही थीं और जन्मजात चित्रकार उन चित्रों की ये स्मृतियाँ बारीकी से निहार रहा था—

नवाब अस्करी मिर्जा का दरबार नित्य की तरह गुलौं-बुलबुलों से महक-चहक रहा था। अस्करी मिर्जा एक मसनद पर टेक दिये अध-लेटे-से थे। उनके गोरे-गोरे हाथ-पाँवों में कलापूर्ण ढंग से मेहंदी सजाई हुई थी। छलेदार झलफे मसनद पर बिखरी पड़ी थीं। सामने अफीम की पीनक में खूमते-बैठते खदाजा फसीह एक प्रेर का भत्ता माँजते जा रहे थे। उन्हीं के पार्वत में मिरजहूं पहने और सिर पर भारी पगड़ी बाँधे 'दिव्य' कवि डॅटे थे। उन्होंने हाथ बाँध कर कहा—“खुदाबन्द ! श्रीमती नहूं बेगम साहिबा के रूप की परसंसा में मैंने एक सबैया इच्छी है, मरजी होय तो अरज कहूं ।”

“असी नहीं। यह मुसविर रामदयाल है। इन्हें मैंने दिल्ली से बुलाया है,” मिर्जा ने कहा और चिन्नकार से पूछा—“सफर में तकलीफ तो नहीं हुई ?”

थर्थोचित उत्तर-प्रत्युत्तर के बाद नवाब ने कहा—“मैंने अपनी नहूं बेगम की तसवीर बनाने के लिए आपको बुलाया है। आपने भी शायद उनका नाम सुना हो। बनारस में क्या, दूर-दूर तक उनके नाचने-गाने की धूम थी।” नवाब बात समाप्त भी न कर पाए थे कि एक मुसाहब ले उड़े; बोले—“तलबार की धार पर वह नाचे, बताशे पर फिरकी की तरह वह घूमे, सिर पर पाली-भरी थाली रख छुमा-चौकड़ी मचाए और क्या मजाल कि एक बूँद भी छलके।”

“आच्छा, बकिए सत,” नवाब ने मुसाहब को डॉटा और खड़े होकर मुसविर से कहा—“आप मेरे साथ आइए।” मुसविर और नवाब साथ-साथ जनाने महल में जा रहे थे और नवाब कह रहे थे—“बेगम को आपकी कलम बहुत पसन्द है। उन्हीं की ज़िद थी कि तसवीर बनवाऊँगी तो उस्ताद रामदयाल से ही।”

एक बाहरी आदमी के साथ नवाब को महल के भीतर आते देख बाँदियाँ आश्चर्यचकित हो गईं। नवाब ने एक दासी से कहा—“बेगम से कहा दो कि उस्ताद रामदयाल आये हैं। गुनियों से क्या परदा !”

बेगम ने सुना तो दौड़ी आईं, परन्तु चित्रकार को देखकर स्तवध हो गईं। उसके मुँह से निकला—“हंस!”

चित्रकार की भी वही दशा थी, उसके मुँह से भी विवर निकल पड़ा—“किंकिनी !” दोनों एक-दूसरे की ओर एकटक देखते रहे। नवाब ने पूछा—“क्या आप लोग एक-दूसरे को पहले से पहचानते हैं ?” रामदयाल उप रहा।

“हाँ भी, नहीं भी,” बेगम ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, “हाँ यों कि हम दोनों एक बार पहले मिल चुके हैं। नहीं इसलिए कि मैं यह नहीं जान पाई थी कि आप ही उस्ताद रामदयाल हैं।”

“हंस-किंकिनी क्या ?”

“एक रागिनी का नाम है,” हँसकर बेगम ने कहा, “उसी से तो हम दोनों ने एक ही बार मुलाकात रहने पर एक-दूसरे को इतनी जलदी पहचान लिया। मैंने हंस-किंकिनी रागिनी गाई थी। इन्होंने सजाक में कहा था कि हंस के पैर में किंकिनी बौधंघ दी जायगी तो वह निश्चय शिकारी के तीर का शिकार बन जायगी।”

“ओह !” नवाब ने कहा था।

“ओह !” चित्रकार के मुँह से निकला। उसकी पत्नी जोर से उसका कन्धा हिला रही थी।

“ओह ! मस्तिष्ठ के दक्षिण बाला हतुमान जी का मन्दिर मुसल्लमान तोड़ रहे हैं। इसके बाद वे हम लोगों पर दूट पड़े गे। मैं पहले ही कहती थी कि घर छोड़कर कहीं हट चलो।”

“इतना हल्ला क्यों करती हो ?” चित्रकार ने झल्लाकर कहा, “आज सच्चाईस वर्ष से मैं घर के बाहर नहीं निकला। अब आज बाहर निकलकर दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा ?”

: ४ :

“गोरों और तिलंगों को लेकर जग्धैल साहब आ गए। अब जान

बच जायगी,” शान्ति की सौंस लेकर चित्रकार से पत्नी ने कहा।

चित्रकार की पत्नी ने जिसे ‘जणडैल साहब’ समझा वह बास्तव में बर्दू थे। जिला भजिस्ट्रेट भिस्टर बर्दू ने आते ही दंगाहङ्गों को फुर्रे से उड़ा दिया। इतने में उसकी निगाह ऊपर बरामदे में खड़े वृद्ध दम्पति की ओर गई। उसने समझा कि ये असहायता के कारण नहीं भाग सके हैं। उन्होंने किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना उसने अपना कर्तव्य समझा। बरामदे के नोचे आकर उसने रामदयाल को कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान में चले जाने के लिए समझाना आरम्भ किया, परन्तु रामदयाल के पास एक ही जवाब था—“साहब २७ बरसों में मैं एक बार भी वर से बाहर नहीं निकला। इस उम्र में मेरी प्रतिशो भज्ज न कराईए!” लाचार होकर बर्दू चला गया। चित्रकार की पत्नी अपने पति पर पुनः हँसने लगी—“क्यों नहीं चले गए? साहब इतना समझा रहा था। बेमौत मरने से क्या लाभ?”

“बेमौत कोई नहीं मरता,” चित्रकार ने झल्लाकर उत्तर दिया, “बेमौत मरना होता तो मैं मिज्जा अस्करी के ही हाथों कभी का मर चुका होता; २७ बरस से चोरी के कलंक का बोझा न ढोता।”

“परन्तु तुमने तो तसवीर नहीं चुराई थी।”

“बहुत दिनों तक मैं भी यही समझता था कि मैंने तसवीर नहीं चुराई, परन्तु इधर विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि जो-कुछ मैंने किया वह मेरी अधमता ही थी।”

“मुझे तो तुमने कभी कुछ बताया नहीं।”

“कोई यज्ञ तो किया नहीं था जो तुमसे कहता! वह सब सोचने से भी दुख होता है।”

“फिर भी?”

“चुप रहो।”

रामदयाल ने पत्नी को चुप करा दिया, परन्तु स्वयं उसका मन चुप न रह सका। वह उससे बार-बार चुपके-चुपके कहने लगा, ‘कह

क्यों नहीं देते कि

‘तम्बाकू में अफीम की पुट देने वाली यह टिकियावाली अमीरन तेरी बाल्यसंगिनी किकिनी है। यही किसी समय काशी की प्रसिद्ध वेश्या अमीरजान थी। अपने रूप और गुण के बल पर वह नवाब अस्करी मिज़री की बेगम भी हो गई थी। परन्तु पूस की एक आँधेरी रात में, जब कि बिजली चमक रही थी और सूललाघार पानी बरस रहा था, वह खाड़ मारकर नवाब के महल से निकाल दी गई थी। उसका अपराध यही था कि उसने बचपन के एक साथी को पहचान लिया था; उसकी कला पर मुग्ध हो गई थी और पति की वस्तु होते हुए भी उसका बनाया चित्र अपना समझकर तुम्हें ही पुरस्कार में दे दिया था; तूने उसे स्वीकार कर किकिनी का दूसरी बार सर्वनाश किया। क्योंकि नवाब ने यह सूचना पाकर भरी महफिल में कहा था, “बेगम बनने पर भी बाजारी वू नहीं गई,” और उन्होंने शृष्टीश्वर भट्ठ को चित्र का स्वामी बनाकर तुस्क पर चोरी का अभियोग लगाया। तेरे दम्भ ने तुम्हें सत्य का दर्शन न होने दिया। तूने चोरी करना अस्वीकार किया, तैरा हाथ जला और तू सदा के लिए घर में मुँह छिपाकर बैठ रहा। कह दे, अपनी पत्नी से यह सब कह दे। तेरा भी बोझ ढतर जाय !

रामदयाल पत्नी की तरह मन को न डॉँट सका। उलटे स्वर्यं अपराधी की तरह उसने बिना बोले ही कहा—‘यह जानता तो दिल्ली से न आता !’ मन ने पुनः टोका—‘यहाँ आने में तूने कोई भूल नहीं की। भूलें की हैं तूने यहाँ आकर। जब तू चित्र बनाकर नवाब के पास गया तो उनके यह कहने पर कि “बेगम का रंग बहुत उजला है, आपने यह रंग क्यों दिया,” तू उप क्यों नहीं रह गया ? और यदि बोला भी तो यह क्यों कह दैठा कि रंग सफेद नहीं है किन्तु इस भूरे और फीके केसरिया रंग के साथ आकाशीय नीला रंग का जो सम्मिश्रण है उसकी शोभा का आनन्द रसिक वैष्णव ही जानते हैं। यह तेरी पहली भूल थी। दूसरी भूल तूने अमीरन से तसवीर लेते समय की।

उससे बार्ता करने में तूने खयाल न किया कि दरवाजे से कान लगाये नवाब की बड़ी धीरी सुलतानी वेगम एक-एक शब्द सुन रही हैं।

चित्रकार को वे बातें स्मरण हो आईं। वह वेगम के पास रात्रि के समय प्रथम बार एकान्त में आया था। पूर्व व्यवस्था के अनुसार वेगम उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने उसे देखते ही कहा था—

“तुमने तो वास्तव में बड़ी उद्धति की है हंस, याद है तुमने मुझे इसका बच्चन दिया था?” कहते-कहते उसका स्वर आई हो उठा था। वह गदगद गले से बोली थी—“देखा! नारी का प्रेम पुरुष को उन्नत अनाता है, परन्तु पुरुष का प्रेम नारी को गिराता है।”

किंकिनी आपूर्व रूपशालिनी थी। वह आदर्श प्रतिमा थी, जिस पर कलाकार जान देते हैं। सौ दीपकों वाले भाव के उज्ज्वल प्रकाश में हंस किंकिनी को एकटक देख रहा था। उसने उत्तर नहीं दिया, स्वयं एक कदम आगे बढ़ा। दो कदम पीछे हटते हुए किंकिनी बोली—“आगे मत आओ! पतन की ओर न बढ़ो। मैं लाल-लाल आँखों के पहरे में रहकर अस्पृश्य हो गई हूँ।”

इस बार हंस का मुँह खुला; वह बोला—“ललाई की ललचूट को हरियाली कहते हैं।” वह पुनः आगे बढ़ा। बाहर से किसी के उठाकर हँसने की आवाज आई। किंकिनी ने तसवीर उठाकर हंस के हाथों में देते हुए कहा—“इसे लो और जलदी चले जाओ।” हंस ने चित्र लिया और तत्काल ही चोर-दरवाजे में अद्दश्य हो गया।

सोचते-सोचते रामदयाल के समक्ष सुलतानी का चित्र खड़ा हो गया।

सुलतानी के शरीर में सौन्दर्य के अनेक उपादान थे, परन्तु मेद-वृद्धि ने उन्हें ठक रखा था। नाक के दोनों ओर स्थूल कपोल और अधरोष तथा चिलुक के नीचे एकत्र बसा का स्मरण आते ही रामदयाल ने घुणा से मुँह चिचका लिया और तत्काल ही अत्यन्त आवेश में आ अपनी अँगुलियों के बड़े हुए नखों पर अँगूठा फेरकर उनकी प्रखरता

परखते हुए वह जोर से बोल उठा, “यदि इस समय मुलतानी सामने होती तो अँगुलियों से उसकी आँखें निकाल लेता और नहीं तो मुँह का मांस नोच डालता ।”

वैष्णव कलाकार की मुखमुद्रा अत्यन्त हिस्स और व्याघोचित हो उठी। पत्नी ने २७ वर्ष बाद जावन में दूसरी बार पति का यह स्वरूप देखा। वह डर गई। किसी ने नीचे दरवाजा खटखटाते हुए कहा—“दरवाजा खोलो, मैं मुलतानी हूँ ।”

: ५ :

मुलतानी रामदयाल के सामने पहुँची। रामदयाल ने देखा कि सामने ११-१२ वर्ष की एक मैली-सी लड़की छोट का गन्दा कुरता-पाजामा पहने रहे हुए तोते की तरह कहती जा रही थी—

“बुआ अमीरन बहुत बीमार है। उन्होंने कहा है कि मैं अब कुछ दम की ही मेहमान हूँ। क्या आप मेरे घर कभी न आइएगा? बुआ ने यह भी कहा है कि समझाकर कह देना कि मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, उन घरों की नहीं जहाँ से कोई सुझे भगा या उठा ले जा सकता हो ।”

“तुम बड़ी बहादुर लड़की हो मुलतानी, दंगे में भी घर से निकल पड़ी हो ।”

“इसमें बहादुरी क्या है?” मुलतानी ने कहा, “सङ्क पर तो लोग चल-फिर रहे हैं। अलबत्ता, गली-कूचों में कहाँ-कहाँ लड़ाई हो रही है। मगर मेरा नाम मुलतानी नहीं, रकिया है। मैं नन्हेखाँ की लड़की हूँ ।”

“तुमने तो मुलतानी बताया था ?”

“ओहो, वह तो अमीरन बुआ सभी पाजी लड़कियों और औरतों को मुलतानी ही पुकारती हैं। मेरी शरारतों से उन्होंने मेरा नाम मुलतानी रख दिया है,” रकिया उर्फ मुलतानी ने कहा।

रामदयाल चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसने एक चीथड़ा-सा अपने

कन्धे पर डाल लिया, टटोकर लकड़ी उठा ली और फिर रकिया से कहा—“चल ।”

कृष्णप्रिया चुपचाप बैठी सब देख-सुन रही थी । अब उससे न रहा गया । उसने उठकर पति का हाथ पकड़ लिया और फिर पूछा—“कहाँ जा रहे हो ?”

“अमीरन के यहाँ,” भराए स्वर में रामदयाल ने कहा । कृष्णप्रिया ने चण-भर पति का मुख ध्यान से देख फिर हाथ छोड़ दिया । रामदयाल ने एक हाथ से रकिया का कन्धा पकड़ा और दूसरे से लाठी ठकठकाता हुआ घर से निकल गया ।

वह पग-पग पर ठोकर खाता था, गिरते-गिरते बचता था, फिर भी आतुरतापूर्वक चलता जा रहा था । सहसा ‘दीन, दीन’ के नारों से एक बार उसके कान सुन्न-से हो गए । रकिया सकपकाकर रामदयाल से सट गई । हतने में ही दस-पन्द्रह आदमियों ने दोनों को घेर लिया । रामदयाल ने मन-ही-मन कहा—‘अब सचमुच मौत आ गई । आध घण्टा बाद आती तो प्रसन्नता से स्वागत करता ।’ “मुसलमान की लड़की भगाए लिये जा रहा है । देखते क्या हो, मारो ढेर हो जाय !” एक दंगाई ने कहा । दूसरे दंगाई ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया । उसके सहारे खड़ा चित्रकार मुँह के बल जमीन पर आ रहा । नाक और बचे-खुचे दाँत टूट गए । चेहरा रक्तरंजित हो गया ।

सहसा दंगाह्यों में भगदड़ मच गई । एक तेजस्वी तरुण ने तलवार से उन पर आक्रमण कर दिया था । चण-भर तो दंगाई उहों, परन्तु तरुण की सहायतार्थ बरकन्दाजों की पलटन आते देख वे भाग सड़े हुए । तरुण ने आहत चित्रकार से कहा, “जहाँ कहो, तुम्हें भेज दूँ । मैं काशी-नरेश का भाई प्रसिद्धनारायण हूँ ।”

“भगवान् आपका भला करे,” पुनः पार्श्व में आकर खड़ी रकिया के कन्धे पर हाथ रखते हुए कलाकार ने कहा, “मैं तो इस लड़की के साथ जाऊँगा ।” तरुण चला गया । वे दोनों भी अपनी राह चले ।

सहसा एक झोपड़ी की चौखट पर विनाकार को खड़ा करती हुई रकिया ने कहा, “आप इसमें जाइए। बगल में मेरा घर है। मैं अपने घर जाती हूँ।”

रकिया अपने घर चली गई। दुविधा में पड़ा रामदयाल चौखट पर खड़ा रहा। उसने सुना कि भीतर अमीरन वायु के प्रकोप में गाने का प्रयत्न कर रही है—“मोरे मन्दिर अजहूँ नहिं आये!”

अमीरन के स्वर में तेज का प्रकाश नहीं रह गया था। उसकी जगह करणा की आद्रेता आ गई थी। रामदयाल सुनने लगा—

“मैं का हाय करूँ मोरी आली,  
किन सौतिन विलमाये !”

उसने आलाप लेने का प्रयत्न किया। गिटकिरी भरना चाहा, परन्तु भीषण हिचकी आई। केवल इतना ही सुन पड़ा—

“आये, आये, आये !”

रामदयाल अब न रुक सका। वह लपककर भीतर दूसा। उसने पुकारा—“किंकिनी !”

परन्तु किंकिनी मौन पड़ गई थी। उसकी आँखें खुली थीं और उसके मुख पर विजय-गर्व की मुस्कान थी।

कोठरी में स्वर गूँज रहा था—“आये, आये, आये !”

## अल्ला तेरी महजिद अब्बल बनी

\* \* \* \* \*

राजघाट पर पुराने किले के खण्डहर में पड़ी ब्रिटिश फौज की छावनी में सुबह होते ही तहलका-सा मच गया। सभी भयभीत हो उठे। बात भी असाधारण थी। रात को दस बजे अन्तिम 'शउरड' लगाकर स्थानीय सैनिक टुकड़ी के सर्वोच्च अधिकारी मेजर बकले भले-चंगे अपने शिविर में सोने गए। परन्तु सुबह शिविर में अपनी कुरसी पर वह मरे पाये गए।

मेजर बकले अभी बिलकुल तरुण थे और अपने अफसरों तथा मातहतों दोनों के प्रिय पात्र। इस बार छुट्टी में घर जाने पर उनका विवाह भी होने वाला था। ऐसे सुखी आदमी द्वारा आत्महत्या की बात की तो कल्पना ही नहीं थी। इसलिए लोग मेजर की मृत्यु में किसी रहस्य की कल्पना कर रहे थे। उनके शरीर पर किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का धाव भी नहीं था। बाहर पहरे पर खड़े सन्तरी का बयान था कि मेजर साहब रात बहुत प्रसन्न थे, प्याले-पर-प्याला चढ़ाई जा रहे थे और भर्णपु गले से 'ज्वेन सैली केम इन्द्र द गार्डेन' (उपवन में जब सैली आई) गाये जा रहे थे। एक बार बाहर आकर मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी पत्र लिखने जा रहा हूँ। हुम शउरड लगाने में खड़-बड़ करके डिस्टर्ब (अशान्ति) मत करना। फिर वह भीतर जाकर पत्र लिखने लगे। बारह का घण्टा बजने के ठीक बाद ही एक बार भीतर 'क्लैरा, क्लैरा' कहने की आवाज आई और किसी चीज के गिरने

का धमाका हुआ। फिर सब शान्त हो गया। मैंने समझा कि मेजर साहब नशे में शायद कैम्प-बैठ (शिविर-शय्या) से गिर पड़े और फिर चुपचाप सो गए।

मेजर के कैम्प में उनके उच्च सहयोगी उनकी लाश के हृद-गिर्द कुरसियों पर बैठे थे। मिलिट्री सर्जन ने शव-परीक्षण के प्रश्नात् हृदय की गति बन्द हो जाने से मृत्यु की धोषणा कर दी। कसान गोवर ने अथासभव मुखमुद्रा विषाद, मलीन बनाते हुए कहा, “इस ट्रैजेडी (चासद दुखजनक घटना) में इतनी ही सन्तोष की बात है कि इसे अपनी वागदत्ता के विश्वासघात का कड़वा आला नहीं पीना पड़ा।”

लेफिटनेंट हिल ने अपनी काहिल आँखें गोवर की आँखों से मिलाते हुए आश्चर्य-भरे स्वर से पूछा—“अच्छा!” “हाँ,” गोवर ने कहा, “आज ब्राइटन से मेरे एक मित्र का पत्र आया है। वह एम० पी० (पार्लमेंट का सदस्य) है। उसी ने क्लेरिसा कीटिंग से व्याह किया है।”

“जो चिट्ठी लिखते-लिखते मेजर मरे हैं, उसे पढ़ना चाहिए। शायद हृदय की गति बन्द होने के कारण का पता चल जाय,” फौजी सर्जन ने कहा। गोवर ने भी स्वीकृति दी। हिल ने टेबल पर से चिट्ठी उठा ली और उसे रुक-रुककर पढ़ने लगा—

फॉर्ट, राजधानी,

बनारस।

सितम्बर, १८५८

“मेरे हृदय की रानी,

“वेस्टलियन मिशन के फादर मोनियर के हाथ तुमने जो चिट्ठी भेजी थी वह मुझे मद्रास में ही मिल गई। परन्तु मुझे उसी वक्त कर्नल नील के साथ उत्तरी भारत के लिए रवाना होना पड़ा। तुम्हीं समझो यह मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि तुम्हारा चिर-प्रतीक्षित पत्र मेरे हाथ में हो और मुझे उसे खोलने तक का अवकाश न मिले। फिर भी

मैंने उसे चूमा—बार-बार चूमा। मगर कीटों की तरह मैं भी यह नहीं बताए सकता कि तुम्हारों की संख्या फोर (चार) थी या एस्कोर (एक कोड़ी)। फिर इस समय भी पुरवा हवा चल रही है। मैं इसे चूम रहा हूँ। शायद मेरा चुम्बन यह तुम्हारे पास तक पहुँचा दे।

“इस गर्म मुख में रहने के बावजूद मैं अत्यन्त स्वस्थ और प्रसन्न हूँ।

“गदर बिलकुल दबा दिया गया। अब हम लोग विद्रोहियों को दण्ड देने के बहाने हिन्दुस्तानियों को ऐसी सीख दे रहे हैं कि वे सैकड़ों वर्ष तक सिर ज उठा सकेंगे। सचमुच कर्नल नील बड़ा बहादुर आदमी है। वह जैसा बहादुर है वैसा ही बुद्धिमान। उसने यहाँ सड़क की दोनों पटरियों पर सैकड़ों ‘टाइवर्न’ (लन्दन में वह स्थान जहाँ उन दिनों मृत्यु-दण्ड प्राप्त अपराधियों की सज्जा सार्वजनिक रूप में कार्यान्वित की जाती थी) बना दिए हैं। वह अपने साथ फौज और रसियों के हजारों टुकड़े लेकर चलता है। सड़क पर जहाँ कोई नेटिव (भारत वासी) दिखाई पड़ा कि फिर उसकी खैर नहीं। वह बूढ़ा हो या जवान, तुरन्त पकड़ लिया जाता है। रस्सी के एक टुकड़े से उसका हाथ पीछे बाँध दिया जाता है और दूसरा टुकड़ा उसके गले में बाँधकर सड़क के किनारे किसी बृक्ष की डाली से उसे लटका देते हैं। यह वस्तुतः मजेदार चीज़ होती है—ऊपर हवा में पाँच मिनट अद्भुत नृत्य होता है और नीचे हम लोग ‘इन आनर ऑव ओल्ड इंगलैण्ड’ (बृद्ध इंगलैण्ड की प्रतिष्ठा के लिए) ‘श्री चीथर्स’ देते (तीन बार हर्ष-ध्वनि करते) हैं।

“कल्पना करो, और इस दृश्य का मेरी ही तरह आनन्द लो। फौज की एक टुकड़ी के साथ मुझे यहाँ छोड़ कर्नल नील कलकत्ता गया है।

“हम लोग यहाँ एक खण्डहर में रहते हैं, जिसे यहाँ वाले अब तक किला ही कहते हैं। यह शहर भी अजीब है, यहाँ के बहुत पुराने नगरों में है। मुसलमान जिस पूज्य दृष्टि से मरका, यहूदी फिलस्तीन और ईसाई यरुशलाम या रोम को देखते हैं, इस नगर के प्रति हिन्दुओं

की इष्टि उससे भी अधिक अद्वासम्पन्न है। मेरे एक सिविलियन दोस्त ने मुझे बताया है कि यहाँ के लोग बड़े ही 'टर्मलेण्ट' (दुर्दृष्टि) हैं; वे गम्भीर बातों पर विज्ञतापूर्ण इष्टि से मुक्तराते हैं और छोटी-छोटी बात पर लड़ भरते हैं।

"गत सप्ताह की बात है। मेरी रेजिमेंट का कार्योर्गल डिल्स रात में चुपके से शहर चला गया था। यहाँ विटिश सैनिक प्रायः रात को छावनी से भाग जाया करते हैं। हम अफसर लोग भी इसमें कोई अन्याय या अनीति नहीं समझते। मानव-स्वभाव को कुछ तो छुट देनी ही होगी। खैर, सबेरे डिल्स भटककर नगर के 'इण्टीरियर' ( भीतरी भाग ) में जा पहुँचा।

"यहाँ यह बात जान रखनी चाहिए कि यहाँ की गलियाँ बड़ी ही तंग, गन्दी और बड़ी ही चक्करदार हैं। ऐसी ही एक गली में बुसकर डिल्स ने देखा कि एक दूकान पर छोटी-छोटी, गोल-गोल, पीली-पीली कई चक्करवाली कोई मिठाई एक बहुत बड़े बरतन में भरे हुए रस में तैयार हो रही है। एक आदमी लोहे के किसी लम्बे औजार से उन्हें उसमें डलट-पुलटकर बाहर निकाल एक लूसरे बरतन में रखता जाता है।

"डिल्स को भूख लगी थी। उसने पैसा निकालने के लिए एक हाथ पैरेट को जेब में डाला और दूसरा हाथ मिठाई पर। बेचारे के दोनों हाथ फँसे थे। इतने में मिठाईवाले ने उसी गरम रस से सने लोहे के औजार को डिल्स के सिर पर मारा। डिल्स सिर बचा गया, परन्तु औजार कनपटी पर पड़ा और उसका कान कट गया। कोई नेटिव होता तो घबराकर वहीं 'कलैप्स' कर (ढेर हो) जाता। उसने 'रिट्रीट'(पलायन), इसे रिट्रीट तो नहीं कह सकते, इस प्रकार की 'सार्टी' (कावेषात्री) से काम लिया और गलियों का ब्यूह भेदते हुए छावनी वापस आ गया। परन्तु फिर बाद में वह उस गली को न पहचान सका जहाँ उक्त दुर्घटना हुई थी। नहीं तो हम लोग हलवाई को कच्चा ही चवा जाते।

“प्रिये, पत्र लम्बा हुआ जा रहा है, पर क्या करूँ लिखने का अब-सर भी तो बहुत कम मिलता है। अब तक मैंने औरों के बारे में लिखा है। अब कुछ अपने बारे में भी लिखूँगा।

“जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ यह देश बड़ा विचित्र है और उसमें भी इस बनारस का तो कहना ही क्या! यहाँ आकर मैं भयंकर उलझन में फँस गया हूँ। हैमलेट में ‘किंग ऑव डेनमार्क’ (डेनमार्क के राजा) का प्रेत जैसे अपनी कब्र से निकलता है वैसे ही यहाँ एक बुद्धिया भी गोर से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। आधी रात होते ही वह कल कब्र से बाहर निकली थी। जिस छोटी-सी मस्जिद में उसका मजार है वह भी उसकी अनवार्द्ध हुर्द है। दो बजे रात तक मस्जिद के खुले सहन में वह टहलती और गाती रही। सब तो समझ में नहीं आया, लेकिन गोर की पहली पंक्ति स्पष्ट सुन पड़ी—‘अलला तेरी महजिद अब्बल बनो!’ (हाड़ ग्रेड इज़ दाह मॉस्क, ओ लार्ड !)

“प्रिय क्लैरा, पढ़कर चौंकना मत। यह औरत बेतश्ह मेरे पीछे पड़ी है। यह जानकर डरना भी मत कि मेरे ही हुक्म से परसों सुबह छः बजे इसे गोली मारी गई थी। यह बड़ी विचित्र औरत थी। इसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इससे तुम समझ सकोगी कि ‘नेटिव’ (देशी) औरतें ‘लव अफेयर्स’ (प्रेम-प्रपञ्च) में कितनी बुद्धिहीन होती हैं। सच तो यह है कि इन्हें प्रेम करना और उसे निबाहना आता ही नहीं।

“इस औरत का नाम रकिया था और सृत्यु के समय उम्र ४८ साल। यह मुलतानी नाम से भी मशहूर है। अपने एक ‘लव इण्ड्रीग’ (प्रेम-प्रपञ्च) में इसे अपनी नाक गँवानी पड़ी थी। इससे इसकी आकृति बड़ी भयावह हो उठी थी। इसके बारे में मुझे जो पता लग सका है उसके अनुसार वह लड़कपन में ही किसी को दिल दे बैठी थी, परन्तु वह आदमी इसकी पहुँच से बहुत ज़ंचे था। विवाह की तो बात ही क्या, वह उसके सामने भी नहीं पहुँच सकती थी। दूसरी ओर स्वभाव

से अमज्जन ( चरणी ) होने के कारण इसने किसी भी पुरुष से विवाह कर सहचरी का परावलभी पद ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया । सुनता हूँ उसके पास प्रत्युर रूप था । बड़े-बड़े लोग उसे पत्नी का सम्मानित पद देना चाहते थे, परन्तु उसने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया । उसने विवाह करना स्वीकार न किया, परन्तु स्वेच्छा से अनैतिक जीवन विताती रही ।

“तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि यह औरत भी खाँसी की रानी की तरह गदर को आज्ञादी की लड़ाई मानती थी । इसीलिए गदर के दिनों में यह फैनेटिक ( हिंसा और कहर ) हो उठी थी । यद्यपि बनारस में गदर का जोर नहीं था परन्तु कुछ अंग्रेज अधिकारियों की कमजोरी से बड़ी गड़बड़ी मधी । अंग्रेजों में भगदड़ पड़ गई । वे नावों पर बैठ-बैठकर ऊनार की ओर चले । इस नगर की यह भी एक विचित्रता है कि यहाँ पर हमारा राज्य होते हुए भी एक दूसरा आदमी यहाँ का राजा कहलाता है । सुना है परन्तु सबूत नहीं मिलता कि इसी राजा के बाप ने अपने किले के नीचे नदी में अंग्रेजों से भरी कई नावें डुबा दीं । हम लोगों ने उसे फाँसी दे दी होती, पर जैसा कि कह चुका हूँ, सबूत नहीं मिलता ।

“उस घाट पर दूबने वाली आभागी नौकाओं में से एक पर मिस्टर बैट्ले नामक एक अंग्रेज व्यापारी का भी परिवार था । बनारस में उन्होंने मुलतानी को अपने बच्चे की आया नियुक्त कर रखा था । उस परिवार की अन्तिम यात्रा में मुलतानी भी उनके साथ थी । नाव दूबी, परन्तु यह बच गई । यह एक बार भी कह देती कि असुक व्यक्ति की आज्ञा से नाव डुबाई गई और टट की ओर तैरने वालों पर गोली चलाई गई, तो हमारा सारा काम बन जाता । लेकिन रकिया बड़ी जिह्वी औरत थी । सभी बैज्ञानिक यन्त्रणाएँ दी गईं, परन्तु उसका एक ही जवाब था—‘मैं नहीं जानती नाव कैसे दूबी ।’

“सुना था उसी नाव पर झालर नाम का एक हिन्दू ‘बलजी’ ( पुरोहित ) भी सवार था । वह बहुत खोज करने पर गिरफतार किया जा सका ।

यहाँ के हिन्दू कलर्जी साधारणतया बहुत तगड़े और बात्तर्नी हीते हैं परन्तु झालर अत्यन्त दुर्बल और 'इम्बेसाइल' ( मूढ़ ) निकला । उसे यह भी नहीं याद है कि उसकी नाव कभी छवी भी थी । लाचार होकर उसे रिहा करना पड़ा । लेकिन वह औरत ! उसका रोश्नाँ-रोश्नाँ विद्रोही था ।

"जीवन-भर रकिया समाज-विद्रोह कर जीती रही और अन्त में राज्य-विद्रोह कर मरी ।

"बनारस से होकर जानेवाली विद्रोही सेना के स्वागत में इसने बनियों को भड़काकर कुओं में चीनी-भरे बौरे डाल-डालकर शरवत तैयार कराया था । इतनी ही बात पर इसे सौ बार गोली मारी जा सकती थी । परन्तु वडी मछलियाँ हाथ लग सकें, इसलिए मैंने इसे बहुत समझाया कि राजा के बाप प्रसिद्धनारायणसिंह के बारे में तू जो-कुछ जानती है, सचमुच बता दे मैं तेरी जान बचा दूँगा । मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया; खड़ी-खड़ी मुस्कराती रही । उसके नाक-कटे सुँह पर वह मुस्कान सचमुच बड़ी भीषण थी । दोपहर का समय था, चारों ओर सचाघ सन्तरियों की भीड़ थी । फिर भी एक बार मैं डर गया, तथापि मैंने अपनी बात जारी रखी । आखिर मेरी बात सुनते-सुनते वह तैश में आ गई । अपना शैताना चेहरा और भी भीषण बनाकर उसने कहा—'कैसी बातें करते हो साहब ! कुछ देर के लिए तुम अपने को औरत समझ लो और फिर सोचो कि जब तुम दस वरस के थे उस समय किसी ने तुम्हारी जान बचाई । उसी दिन तुमने उसे दिल दे दिया; सारी उमर उसी की याद में बिता दी । आखिरी उमर में किसी ने तुमसे अपने माशूक के खिलाक गवाई देने के लिए कहा । अब तुम्हीं कहो क्या तुम सचमुच बयान दे सकोगे ?'

"‘अपनी जान सबको प्यारी होती है; उसे बचाना कौन न चाहेगा ?’ मैंने कहा ।

‘सात समुन्दर तेरह नदी पार तुम्हारे देश में ऐसा होता होगा,

लेकिन यहाँ तो कोई जहाँगीर भी आये और मेरे माशूक के खिलाफ सुभसे कुछ कहजाकर सुझे नूरजहाँ भी बनाना चाहे तो भी मैं तरहते-हिन्दुस्तान को ठोकर मार दूँ ।

“इस बेहूदा और बदसूरत बुदिया को अपनी तुलना नूरजहाँ से करते सुनकर सुझे हँसी आ गई । फिर भी मैंने कहा, ‘क्या जान बचाने के लिए भी नहीं ?’

“‘जान-जान क्या करते हो ? जान तो एक दिन जायगी ही’ उसने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा । सुझे भी उसकी गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया ।

“मैंने कहा, ‘तुम्हारी जान कल ही जायगी—सुबह ठीक ६ बजे गोली मारकर । प्राणदान के सिवा और तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, पूरी कर दी जायगी ।’

“‘मेरी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई । कोई कर ही न सका । तब तुम क्या करोगे ? फिर भी’ उसने अपनी बनवाई हुई मस्तिष्क की ओर इशारा करके कहा, ‘अगर तुमसे हो सके तो सुझे जुमेरात तक जीने दो । मैंने यह मस्तिष्क बड़ी साव से बनवाई, लेकिन कूदमगाज सुल्ला ने फतवा दे दिया कि कसब की कमाई से बनी मस्तिष्क में सुसलमान को नमोज न पढ़ना चाहिए । खैर, कोई बात नहीं । सुझे दो-चार रोज और जीने दो । जुमेरात को मैं वहाँ नमाज पढ़ लूँ । उसी दिन हैद है, अपनी महजिद में मैं खुद रतजगा कर लूँ, फिर सुबह तुम खुशी से गोली मार देना । उसी महजिद में मैंने अपनी कब भी तैयार करा रखी है ।’

“‘अब कुछ नहीं हो सकता, हुक्म बदला नहीं जा सकता,’ मैंने कहा । ‘तब तुमने मेरी खवाहिश क्यों पूछी ? भूठे कहीं के ! लेकिन तुम भी इतना जान रखो कि मैं हैद की रात अपनी महजिद में जरूर नमाज पढ़ गी और जल्हा-जल्हर रतजगा कर रुँगी । तुम सुझे रोक नहीं सकते,’ उसने कहा और इसके बाद हँसते और ‘अल्ला तेरी महजिद झटकल

वनों गाते हुए वह सिपाहियों के पहरे में हवालात चली गई।

“परसों सुबह उसे गोली मार दी गई, उसे मिट्ठी भी दे दी गई। फिर भी जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ वह रात में मस्तिश्वर में ठहलते और गाते देखी गई। जिस सिपाही ने मुझे पहले यह खबर दी उसे मैंने डाँट दिया। परन्तु अपनी आँख और कान पर मैं कैसे अविश्वास करूँ?

“प्रिय हौरा! आज ही ईद है। मस्तिश्वर के टीक सामने अपने कैम्प में बैठा हुआ यह चिट्ठी मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। रात के बारह बजना ही चाहते हैं। समूचे कैम्प में सज्जाटा छाया हुआ है। हवा साँय-साँय चल रही है। आसमान में चाँद नहीं है, तारे खूब खिले हैं। लो, सन्तरी ने बारह का बण्टा भी बजा दिया, और वह देखो, मस्तिश्वर के सहन में नकटी बुढ़िया ने भी चहलकदमी शुरू कर दी। उसके नकिया-नकियाकर गाने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। अरे, आज यह क्या? वह शैतान मस्तिश्वर से निकलकर मेरे कैम्प की ओर आ रही है। कितनी जल्दी-जल्दी आ रही है वह! लो, वह दरवाजे पर पहुँच गई। शायद सूअर का बच्चा मेरा सन्तरी सो गया। हौरा-हौरा, मुझे बचाओ। मेरी हालत खराब हुई जा रही है। अरे, वह तो कमरे में आ गई! इसका गाना सुनकर मेरा खून पानी हुआ जा रहा है। बन्द कराओ, बन्द कराओ, मेरा गला झुट रहा है। बन्द कराओ इसका यह गाना—‘अल्ला तेरी महजिश्वर……’!”

## रोम-रोम में वज्रबल

\* \* \* \* \*

: १ : .

रसी के अभाव में अपनी धोती से ही काँसी लगाने के लिए रामराज से रँगी दीवार के ऊपर टैंगी बालब्रह्माचारी हनुमानजी की तसवीर के सामने निर्वासन होने की कल्पना-मात्र से गोदावरी लजा गई। उसे ऐसा करने में आत्महत्या से भी बढ़कर पाप प्रतीत होने लगा। वह चित्र की ओर देर तक एकटक देखती रही और तब निश्चय कर बैठी कि मैं हनुमानजी के सामने नग्न होकर काँसी नहीं लगा सकती। हमसे अच्छा तो छृत पर से नीचे गली में कूद पड़ना है।

छृत का ध्यान आते ही वह कोठरी के बाहर निकली। मुँहे पर चढ़कर नीचे झाँकते ही उसे झाँह आने लगी। वह डर गई और उधर से उसने अपना मुँह फेर लिया। मुँह फेरते ही उसे सामने गंगा की धारा बहती दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि गंगा में डूबकर भी प्राण दिया जा सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि आत्महत्या का इतना सरल उपाय उसे अब तक क्यों नहीं सूझा था।

अब गोदावरी गंगा में डूबने लगी। उसके जीवन में सूनेपन का विष शनैः-शनैः इतना अधिक मुल चला था कि वह प्रत्येक श्वास के साथ कड़वी निराशा पीने और निश्वास के साथ घृणा की दुर्गन्ध बसन करने लगी। वह स्पष्ट अनुभव करती थी कि जिस जीवन में स्नेह, सम्मान, धन आदि में से अहं की तुसि का एक भी सम्बल न हो, वह

सचमुच मृत्यु है और जैसे जीवन की मृत्यु ही वास्तविक जीवन। उसकी गिनती उन सुहागिनों में थी जिनका जीवन विधवाओं से भी अधिक कुर्बाह होता है। तब उसने आत्महत्या का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने विष खाने की हड्डी की, परन्तु वह उसे मिल न सका; एक गज रसीन के अभाव में वह फँसी न लगा सकी; छत से कूदने में उसे भय लगता था; इसलिए वह गंगा में डूबने चली।

भाव का सबेरा था। आकाश में बोर घटा छाई थी। सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा था और तीर की तरह लेंदती हुई तीखी हवा चल रही थी। फिर भी गोदावरी गंगा-तट पर पहुँची। शीत की अधिकता के कारण दो-ही-चार स्नानार्थी इधर-उधर घाटों पर दिखाई पड़ रहे थे, घाट भी कम लगे थे, परन्तु और भी एकान्त स्थान की खोज में गोदावरी आगे बढ़ती गई और दत्तात्रेय मन्दिर के नीचे से होती हुई भौंसला घाट की सीढ़ियाँ उतरी। यह देखकर कि घाट पर केवल दो आदमी हैं वह आश्वस्त हुई और उनके हट जाने की प्रतीक्षा में वह पानी में पैर लटकाकर अन्तिम सीढ़ी पर बैठ रही।

### : २ :

गंगा में कमर-भर खड़े जीतू केवट ने पानी में छिटनी छान उसमें पड़ा कंकड़-पत्थर सीढ़ी पर उछट दिया और अपनी चपल परन्तु अभ्यस्त अँगुलियों से वह उस ढेरी में टटोलने लगा। धातु-खण्ड का स्पर्श होते ही उसकी संवेदनशील अँगुली जण-भर रुकी। दूसरी अँगुली ने उसकी सहायता की और दोनों अँगुलियों ने मिलकर वह टुकड़ा उठा कर जीतू की आँखों को दिखाया। आँखों ने उस धातु-खण्ड का मूल्य आँका और बिचककर मुँह ने कह दिया—“बस, मझूसाही !”

“का भयल जीतू !” उनी कनटोप पर चारखाने का अँगोङ्गा कसते और शरीर पर पड़ा कम्बल और भी कसकर लपेटते हुए ननकू घाटिए ने पूछा। मझूसाही कान में खोंसते हुए जीतू ने परम असन्तुष्ट

स्वर में उत्तर दिया—“न जाने केकर सुँह देखकर उठल रहली गुरु ! आज दमड़ी कड डौल नाहीं देखात । जाड़ा-पाला में घटा भर तड पानी में ऐंठत बीत गयल । एहर पेट अइसन चण्डाल हौं कि मानत नाहीं ।”

“है तड है ! आज जर-जात्री के आवै कड तड कौन्हो लाच्छन हौं नाहीं, हमहूँ घाट उठाय के घेरे चल जाइत लेकिन बाबू सिवनाथ सिंह के आसरे बैठल हैं । ऊ गंगा नहाये कड नेमी हउअन । रोज हमरे घाट पर नहालन । लेकिन अब तोहँ पानी में से निकर्सी आवड । बद्री कड हावा बेकार करी ।” ननकू ने सहानुभूति-भरे स्वर में जीतू को समझाया । परन्तु जीतू पूरब की ओर से आते हुए एक बजड़े को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था । बजड़ा लहरों पर तिनके की तरह नाच रहा था । स्पष्ट जान पड़ता था कि वह कर्णधारों के काबू के बाहर हो गया है, फिर भी वे जी-जान से उसे किनारे लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । बजड़े पर निगाह जमाये हुए ही जीतू ने उत्तर दिया—“अब तड ओखरी में मूँड पड़ी गैल हौं, मूँसर के बोट से कहाँ तक डेराब ?” जीतू की बात के जवाब में ननकू कुछ कहने ही जा रहा था कि जीतू की अष्टवर्षीया पुन्ही मछिया की आवाज सुन पड़ी—“हे बाबू, मूँडी हम खाब ।” ठीक उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके बेटे किंगवा का स्वर सुन पड़ा—“नाहीं बाबू, मूँडी हम खाब !” और आगे-आगे मछिया तथा उसके पीछे किंगवा दोनों ही भागते हुए आकर बाप के पास उपर सीढ़ी पर खड़े हो गए ।

बजड़े को ओर से निगाह हटाकर जीतू ने अपने बेटे-बेटी की ओर सुँह किया और कहा—“घेरे रहीं तड तूं लोगन कडभाई करेजा खाय । बहरे रहीं तड तूं लोग मूँड चबाये दौड़िल आवड । हमार जान तड बड़ी सांसत में हौं भाई !”

जीतू की आँख में कौतुक नाच रहा था, परन्तु उसके स्वर की कठोरता से किंगवा डर गया और उसका चेहरा उत्तर गया । उधर

मछिया की आँखों ने पिता की आँखों में विनोद का संकेत देखा। वह हँस पड़ी और अपनी आँखेल में से एक बड़ी-सी रोहू मछुली निकालकर दिखाते हुए उसने कहा—“तोहार मूँडी नाहीं बाबू, रोहू कड मूँडी खाब !”

रोहू देखकर जीतू के मुँह में भी पानी भर आया। उसने पूछा—“एतनी बड़ी रोहू तै कहाँ पाय गइली मछिया ?”

“मझमा के धरे से आइल हौ,” मातुल-गृह के गर्व से गलकर मछिया ने उत्तर दिया। जीतू ने भी सन्तुष्ट होकर आदेश दिया—“लेजो ! अपने माई से कह दे कि एकर रेसा बनावै। जो !”

मछिया और भिंगवा दोनों चले गए। लहरों पर उछलता हुआ बजड़ा घाट के सभीप आ रहा था। जीतू ने ननकू से कहा—“खायेक जुगुत त बहुठ गयल गुरु ! अब एक सूकी मिल जाय तड़ पियहू कड ठेकाना हो जात !”

इतने में बजड़ा किनारे लगा। उस पर सवार एक बंगाली यात्री ने पूछा—“झालर ठाकुर का घर कहाँ है ?”

### : ३ :

गोदावरी घाट खाली होने की प्रतीक्षा करते-करते ऊब गई। छुटने तक उसके दोनों पैर पानी में थे। शरीर में सरद हवा लग रही थी, परन्तु उसके हृदय में जो आग जल रही थी उसकी आँख ज्यों-की-त्यों थी। उसने ननकू और जीतू की बातचीत सुनकर इतना समझ लिया कि दोनों ही अभाव-पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा से उसे यह सोचकर एक प्रकार का सन्तोष हुआ कि विश्व में मैं ही अकेली अभावग्रस्त नहीं हूँ।

जीतू और मछिया की बातों से उसकी सन्तोष-भावना कुचिठत हो गई। पति-पुत्र से भरे गार्हस्थ्य जीवन का मनोरम चित्र उसकी आँखों के सामने खिच गया। उसके हृदय में टीस-सी उठी और जिस समय

जीतू ने स्नेह-गद्गद कराठ से अपनी पत्नी की चर्चा चलाई तो उस अज्ञात केवट-कासिनी के सौभाग्य पर गोदावरी का मन इंधर्या से तिक्कमिला उठा। उसने उस घाट से उठ और भी एकान्त गंगातट खोजने का विचार किया। वह अपना विचार कार्यान्वित करने जा ही रही थी कि उसने एक बज़ड़ा किनारे लगते और उस पर सचार एक परदेशी को अपने पति का नाम लेते सुना। वह नुपचाप बैठी रह गई। उसने सुना कि जीतू परदेशी से कह रहा है—“झालर डाकुर नाहीं, झालर महाराज।” “झाँकी टीक कहत है जीतू। बंगालिन में परण्डा के डाकुर कहल जाला। तू जनतड नाहीं?” नवकृ धाटिये ने कहा। “बाहरे, हम नाहीं जानित! लडकह्यों में झालर गुरु के संघे हम गुलली-डण्डा खेलते हैं, अउर हमर्हीं ओनहैं नाहीं जानित? खूब कहलड गुरु!” अपनी जानकारी पर आचेष हुआ समझकर जीतू ने नवकृ को कुछ गरमाकर जवाब दिया। नवागान्तुक यात्री ने जीतू से फिर पूछा—“झालर उपाध्याय डाकुर को क्या जानता?”

“का नाहीं जानता? सब जानता!” कहकर जीतू ने झालर उपाध्याय की हुलिया बताना आरम्भ किया—“सिर की ज़ैसन हाथ गोड़ रहल, रुखा-सूखा चेहरा। . . .”

जीतू के मुँह से अपने पति की आकृति का निरूपण सुनकर गोदावरी को स्मरण हो आया कि उसके पति किनते भोलेभाले और दुर्बल थे। अपने भोलेपन और दुर्बलता के कारण वह समूचे समाज की परिहास-वृत्ति के आलम्बन थे। उन्हें लोग अनायास चपत जमा देते। वह बैचारे सिर खुजलाते हुए इधर-उधर देखकर चुप हो जाते। उन्हें राह चलते कोई अद्विती देकर गिरा देता। वह धूल झाइकर नुपचाप घर लौट आते। घर में भी पुरुष उनका अपमान करते और स्त्रियाँ उपेक्षा। गोदावरी को सुना-सुनाकर लोग झालर की मूर्खता, शक्तिहीनता और अक्षमता पर च्याप करते और गोदावरी मन-ही-मन जलती। आज जीतू के सुख से भी वही बात सुनकर उसके हृदय का सूखा घाव हरा हो

गया। उसने सुना कि बंगाली यात्री जीतू से कह रहा है—“नहीं, नहीं, हमारा ठाकुर दुर्बल नहीं, बड़ा वलशाली है।” “अरे ऊतऽ हनुमानजी कऽ दरसन पठले के बाद न। हम पहिले कऽ हाल कहत हैं,” जीतू बोल।

उधर फिर विना रुके श्रद्धा-विगतित स्वर में ननकू भी थोल चला—“फालर महाराज का नियम था कि वह विना संकटमोचन हनुमान का दर्शन किये अन्न नहीं ग्रहण करते थे। दो साल हुए साथन के महीने में सूर्यग्रहण पड़ा। यजमान यात्री के चक्कर में उस दिन फालर रात नौ बजे घर आये। नहा-धोकर भोजन के लिए आसन पर बैठे। परन्तु ज्योही उन्होंने पहला ग्रास उठाया कि उन्हें स्मरण पड़ गया कि आज हनुमानजी का दर्शन नहीं किया। बस वहीं हाथ रोक उन्होंने अपनी माँ से कहा—“माँ, मेरी थाली देखती रह, मैं दम-भर में दर्शन करके लौटा आता हूँ। माँ ने उन्हें मना किया, परन्तु उन्होंने नहीं माना और घर से निकलकर संकटमोचन का रास्ता पकड़ा। जानते हो बाबू, संकटमोचन का मन्दिर नगर से डेढ़ कोस दूर है। दिन-दोपहर भी वहाँ कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीच में रामापुरा है जहाँ तीरकमानधारी डोम दिन-दहाड़े बटारी करते हैं। मन्दिर के चारों ओर धना जंगल है जिनमें भयंकर जंगली जानवर ही नहीं, बड़े-बड़े जहरीले सौंप-बिच्छू भी रहते हैं। रास्ते में अस्सी का विकट नाला है। बरसात में तो उसकी यह दशा हो जाती है कि यदि उसमें हाथी भी पड़े तो चीथड़ा होकर बढ़ जाय। खाल करो बाबू, उसी मन्दिर की ओर भरी बरसात श्रमावस की रात में दुर्बल ब्राह्मण अकेला चल पड़ा। बादल घिरे थे, बूँदें पड़ रही थीं, रह-रहकर बिजली चमक उठती थी। और उसी के प्रकाश में ब्राह्मण अश्वमेध के घोड़े की तरह निर्द्वन्द्व दौड़ा चला जा रहा था। जहाँ उसे डर लगता वह जोर से चिल्ला उठता—

‘खल दल वन दावा अनल,

राम स्थाम घन मोर ।

रोम-रोम में वज्रबल,  
जय केसरी किसोर !”

और फिर दूने वेग से अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाता । हस्त प्रकार दौड़ते-दौड़ते जब भालर नाले के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नाला उमड़कर समुद्र हो रहा है । उसे पार करने का कोई साधन न देख उन्होंने धोती और हुपटा उतारकर एक पेड़ की ढाल पर रख दिया । लंगोट के ऊपर आँगोचा कसकर कूदने के लिए उछले । परन्तु आगे न चढ़ सके । उनका हाथ पकड़कर किसी ने पीछे से खींच लिया । अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका देते हुए जब वह थुमे तो उन्होंने देखा कि एक हट्टे-कट्टे आदमी ने उनका हाथ कसकर पकड़ रखा है । उन्होंने दयनीय मुद्रा से उसकी ओर देखा । उसने भालर से पूछा—“क्या आम्हात्या करना चाहते हो ?”

“नहीं, मैं हनुमानजी का दर्शन करने जा रहा हूँ,” भालर ने उत्तर दिया । नाले की प्रखर धारा की ओर हशारा करते हुए उस अज्ञात व्यक्ति ने भालर से कहा—“इस धारा में हाथी भी अपना पैर नहीं जमा सकता । तुम्हारी तो हड्डी का भी पता न लगेगा ।”

“अब चाहे जो हो, मैं तो संकटमोचन का दर्शन किये बिना अन्न नहीं ग्रहण कर सकता । यही मेरा नेम है,” अत्यन्त विनीत स्वर में भालर ने आगान्तुक को समझाया ।

“तब तुम समझ लो कि तुम्हें संकटमोचन का दर्शन हो गया और लौट जाओ,” अज्ञात व्यक्ति ने कहा । यदि भालर को अबसर मिला होता तो वह अब तक उस व्यक्ति के पास से भाग निकलते, परन्तु उसने तो उनका हाथ पकड़ रखा था । दिन-भर के परिश्रम से तो वह परेशान थे ही, उधर उनके उदर में चुधा ने भी लंकाद्वहन मचा रखा था । अतः स्वभाव के प्रतिकूल आज वह कुछ कड़े पड़ गए और मल्लाकर बोले—“तुम्हारे कहने से समझ लूँ कि दर्शन हो गया । यहाँ हनुमानजी

कहाँ हैं ?”

परम दुर्वल और निरीह फ़ालर को गरमाते देख वह व्यक्ति सुस्क-  
राया और धीरे-धीरे बोला—“समझ लो मैं ही हनुमानजी हूँ ।” इस  
पर फ़ालर एकदम बिगड़ उठे । उन्हें जीवन में पहली बार कोध हो  
आया । उन्होंने दृढ़त पीसते हुए कहा—“सभी ऐरे-गैरे हनुमानजी  
बनने लगें तो हो चुका ! तुम हनुमानजी हो तो प्रमाण दो ।”

“क्या प्रमाण लोगे ?”

“यदि तुम हनुमानजी हो तो मुझे वही रूप दिखाओ जो उन्होंने  
सीताजी को दिखाया था । वही रूप—‘कनक भूध राकार सरीरा, समर  
भयंकर अति बल वीरा ।’” कुछ सोचकर फ़ालर ने कहा ।

“डरोगे तो नहीं ?”

“नहीं ।”

“अच्छा, तो देखो,” उस व्यक्ति ने कहा और सहसा उसका  
शरीर लगा बड़ने । ऐसा जान पड़ा मानो उसका सिर आकाश तूँ लेगा ।  
फ़ालर उपाध्याय ने भयवश आँख झूँद लीं और विधियाकर उस व्यक्ति  
के चरण पर गिर पड़े ।

जब उन्होंने आँखें खोलीं तो देखा कि वही पहले बाला आदमी  
उनके सामने खड़ा है । उस आदमी ने फिर कहा—“बोलो, तुम मुझसे  
क्या चाहते हो ? जो माँगोगे वही पाओगे ।”

फ़ालर को उसी दिन दोपहर की वह घटना स्मरण पड़ी जिसमें  
एक पराडे ने फ़ापड़ मारकर उनसे रकम छीन ली थी, और वह सदा  
की भाँति दुम दबाकर वहाँ से हट गए थे । यह ध्यान आते ही  
उनके मुँह से सहसा निकला—“आप अपनी कानी औँगुली का बल  
मुझे दे दीजिए ।”

हनुमानजी फिर मुस्कराए और उन्होंने कहा—“तुम्हारा कलि-  
युगी कलेवर इतना बल सह न सकेगा । तुम अपना मुँह ऊपर उठा-  
कर खोल दो ।”

स्वाति के प्यासे परीहे की तरह भालर ने अपना शुक्कि-मुख ऊपर उठाया। हनुमानजी ने भी अपना रोअँ तोड़कर उनके मुख में डाला दिया। सुँह में रोअँ पड़ते ही भालर के शरीर में बिजली-सी दौड़ गई और वह वायु-वेग से दौड़ते हुए घर वापस आये। आते ही वह चौके में बुस पड़े और थाली में रखा भोज्य-पदार्थ दोनों हाथों से उठा-उठाकर सुँह में ढूँसने लगे। थाली का सामान समाप्त हो गया तो 'भूख-भूख' चिल्लाते हुए वह भण्डार में बुस गए और आटा, दाल, चावल जौ भी चीज सामने आईं सब भक्षण करने लगे।

ननकू को बात सुनते-सुनते गोदावरी की उस रात की घटना स्मरण हो आई। भालर के उस अद्भुत आचरण से लोगों को 'ऊपरी फेर' का भ्रम हो गया। लोगों ने उन्हें भण्डार में बुसा देख बाहर सिकड़ी लगा दी थी और भालर रात-भर भण्डार में अनन्धर्वस करते रहे थे। उधर ननकू कहता जा रहा था—

“हाँ बाबू, सबेरा होने पर भालर इसी घाट पर वह जो टेढ़ी मढ़ी खड़ी है उसी पर हाथ टेककर खड़े हो गए। यह मढ़ी तब बिलकुल सीधी थी। लोगों ने समझा कि यह वही रोने वाले भालर है। कोई-कोई बोली भी काटने लगे। एक ने कहा—‘गुरु, तनी संभार के, कहाँ तोरे धक्का से मढ़ी न लोट जाय।’ उस बखत भालर महाराज तो आपे में थे नहीं। सो उन्होंने गरजकर कहा—‘ई बात!’ और मढ़ी पर जो उन्होंने अपने शरीर का दबाव दिया तो मढ़ी अररा-कर झुक चली। देखने वाले लोग ‘बाप, बाप’ चिल्लाकर भागे। यह देख भालर महाराज बड़े जोर से हँसे और पथर का एक टुकड़ा उठाकर उन्होंने मढ़ी के नीचे रख दिया। मढ़ी उसी पर आज तक स्की खड़ी है। इसके बाद उन्होंने किलकिलाकर विकट ध्वनि की और उछल-कर गंगा की बाढ़ में कूद पड़े। इसके बाद फिर वह क्या हुए और कहाँ गये यह कोई नहीं जानता।”

“इसके बाद वह कहाँ गये यह मैं जानता हूँ।” आगन्तुक बंगाली बोला।

“आप जानते हो?” आश्चर्य से ननकू ने कहा। उधर गोदावरी भी अपने प्रत्येक लोमकूप को कान बनाकर आगन्तुक बंगाली का उत्तर सुनने के लिए आतुर हो गई। आगन्तुक भी कहने लगा—

“मेरे बड़े भाई मुशिराबाद के राजा के दीवान हैं। राजा साहब भी झालर ठाकुर के यजमान हैं। यही दो वर्ष पहले सावन का महीना था। सबैरे का दरबार लगा था कि झालर ठाकुर पानी से तर केवल एक थंगोड़ा पहने दरबार में धुस पड़े और राजासाहब से कहा कि ‘मैं भूखा हूँ।’ राजा ने ही नहीं, हम सभी ने यही समझा कि ठाकुर का मस्तिष्क घिरकृत है। परन्तु उन्हें कष्ट न होने पाए यही सोच-कर हमने उनके निवास और रसद का प्रबन्ध कर दिया। थोड़ी ही देर में भण्डारी ने आकर सूचना दी कि ठाकुर ने केवल आटा ही डेढ़ मन ले लिया है और उपले की देरी में आग दहकाकर उसी आटे का भोटा-मोटा लिंग बना उसमें सिद्ध कर रहे हैं। यह सुनकर हम सबको निश्चय हो गया कि ठाकुर पागल हो गए। परन्तु राजासाहब को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपने मुसलमान महावत को डुलाकर कहा कि वह हाथी लेकर ठाकुर की ओर जाय और वह उधर न आने के लिए चाहे जितना कहें, उनकी एक न माने।

“महावत ने तुरन्त आदेश पालन किया। वह हाथी लेकर ठाकुर की ओर बढ़ा। ठाकुर उस समय भोजन कर रहे थे। वह हाथी उधर न लाने के लिए हाथों के इशारों से बार-बार ‘हूँ-हूँ’ करने लगे, परन्तु जब हाथी न रुका तो उन्होंने लिंगी का एक बड़ा ढुकड़ा तोड़कर उसी से हाथी को मारा। हाथी ‘पें-पें’ करता हुआ उलटे पैर भागा। जब महावत ने राजा साहब को इसकी सूचना दी तो वह ठाकुर के पास गये और उनसे निवेदन किया कि मेरे उद्यान में कहीं से गैंडा आ निकला है। हम लोगों ने उसे उसी में साल-भर से बन्द कर रखा है। उसके कारण

मेरा सुन्दर उद्यान नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है। आप हमारा यह संकट दूर कर दें। ठाकुर ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम सब लोग महल में से होकर उद्यान के ऊपरी खण्ड में जा बैठे। ठाकुर ने उद्यान का साल-भर से बन्द दरवाजा एक ढोकर मारकर तोड़ गिराया और भीतर प्रवेश कर गैंडे को लालकारा। गैंडा भी उद्यान में मानुस-गन्ध पाकर घफरता हुआ सामने आया। उसके सामने आते ही ठाकुर विजली की तरह उस पर झपटे। उसका एक पिछला पैर उन्होंने अपने पाँव से दबाकर दूसरा पैर हाथ से ऊपर उठाया और जैसे बजाज कपड़े का थान फाइता है वैसे ही उसे कर्र से चीरकर दो-टूक कर दिया। तत्पश्चात् वह बैठ-कर गैंडे का रक्त चुल्लू में भरकर वेदमन्त्रों से अपने पितरों का तर्पण करने लगे। उन्होंने राजासाहब को भी उसी से तर्पण कराया और इसके पश्चात् वहाँ से विदा हो गए। हम लोग समझते थे कि वह काशी लौट आए।

आगन्तुक बंगाली की बात सुनकर जीतू और ननकू दोनों ही स्तव्य हो उठे। गोदावरी की निस्तेज आँखों में भी चमक आ गई। इतने में आगन्तुक ने पुनः पूछा—“ठाकुर का कोई लड़का नहीं है?”

“नहीं! उनकी धर्मपत्नी हैं,” ननकू ने उत्तर दिया।

“धन्य है, धन्य है! मैं उस साध्वी का ही दर्शन करूँगा जिसे ऐसा देवता पति मिला।” श्रद्धा-विगलित होकर यात्री ने कहा।

गोदावरी की छाती गर्वस्फीत हो उठी। उसके भूखे अहं को भोजन मिला और वह पानी में से पैर निकाल उठ खड़ी हुई और घर लौटने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।

## सिवनाथ-बहादुरसिंह

### वीर का खूब बना जोड़ा

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

उपर पीपल के विशाल वृक्ष पर कौए बोलने लगे ।

नीचे प्रायः पाँच सौ व्यक्तिगतों का समूह गाने-बजाने में मस्त मूस रहा था । रात के दस बजे से लालनी की जो ललकार आरम्भ हुई वह अब तक जारी थी । फाँक्युक्त चंग की आवाज पर पाँच आदमी एक साथ गाते थे—

“सिवनाथ बहादुर सिंह  
वीर का खूब बना जोड़ा  
समुख हीकर लड़े  
निकलकर मुँह नाहीं मोड़ा”

और तब एक आदमी अत्यन्त सुरीले स्वर से ग्रकेले ही चहकता—

“दो कम्पनी पाँच सौ  
चड़कर चपरासी आया  
गली-गली औ’ कूचे-  
कूचे नाका बँधवाया  
मिर्जा पाँचू ने कसम  
खाय के कुरान उठाया……”

इसी समय फेंक ते बगल में बैठे रूपचन्द्र का हाथ दबाकर उससे

धौरे से कहा—“अब चलना चाहिए।”

काशी में नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर के उत्तर की ओर जहाँ आजकल दरभंगा-नरेश का शिवाला है, सदा की भाँति होली के टीक पाँच दिन पूर्व उक्त मञ्जलिस आपसम हुई थी। सबेरा हो जाने पर भी गायन-चादन का क्रम हटता न देख फैकू का धीरज हट गया। दो दिन पूर्व मीरघाट पर लाठी लड़ने में उसका सिर फूट गया था। उस पर अब भी पट्टी बैधी हुई थी। रात-भर के जागरण से उसके सिर में ही नहीं, सिर के घाव में भी दर्द हो रहा था। उधर रूपचन्द की आँखें भी उनींदी हो गई थीं। अतः रूपचन्द ने फैकू का प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया और घर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। दक्षिण की ओर चार कदम चलकर दोनों दाहिनी ओर मुड़े और रूपचन्द ने सामने स्थित चौरे की ओर उंगली उठाकर कहा—“देखो भाई, वही जगह है जहाँ रात मेरे हाथ से मलाई का पुरवा झटक लिया गया।”

रूपचन्द ३६-३७ वर्ष की उम्र का बालक-मात्र था। अभी-अभी पंजाब से काशी आकर गढ़वासी टोले में बस गया था। पड़ोस में जो गाने-बजाने का सार्व जनिक आयोजन सुना तो रात को दूकान से लौटकर नहीं गया, वरन् आधा पाव मलाई लेकर सीधे नीलकण्ठ जाने के लिए ब्रह्मनाल की ओर से चौरी की ओर मुड़ा। चौरी के पास पहुँचते ही किसी ने अपटकर उरवा उड़ा लिया। चतुर्दिक निगाह दौड़ाने और रात चौंदनी रहने के बावजूद भी कोई नजर न आया।

उक्त घटना स्मरण आते ही उसके रोपूं हस समय भी भरभरा उठे। उसके साथी बीसवर्षीय तरुण पहलवान फैकू ने विज्ञ की भाँति सिर हिलाया और कहा—“हूँ।” रहस्य का रङ्ग और गढ़ा हो गया।

सुबह का रङ्ग भी और अधिक निखर आया था। शाक-भाजी खरीद और गङ्गा-स्नान कर लौग उस रास्ते लौटने लगे थे। कुछ दूढ़ी स्थिराँ चौरे पर अच्छत फूल भी फैक रही थीं। उन्होंने रूपचन्द की बात सुनी, उसकी विवरण विकृति देखी और कुछ स्मरण कर स्वर्थं भी

काँप उठीं। बगल से गुजरते हुए पुरुषों ने सुना; वे भी सिंहर उठे।

फैक्ट यह सब देख मुस्कराने लगा। एक बृद्ध ने कहा—“वेठा, हँसने की बात नहीं है; यह बड़े वीर का चौरा है।”

“ओर ठाकुर सिवनाथसिंह का न? अपने शम को भी सब बिड़ित है। इसी महलते में पैदा हुए और पले,” फैक्ट ने गर्व से कहा।

रूपचन्द कभी उस बृद्ध और कभी अपने साथी की ओर देख रहा था। उसने पूछा—“क्यों, बात क्या है? आप लोग बताते क्यों नहीं?”

फैक्ट ने कहा—“चलो घर, वहीं बता देंगे।” बालकों की तरह मचलते हुए रूपचन्द ने कहा—“नहीं-नहीं, पहले यह बताएँ कि सिवनाथसिंह कौन थे और यह चौरा क्यों बना?” “हतनी उतावली थी तो वहीं बैठकर पूरी लावनों ही क्यों न सुन ली?” फैक्ट ने डाँटा। “गाना-बाना मेरी समझ में नहीं आता। परिणतजी आप, कहिए, सिवनाथसिंह कौन थे?”

बृद्ध पण्डित ने उत्तर दिया—“सिवनाथसिंह स्त्रिय ये और थे नगर के विख्यात गुरु। चौबीसों घण्टे डङ्के की चोट सोलह परी का नाच करते थे—छमाछम। ६ और ८ की श्वनि से उनका घर गूँजता रहता था। खुली कौड़ी पड़ती थी। ‘न अरटी न लासा, सफा खेल खुलासा,’ वाला मामला था उनका। नाम सुनकर लोगों का नख सरद होता था और वह खुद ऐसे तपते थे जैसा जेठ की दुपहरिया में सूरज तपता है। जैसे सूरज का जवाब चन्द्रमा है वैसे ही बाबू बहादुरसिंह सिवनाथसिंह के जोड़ीदार थे। उन्हीं की तरह बहादुर, उन्हीं की तरह शेर! कहावत है कि बोडे की लात धोड़ा ही सह सकता है। सो सिवनाथसिंह का बल बहादुरसिंह और बहादुरसिंह का तेज सिवनाथसिंह ही सह सकते थे। सागिरदों की ‘धड़क’ खोलने के लिए उन्हें दो दलों में बाँट दोनों फागुन-भर धर्मयुद्ध करते थे। वह धर्मयुद्ध ही था। पिता-पुत्र लड़ते थे और भाई-पर-भाई बार करता था। आजकल की तरह बुराई नहीं निकाली जाती थी, जिसमें ये सिर तुड़ाए दैठे हैं।”

बृद्ध ने जिस समय फेंक की ओर उँगली उठाकर कहा उस समय फेंक ने रूपचन्द का हाथ दबा रखा था और उसके ताकते पर कनसी से घर चलने का इशारा कर रहा था। बृद्ध ने वही देख उस पर बयंग किया था।

उधर रूपचन्द बृद्ध की एक-एक बात सुन नहीं, पी रहा था। उसने फेंक के इशारे की उपेक्षा कर दी। बृद्ध पुनः कहने लगा—“सौ बरस की बात है। बनारस में नवा-नवा अंग्रेजी राज हुआ था। तब पुलिस नहीं थी बरकन्दाज थे। तब ज्ञानापन नहीं चलता था, मरदाने-पन की झड़जत थी। सुकदमा बनाया नहीं जाता था, मूँछों की गुरें-बाजी के कारण स्वर्य बनता था। अंग्रेजी राज्य में देसी हंग से जुआ खेलने और देसी शराब पीने को रोक थी; आज भी है। परन्तु सिव-नाथसिंह के घर के आँगन में दो फड़ों पर कौड़ी फेंकी जाती थी और एक-एक फड़ के सामने सिवनाथसिंह और बहादुरसिंह एक हाथ में नझी तलवार खींचे दूसरे हाथ से नाल की रकम उतारकर सामने रखी पेटी में डालते जाते थे। दरवाजा चौबीसों बराटे खुला रहता था, पर क्या मजाल कि पंछी पर मार सके!”

बृद्ध ने रुककर साँस ली। रूपचन्द आश्चर्य के समुद्र में उभ-चुभ हो रहा था। उसके ऊपर भय की भयावनी लेहरे उठ-बैठ रही थीं। बृद्ध बक्सा मुस्कराया और फिर कहने लगा—“उस समय मिर्जा पाँचू-शहर-कोतवाल थे। वह अपने को दूसरा लाल खाँ समझते थे। बरकन्दाजों की पूरी पलटन लेकर गश्त के लिए निकलते थे। पाँच बार नमाज पढ़कर अपने ‘मजहबी’ होने का प्रचार किया था। सिवनाथसिंह के कारण उनकी बड़ी किरकिरी होती थी। मिर्जा पाँचू और उनके बरकन्दाजों ने सिवनाथ और बहादुर से टक्कर ली, लेकिन जैसे चट्ठान से टकराकर लहर सौ टुकड़े होकर पीछे लौट जाती है, वे भी पहले तो भरस्त और मस्त लेकिन बाद में परास्त और ब्रह्म ब्रह्म होकर रह गए।

“अन्त में सिवनाथ और बहादुर के विनाश के लिए मिर्जा पाँचू ने

कुरान उठाकर कसम खाया और एक-दो कम्पनी याने पाँच सौ सिपाही लेकर सिवनाथसिंह का घर घेर लिया। सिवनाथसिंह बाहर गये थे; बहादुरसिंह मौजूद थे। परन्तु उनके हाथ-पाँव फूल गए। जुआरियों की मण्डली भी घबराई।

“सर्वाधिक चपल, साथ ही सर्वाधिक चालाक एक जुआरी ने उछला-कर द्वारा बन्द कर लिया। बन्दूकों के कुन्दों से सिपाही फाटक पर चोट देने लगे। प्रहार दरवाजे पर नहीं, सिवनाथसिंह की शान पर हो रहा था। बहादुरसिंह ने उठने का प्रयत्न किया तो जुआरियों ने उन्हें बैठा दिया। इतने में बाहर भगदड़ मची। लोगों ने खिड़की के बाहर झाँक-कर देखा कि सिपाही हथियार फेंक-फेंककर भाग रहे हैं, दस-पाँच छूटपटा रहे हैं और दो-चार ठगडे पड़े हैं। वहीं ठाकुर सिवनाथसिंह खड़े हैं—खून से लथपथ, क्रोध से ओंठ चबाते और मानसिक चंचलता दबान पाने के कारण तलवार न चाते।

“खिड़की से यह दश्य देख बहादुरसिंह बहुत लजाए, दरवाजा खुलवा दिया, परन्तु सिवनाथसिंह ने कहा कि जिसने दरवाजा बन्द कर मेरा अपमान कराया है उसका सिर काट लेने के बाद ही अब मैं घर में प्रवेश करूँगा। ठाकुर की बात सुनकर सब एक-दूसरे का सुँह देखने लगे। अपराधी हाथ जोड़कर सामने आया। उसे देखते ही सिवनाथसिंह के सुँह से निकला—‘ओरे परिणत तुम !’

“‘हाँ’ धर्मावतार’, सिर झुकाये हुए जुआरियों की चिलम भरने-वाले ब्राह्मण ने कहा। कुछ सोचकर ठाकुर ने कहा—‘अच्छा, सामने से हट जाओ ! अब कभी मुँह न दिखाना !’

“परिणत वैसे ही नतमस्तक वहाँ से हट गए। ठाकुर सिवनाथसिंह भी घर में गये। स्नान कर क्रोध की ज्वाला कुछ बुझाई और तब आँगन में आकर बैठे गए। सामने ही बहादुरसिंह भी बैठे थे। न वह इनकी ओर देखते थे और न यह उनकी ओर। इतने में वही ब्राह्मण पुनः दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला—‘सरकार, दो कम्पनी

फौज आई हैं। उसमें फिर गी भी हैं। मिर्जा पांचू ने कुरान उठाकर कसम खाई है कि सरेंगे या मारेंगे।

“सिवनाथसिंह की भृकुटि में बल आ गया। वह उठे, दरवाजे की ओर चले, फिर कुछ सोचा और पण्डित से कहा—‘दरवाजा बन्द कर दो।’

“पण्डित ने मन-ही-मन मुस्कराते हुए द्वार बन्द कर दिया। इतने में फौज आ पड़ी। मकान धेर लिया गया। गोरे गाली देने और गोली बरसाने लगे।

“कुछ देर वह कम चला। सहसा बहादुरसिंह तलबार लिये उठे और झपटकर लिड़की से नीचे कूद पड़े। अब सिवनाथसिंह भी बैठे रह न सके; वह भी कूदे। फिर क्या कहना था! दोनों ने तलबार के बह हाथ दिखाए कि शत्रु मुँह के बल आ रहा। उसी समय किसी गोरे की किर्च बहादुरसिंह के कलेजे में पार हो गई। एक दूसरे गोरे की गोली ने भी उसी समय उनकी कपाल-किया कर दी। अब तो सिवनाथसिंह को और भी रोष हो आया। वह जी तोड़कर लड़ने लगे। इतने में एक तिलंगे की तलबार का ऐसा सच्चा हाथ उनकी गरदन पर पड़ा कि सिर छृटकर दूर जा गिरा। एक बार तो सिपाही प्रसन्न हो उठे, परन्तु दूसरे ही क्षण यह देखकर उनका छृक्का छृट गया कि कबन्ध वैसे ही तलबार चलाए और उनका नाश किये जा रहा है।”

कहते-कहते ब्राह्मण स्कर और फिर तीव्र स्वर में रूपचन्द की ओर उँगली उठाकर बोला—“जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ एक तमोली की ढूकान थी। सिवनाथसिंह वहाँ ग्रायः पान खाते थे। कबन्ध भी तलबार बुमाते बहाँ पहुँचा जहाँ चौरा है और अभ्यासवश खड़े होकर उसने एक हाथ तमोली की ओर पसारा। ‘अरे बप्पारे’ चिल्लाकर तमोली बेहोश हो गया। कबन्ध भी लड़खड़ाकर गिर पड़ा।”

रूपचन्द का चेहरा फीका पड़ गया। उसे बेहोशी आती जान पड़ी। फेंकू ने कहा—“तब से वहाँ रात-विरात खाने-पीने की चीज़

लेकर आने वालों के हाथ से ठाकुरसाहब छीन लेते हैं।”

रूपचन्द पूरा बेहोश हो गया। फैक्ट्र की डकार आई और अधपकी मलाई की खट्टी-सी हरकी दुर्गन्ध बायु में व्याप्त हो गई। उधर गली के नुककड़ पर लावनीवाले गाए जा रहे थे—‘सिवनाथ बहादुरसिंह वीर का खूब बना जोड़ा !’

## एही ठैयाँ भुलनी हेरानी हो रामा !

• • • • • • • • • • • • • • • • •

: १ :

महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे और तंग चोली कसे दुलारी दनादन दण्ड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक-टपककर गिरी बूँदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के ब्रैंगीछे से अपना बदन पौँछा, बँधा हुआ जूँड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात् कद-आदम आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदण्डों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के ढुकड़े और हरी मिरच के साथ उसने कटोरी में भिगोया हुआ चना चबाना आरम्भ किया।

उसका चण्ण-चर्बण-पर्व अभी समाप्त भी न हो पाया था कि किसी ने बाहर बन्द दरवाजे की कुण्डी खटखटाई। दुलारी ने जलदी-जलदी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिया और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी।

बगल में बण्डल-सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर ढुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शरमीली थी और उसके पतले ओठों पर झेंप-भरी फोकी सुस्कराहट थी। विलोल बेद्यापन से भरी अपनी आँखें ढुन्नू की आँखों से मिलाती हुई दुलारी बोली—“तुम फिर यहाँ आये ढुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था न ?”

ढुन्नू की सुस्कराहट उसके ओठों में ही विलीन हो गई। उसने

गिरे मन से उत्तर दिया—“लाल-भर का त्यौहार था, हस्तिए मैंने सोचा कि……” कहते हुए उसने बगल से बण्डल निकाल। और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बण्डल लेकर देखने लगी। उसमें खहर की एक साढ़ी लपेटी हुई थी। दुन्नू ने कहा—“यह खास गांधी आश्रम की जिनी है।”

“लेकिन हस्ते तुम मेरे पास क्यों लाये हो?” दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। दुन्नू का शीर्णवदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा—“मैंने बताया न कि होली का त्यौहार था।” दुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई—“होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आये? जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए। तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो; कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ।” और उसने उपेक्षापूर्वक धोती दुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। दुन्नू की काजल-लगी बड़ी-बड़ी आँखों में अपमान के कारण आँसू भर आए। उसने सिर सुकाये हुए आर्द्धकण्ठ से कहा—“मैं तुमसे कुछ माँगता तो हूँ नहीं। देखो, पथर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी हुई भेट नहीं दुकराती; तुम तो हाइ-मांस की बनी हो।”

“हाइ-मांस की बनी हूँ तभी तो कुत्तों के भारे नाकोंदम हो रहा है,” दुलारी ने कहा।

दुन्नू ने जवाब न दिया। उसकी आँखों से कज्जल-मस्तिन आँसू की खूँदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप-टप टपक रही थीं। दुलारी कहती गई—“अभी तुम्हारे दूध के दैत भी नहीं दूड़े और मजनूपन सिर पर सवार हो गया। बाप दिन-भर धाट आगोर कौड़ी-कौड़ी जुटाकर गृहस्थी चलाता है और बेटा आशिकी के घोड़े पर सवार सरपट दौड़ रहे हैं। तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ। यह गली तुम जैसों के लिए नहीं है। और फिर आशिक भी होने चले तो मुझ पर जो शायद तुम्हारी माँ से भी उमर में बरस-भर बड़ी है।”

दुन्नू पाषाण-प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा—“मन पर किसी का बस नहीं; वह रूप या उमर का कायल नहीं होता।” और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी-खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं आब भौं बक थी, परन्तु बेग्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने गूमि पर पड़ी धोती डाई; उस पर काजला से सने आँसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए दुन्नू की ओर देखा और किर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार-बार चूमने लगी।

## : २ :

दुलारी के जीवन में दुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल छः मास हुए थे। पिछले भावों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवां बाजार में गाने गई थी। दुककड़ पर गानेवालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्म में ही सवाल-जवाब करने की अद्भुत ज्ञानता प्रसप्त थी। कजली गाने वाले बड़े-बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। इसीलिए उसके मुँह पर जाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर से खड़ा कर खोजवां वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, परन्तु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल-जवाब के लिए दुककड़ पर चोट पड़ी और विष्व से १६-१७ वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबके आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर लकड़ा डाला—“रनियाँ लड़ परमेसरी लोट!” (प्रामिसरी नोट) तब उन्हें अपनी विजय का पूरा विश्वास न रह गया।

बालक दुन्नू वड़े जोश से गा रहा था—

“रनियाँ लड़ परमेसरी लोट !

दरगोड़े से धेवर हुँदिया

दे माये मोती क s विंदिया  
अउर किनारी में सारी के  
टाँक सोनहली गोट । रनियाँ...”

शहनाई वालों ने दुन्नू के गीत को बन्द बाजे में दोहराया । लोग यह देखकर चकित थे कि बात-बात में तीरकमान हो जानेवाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी-खड़ी मुस्करा रही हैं । कण्ठ-स्वर की मधुरता में दुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुझ खड़ी सुन रही थी ।

दुन्नू के इस सार्वजनिक आविभाव का यह तीसरा था चौथा अच-सर था । उसके पिता धाट पर बैठकर और कच्चे महाल के दस-पाँच घर बजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर शाद्द और विवाह तक कराकर कठिनाई से शुहस्थी की नौका खे रहे थे । परन्तु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा । उसने भैरोहेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुन्दर कजली-रचना करने लगा । वह पद्मासन प्रश्नोत्तरी से भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से दुलारा गया था । उसकी ‘शायरी’ पर बजरडीहा वालों ने ‘वाह-वाह’ का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया । खोजवां वालों का रंग उत्तर गया । दुन्नू ने दुलारी के पके जामुन-जैसे काले रंग की ओर इशारा करके पद्म में कहा—

“तुम्हें दुनिया नारी क्यों कहती है । तुम तो सचमुच कोकिल हो । रंग भी तुम्हारा कोकिल-जैसा ही है । कण्ठ भी उसकी कूक को मात करता है । कोकिल को कौए की मादा पालती है; तुम्हारा भी पीषण दूसरों द्वारा हुआ है । कोयल की आँखें लाल-लाल होती हैं । वह कभी भी पूरी हुआ चाहती है । मेरा गाना सुनकर तुम्हारे नेत्र भी लाल होते जा रहे हैं ।”

दुन्नू ने भूल की । दुलारी की आँखें क्रोध से नहीं गाँजे की आग से लाल हो रही थीं । वह दुन्नू का यह आक्षेप सुनकर जोर से हँस

पड़ी । दुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया ।

उन्हें दुक्कड़ पर चोट पड़ी । शहनाई का मधुर स्वर गूँजा । अब दुलारी की बारी आई । उसने अपनी दृष्टि मद्विहृत बनाते हुए दुन्नू के दुबले-पतले परन्तु गोरे-गोरे चेहरे को भर-आँख देखा और उसके करण से छल-छल करता स्वर का सोता फूट निकला—

“कोहियल मुँहवै लेब बकोट  
तोर बाप तड बाट अगोरलन  
कौड़ी-कौड़ी जोर बटोरलन  
तैं सरबउला बोल जिन्नगी में  
कब देखले लोट ? कोहियल”•••”

अब बजरडीहा बालों के चेहरे हरे हो चले, वे बाहवाही देते हुए सुनने लगे । दुलारी गा रही थी—

“तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं । तू तो वास्तव में बगुला है । बगुले के पर-जैसा ही तेरे शरीर का रंग है । वैसे तू बगुलाभगत भी है । उसी की तरह तुझे भी हँस की चाल चलने का हौसला हुआ है । परन्तु कभी-न-कभी तेरे गले में मच्छरी का काँटा जहर आटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जायगी ।”

इसके जवाब में दुन्नू ने गाया था—

“जेतना मन मानै गरियावड  
अइसै दिक्ककड तपन बुझावड  
अपने मनकड बिधा सुनाइव  
हम डंके के चोट । रनियाँ•••”

इस पर सुन्दर के ‘मालिक’ फेंक सरदार लाठी लेकर दुन्नू को मारने दौड़े । दुलारी ने दुन्नू की रक्षा की ।

यही दोनों का प्रथम परिचय था । उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया । मजतिस बदमज्जा हो गई ।

दुन्नू को विदा करने के बाद जब दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे खयाल पड़ा कि आज दुन्नू की वेश-भूषा में भारी अन्तर था। आवरणों की जगह खदार का कुरता और लखनवी दोपलिया की जगह गाँधी टोपी देखकर दुलारी ने दुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था। परन्तु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे-धीरे जाकर अपने कपड़ों का सन्दूक खोला और उसमें बड़े यत्न से दुन्नू छाश दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी।

उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति दुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था। परन्तु उसने उसे भावना की एक लहर-मात्र माना था। बीच में भी दुन्नू उसके पास कई बार आया। परन्तु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण, दुन्नू आता, घटें-आध घटें दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यन्त मनो-योग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी दुन्नू के हस उन्माद पर मन-ही-मन हँसती। परन्तु आज उसे कृशकाय और कच्ची उमर के पाण्डुमुख बालक दुन्नू पर करुणा हो आई। परित जीवन की अँधेरी वाटियों में पच्चीस वर्ष लगातार घबकर लगा लेने के बाद अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति दुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका सम्बन्ध शरीर से नहीं, आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने दुन्नू की जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि उसके हृदय के एक निमृत कोने में दुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह यह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी; विदार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा

जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्योहाँ धोतियों का एक बगड़ल लिये फैकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवैश किया। हुलारी ने धोतियों का बगड़ल देख धर से दृष्टि केर ली। फैकू ने बगड़ल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा—“देखो तो, कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं!”

बगड़ल पर ठोकर जमावे हुए हुलारी ने कहा—“तुमने तो होली पर साड़ी देने का चादा किया था।”

“चह चादा तीज पर पूरा कर दूँगा। आजकल रोजगार बड़ा मनदा पड़ गया है,” फैकू ने समझाते हुए कहा।

“जुए के रोजगार में तो सुना है, हमेशा नालची को ही फायदा रहता है,” हुलारी ने कहा।

“रोजगार का भार-पेंच तुम क्या समझोगी? पचास रुपया रोज कोतवाल साहब को देना पड़ता है। वही दस-बीस रुपया रोज हल्के की पुलिस को चटाने में उड़ जाता है। तीज पर तुम्हें बनारसी साड़ी जहर पहना दूँगा,” हुलारी को आश्वासन देता हुआ फैकू बोला।

हुलारी फैकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में छुसा और ‘भारतजननि तेरी जय तेरी जय हो’ गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूँज गई। एक बड़ी-सी चादर फैलाकर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज़, कुरता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी।

सहसा हुलारी ने भी अपनी खोली मैचेस्टर तथा लक्काशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारेवाली नई कोशी धोतियों का बगड़ल लीचे फैली चादर पर फैकू दिया। चादर सँभालने वाले चारों व्यक्तियों की आँखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गईं; कारण, अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश

फटे-पुराने थे। परन्तु यह जो नथा बण्डल गिरा उसकी धोतियों का तह तक न खुला था। आरों ध्वनियों के साथ जलूस में शामिल सभी लोगों की आँखें बण्डल फेंकने वाली की तलाश सिङ्कड़की में करने लगीं, त्योंही सिङ्कड़की पुनः धड़ाके से बन्द हो गई। जलूस आगे बढ़ गया।

जलूस में लबके पीछे जाने वाले सुकिया पुलिस के रिपोर्टर अली-सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी कर्फी मूँछों पर हाथ फेरते हुए सज्जन नेत्रों से मकान का लम्बाएँ दिग्गाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर सिङ्कड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरन्त ही पुनः धड़ाके से बन्द भी हो गया। परन्तु इसी बीच अली-सगीर ने देख लिया कि किंवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने फटके से उसका हाथ किंवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया। और दूसरे हाथ से पल्ला बन्द कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुख्यर फेंक सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस-रिपोर्टर के रौयीले चेहरे पर सुस्कान की चीज़ रेखा चाण-भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हृटकर चबूतरे पर बैठे बैनी तमोली के सामने एक दुअर्घी फेंक दी।

#### : ४ :

फेंक सरदार की चौड़ी और युष्ट पीठ पर शपाशप भाड़ भाड़ती तथा उनके पीछे-पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई—“निकल, निकल, अब मेरी ढेहरी ढाँका तो दाँत से तेरी नाक काट लूँगी।”

उट्कट क्रोध से दुलारी का आँचल खुल पड़ा था, उसके नथने पूल गए थे, अधर फड़क रहा था, आँखों से ज्वाला-सी लिकल रही थी और स्नेहसिक्क जूँड़ा विसरकर उसके निर्वसन वक्ष का लड्जा-निवारण कर रहा था। फेंक के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बन्द कर लिया। उधर पुलिस-रिपोर्टर से आँखें चार होते ही भैंपने के बावजूद लाचार-सा होकर फेंक उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे-धीरे दुलारी आँगन में लौटी। आँगन में खड़ी उसकी संगिनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर

कुतूहल-भरी इष्टि से देखा, परन्तु दुलारी ने उनकी ओर आँख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से भावू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा चुसी। चूलहे पर बटलोही में दाल चुर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूलहे में जा गिरी। आग बुझ गई।

परन्तु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे बच्चों की जल-धारा गिरावा आरम्भ किया। फलस्वरूप वह ठरडी भी होने लगी कि इसी बीच फैकू की पुरानी रक्षिता बिट्ठो के मुँह से निकल पड़ा—“हाँ दुलारी! मरद-मानुस के ऊपर तुमने फालू कैसे उठा लिया? फिर उसके ऊपर जिसने तुम्हें रानी की तरह रख द्योड़ा है?” और दुलारी किर उबल उठी। नियमित व्यायाम से पुष्ट अपनी भुजाओं को अभिमानपूर्वक देखते हुए उसने कहा—“रानी बनाकर रखा है तो कौनसा जग जीत लिया! मैंने भी क्या अपनी अनभोल इजित उसे नहीं सौंप दी? नारी के प्राप्त सहज सम्मान से वंचित होने की कीमत क्या इतनी भी नहीं?”

दुलारी को पुनः भड़कते देख कुन्दन ने कहा—“ठीक कहती हो बहन! पैसे के बल पर तन खरीदा जा सकता है, मन नहीं। लेकिन आज बात क्या हुई जो……?”

कुन्दन की बात काटती हुई दुलारी बोली—“जरतुहा है, और क्या? तुम्हीं लोग बताओ, कभी दुन्नू को यहाँ आते देखा है?”

“यह तो हम आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि दुन्नू यहाँ कभी नहीं आता,” झींगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल-कुल ही भूल गई थी कि उसने कुल दो घण्टा पहले दुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झींगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियाँ ओटों में ही मुस्कराई, परन्तु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शान्त हो चली। इतने में कर्णधे पर जाल डाले जै वर्षीय

बालक झींगुर ने आँगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि दुन्नू महाराज को गोरे लिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए।

और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हँस पहती, दुन्नू को दो-चार गालियाँ सुनाती, परन्तु आज वह संवाद सुन स्तूप्य हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरम्भमि की तरह धू-धू जलने वाली उसकी आँखों में मेघ-माला घिर आई।

उसने पडोसिनों की निगाह से अपने आँखों को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पडोसिनें भी कर्कशा हुलारी के हृदय की यह कौम-लता देख दड़ हो गईं। प्रायः वे सभी पतिता थीं और सच्चे पतित का पहला लक्षण हृदयहीनता ही होता है। उन्होंने हुलारी के इस आचरण को वारचनिता-सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्ठे ने दिल्ली भी की। उसने कहा—“हम लोगों का जो रोजगार है उसमें तो रंडाये का दुख सबसे ज्यादा छिपाया जाता है।”

“मुझे लुकाक्षिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो-कुछ भी किया, सब डंके की चोट,” हुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने ही सन्दूक खोल उसमें से दुन्नू की दी हुई आँखों के काले धब्बों से भरी खद्र की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झींगुर को बुलाकर पूछा—“दुन्नू कहाँ मारा गया?” झींगुर ने बताया—“टाउनहाल!” और जब वह टाउनहाल जाने के लिए घर से बाहर लिकली तो दरवाजे पर ही थाने के सुंशी के साथ केंकू सरदार ने आकर कहा कि हुलारी को थाने जाना होगा; आज अमनसभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा।

रिपोर्ट की कापी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने आपने सहकारी को डॉटा—“शर्मजी, आप तो अखबार की रिपोर्टी छोड़कर चाय की टूकाल खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद-संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती।” भयभीत शर्मजी ने गढ़दे में कौड़ी खेलती हुई अपनी अर्णालों पर से चम्पा उतारकर उसे कुरते से पौछते हुए पूछा—“क्यों, क्या हुआ ?”

प्रधान संवाददाता ने खीझकर कहा—“यह जो आप पन्ने-पर-पन्ना अलिफ़वैला की कहानी से रँग लाये हैं, वह कहाँ छुपेगा और कौन छापेगा, इस पर भी आपने कुछ विचार किया है ? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है ? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बन्द हो जाय; सम्पादकजी वडे बर पहुँचा दिए जायें।”

अपने सम्बन्ध में बात होती सुनकर सम्पादकजी भी सज़र हुए। उन्होंने पूछा—“क्या बात है ?”

“यही शर्मजी की रिपोर्टिंग पर झक्क रहा हूँ; और क्या ?” प्रधान संवाददाता ने कहा।

“पहिए,” सम्पादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कापी शर्मजी की ओर बढ़ाते हुए कहा—“लीजिए, आप ही पढ़ सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है ?”

“एही डैयों खुलनी हेरानी हो रामा,” फैप-भरी सुदृढ़ा में शर्मजी ने कहा और फिर धोरे-धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे—

“कल द अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड्डाल रही। यहाँ तक कि खोमचे बालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सबेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का

प्रसिद्ध कजली-गायक दुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउनहाल पहुँचकर विवित हो गया तो पुलिस के जमादार अलीखगीर ने दुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियाँ दीं। गाली का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसखी में लगी। वह तिक्ख-मिलाकर जमीन पर गिर गया और सुँह से एक चिल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने दुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाकर लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल ले जा रहे हैं। परन्तु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तव में दुन्नू मर गया। रात के आठ बजे दुन्नू का शव वस्त्र में प्रवाहित किये जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है।

“इस सिलसिले में वह भी उल्लेख है कि दुन्नू का दुलारी नामी गौचहारिन ने भी सम्बन्ध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउनहाल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया-गवाया गया। उसे भी शायद दुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खादर की एक साधारण खोली-मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहाँ कुल घ घरटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी। परन्तु विवश होकर उसे गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुछ यात जमादार अलीखगीर ने मौसमी चीज गाने की मरमाइश की। दुलारी ने फीकी हँसी हँसकर गाना आरम्भ किया। उसने कुछ अजीब दर्द-भरे गले से गाया—‘एही डैयाँ सुलनी हेरानी हो रामा, कासों मैं पूँछँ?’

“पास ही मैं कस्पनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमण्डल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे भेदकर दुलारी की स्वरलहरी गूँज उठी—

‘एही डैयाँ सुलनी हेरानी हो रामा,  
कासों मैं पूँछँ?’

“वूट की ठोकर खाकर दोपहर दुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर इष्ट जमाये हुए दुलारी ने दोहराया—‘एहि ठैयां झुलानी हेशानी हो रामा’ और फिर चारों ओर उद्भ्रान्त इष्ट धुमाते हुए उसने गाया—‘कासों मैं पूछूँ ?’ उसके अधरप्रान्त पर स्मिति की एक तीण रेखा-सी खिची । उसने गीत का बूसरा चरण गाया—

‘सास से पूछूँ, ननदिया से पूछूँ

देवरा से पूछत लजानी हो रामा !’

“‘देवरा से पूछत’ कहते-कहते वह विजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अल्लीसगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया । उसकी आँखों में आँसू की बूँदें छहर उठीं, या यों कहिए कि वे पानी की कुछ बूँदें भी जो वरणा में दुन्नू की लाश फेंकने से छिटकीं और अब दुलारी की आँखों में प्रकट हुईं । वैसा रूप पहले कभी न दिखाई यहा था—आँधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गम्भीर आविभाव में भी नहीं ।”

“सत्य है, परन्तु छप नहीं सकता,” सम्पादक ने कहा ।

## राम-काज छन भंगु सरीरा

\* \* \* \* \*

: १ :

“श्री सीताराम का मन्दिर दूटा, महन्त सीताराम ने गोहार लगाई और बाबू सीताराम लुट गय ।”

चूने में दही मिलाकर उसे छानने में अस्त बेनी तमोली के मस्तिष्क में खण्डहर की भिखारिन के उक्त शब्द गूँजते रहे । गत रात पहली ही मुलाकात में उस भिखारिन ने बेनी के मन पर गहरा प्रभाव डाला था । उसकी बातों से उसे बड़ी शान्ति मिली थी । वह बार-बार सोचता था कि भिखारिन की यह बात कितनी सच है कि मन की आग तिल-तिल जिगर जलाने से ठण्डी होती है ।

इधर चूना भी तैयार हो गया । कल्या, चूना और सुपारी के मृद्घात्रों को पान की दौड़ी में करीने से सजाकर और दौड़ी कमर पर रखे बेनी घर से बाहर निकला । नित्य की भाँति जब वह दुलारी के घर के सामने वाले चबूतरे पर आया तो उसने देखा कि उसके स्थान पर आज पुलिस ने कड़ा कर रखा है । उस सँकरी गली में जन-समुद्र उमड़ आया है । जनता के चेहरे पर कौतूहल और आतंक की छाया है और पुलिस-कर्मचारियों के मुखमण्डल पर अवसरजनित महस्त से मरिडत गुरुता-पूर्ण गम्भीरता की माया ।

बेनी एक ओर दीवार से सटकर खड़ा हो गया और आँखों से ही वे चिह्न टटोलने लगा जिनसे उस घटना पर प्रकाश पड़ सके, जिसके

कारण गली में इतनी भीड़ हो गई। वेनी जानता था कि दुलारी की गणना बदनाम औरतों में है। साथ ही वह यह भी मानता था कि नायवर मर्द और बदनाम औरत को देखने का कुत्तहल सभी को होता है। अतः दुलारी के घर पुरुषों की भीड़ लग जाना कोई असाधारण बात नहीं। अचरज की बात इतनी ही है कि उलिस वयों आई है।

जितने सुँह उत्तरी बातें थीं। परन्तु सबका निष्कर्ष यही था कि चूत की कड़ी में धोती बाँधकर दुलारी ले फाँसी लगा ली। लाश अब भी चैसे ही लटक रही है। घटना आत्महत्या की है, इसमें किसी को सन्देह न था। प्रश्न केवल एक था कि दुलारी ने आत्महत्या की क्यों? इस प्रश्न का उत्तर केवल वेनी के पास था, परन्तु घटना जान लेने के बाद वेनी बग़ल में पान की दौरी दबाए भीड़ में से निकला जा रहा था।

गली के मोड़ पर स्थित नल पर पानी भरने के लिए डुच औरतें एकत्रित थीं। उन्हीं के बीच खड़ा दसवर्षीय बालक झींगुर नेताओं की तरह भाषण कर रहा था और औरतें वहीं तस्मयता से उसका वाचिकाला सुन रही थीं। झींगुर को यह महश्व प्राप्त होने का कारण केवल यह था कि वह भी उसी कोठरी के नीचे बाली कोठरी में अपनी माँ के साथ किराये पर रहता था जिसमें दुलारी ने आत्महत्या की थी। कन्धों पर बिख्यात सिर रखने वाले के पैरों की धूल भी माथे चढ़ाई जाती है। बालक झींगुर बड़े प्रौढ़मात्र से कह रहा था—“हमें सब मालूम हौं कि ई कसबिन काहे जान दे देलस। दुनुआं के मामिले में फेंक से बिगड़ गइल। बस अब जुड़ौती में के पूछी, यही सोच में ऊ मर गइल।”

कच्चे सुँह पक्की बातें सुनने में औरतों को रस मिलता है, पुरुष चिढ़ जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी हुई। बालक झींगुर की बात पर जवान औरतें सुँह में आँचल दूँसकर हँसने लगीं, बूढ़ियों ने गम्भीरता से मुस्कराने के प्रयत्न में अपना पोपला सुँह और भी विकृत बनाते हुए केवल इतना ही कहा—“ठीक कहत हौं।” परन्तु आसपास खड़े

मदों को झींगुर को छोटे सुँह बड़ो बात नहीं सुहाई। दो-चार ले ताच्छीत्यपूर्ण स्वर में कहा—“भाग, भाग, आपन कास देख !” बेनी ने भी झींगुर की बातें सुनीं और धृणा से सुँह फेर आगे बढ़ गया। उसके पैर राजघाट किले के खण्डहरों की ओर बढ़े जा रहे थे।

मछोदरी पर राजघाट वाले रास्ते का मोइ भिला। ठीक मोइ पर बेनी एक दूकान के बाहूतरे की ओर बेनी ने देखा और उसका मन विषाद से भर उठा। कुल बारह घण्टे पइले रात को आठ बजे किले के खण्डहर से लौटते समय थककर हुलारी इस चबूतरे पर दस मिनट बैठी थी और अब इतनी दूर चली गई कि खायाल भी उसके पास तक जाते थकता है। विषाद-विशीर्ण रहने पर भी बेनी मानव-मन और तन की सुकुमारता और नशवरता पर मुस्कराया और चबूतरे की ओर से आँखें मोइ आगे बढ़ा। वह सोचता जा रहा था कि पिछली साँझ कितनी विचिन्नी थी। वह उस साँझ को गंगा के किनारे-किनारे लहरों से यह पूछने चल पड़ा था कि ‘बोलो, तुमने मेरी नवोडा पत्नी को कहाँ छिपा लिया है ?’ उसने आदिकेशव के घाट पर पहुँचकर वह भी विचार किया था कि उसका पता लगने के लिए मैं स्वर्यं गंगा में कूद पड़ूँ। वह मढ़ी पर से कूदने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि हुलारी घाट की अन्तिम सीढ़ी पर बैठी अपनी ही धोती से अपने हाथ-पैर बाँध रही है। वह ऊपर रुककर देखने लगा कि हुलारी अपने हाथ-पैर लपेटने के बाद पानी में लुढ़क गई। बेनी ने भी छलाँग मारी और वह जब उतराया तो उसके हाथ में हुलारी की चोटी थी।

हुलारी को बन्धन-मुक्त कर सीढ़ी पर लिटा देने के बाद बेनी उससे जरा हटकर बैठ रहा। तत्काल पानी से निकाल ली जाने के कारण हुलारी भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर उठ बैठी और बेनी से उसने गुरुत्व प्रश्न किया—

“का हो बरई ! तू हमें काहे निकसलाड ?”

“त कउनों गुनाह नाहीं कहली हुलारी, हूबै में बड़ा कस्ट होला।

हमार मेहरसुआौ दूब के गायब हो गइल,” बेनी ने जवाब दिया।

“अच्छा नाहीं कइलऽ ! करेजे में बड़ी आग हौ, ठणड़ी हो जात,”  
दुलारी ने हसरत-भरे स्वर में कहा। बेनी भी जवाब में कुछ कहने जा  
ही रहा था कि किसी ने ऊपर से कहा—“यह आग पानी से नहीं, तिल-  
तिल जिशर जलाने से उषड़ी होती है।”

दुलारी और बेनी दोनों ने एक साथ आँखें ऊपर उठाईं, देखा कि  
चार-पाँच सीढ़ी ऊपर बढ़े ही मैले-कुचैले परिधान में एक प्रौढ़ा नारी  
खड़ी है। उसकी वयस ४५-४८ वर्ष थी; अब भी उसके रूप में तेज  
था। तन कुश होने पर भी चेहरे पर लाकीरें बहुत कम थीं अर्थात् आग  
शायद जल्दी जली थी, इसलिए युआँ कम उठा था। दोनों ही उस  
अपरिचिता नारी की ओर एकटक देखते रह गए। उसने पुनः कहा—  
“अगहन की साँझ है, भीगा रहना ठीक नहीं। मेरे साथ आओ।”

उसके स्वर में आदेश की गूँज थी। बेनी और दुलारी उसकी  
उपेक्षा न कर सके और उसके पीछे-पीछे चलकर खरडहर के जंगली  
भाग में एक भूँधरे के भीतर बुसे। भूँधरा भीतर से बहुत प्रशस्त  
था। कोने में एक कब्र बनी थी। कब्र थी तो कच्ची पर उस पर चूना  
पुता हुआ था और फूल विलरे थे। सिरहाने एक दिया भी टिमटिमा  
रहा था। बेनी और दुलारी दोनों चित्रवत् खड़े रहे। खूँटी पर टँगे  
झोले में से एक धोती निकालकर दुलारी को देते हुए अपरिचिता नारी  
ने कहा—“देखते क्या हो ? यह उस बहादुर का मजार है जो मुहब्बत  
को खुदा समझता था और जिसने खुदा के नाम पर समर में अपनी  
जान दे दी।”

दुलारी और बेनी दोनों के सिर अपने-आप कब्र के सामने झुक  
गए।

: २ :

रास्ता चलते बेनी की आँखों के आगे भूँधरे में रातवाला दृश्य

धूम गया । उसने सोचा कि खण्डहर की भिखारिन कितनी पड़ी-लिखी है । बात-बात में सैर ( शेर ) कहती थी । दुलारी के धोती बदल लेने के बाद उसने दोनों से जो प्रश्न किया था वह भी सैर में ही । उसने पूछा था—

“जिन्दगी से इस क़दर बेजार क्यों हो ?

हृव मरने के लिए तैयार क्यों हो ?”

यदि बेनी भी शायर होता था उसकी वाणी भी शिक्षित होती तो उसने निश्चय ही उत्तर दिया होता कि

“मौत का एक दिन मुश्यमन है

नींद क्यों रात-भर नहीं आती ?”

और यदि दुलारी का भी बौद्धिक स्तर काफी ऊँचा होता और प्रश्न करने वाली की भाँति वह भी शेरोशायरी में माहिर होती तो समझतः यही जवाब देती कि

“विन तुम्हारे मैं जी गई अब तक

तुम्हारों क्या, खुद सुझे यक्षीन नहीं !”

परन्तु यह क्षमता न रहने से बेनी ने केवल इतना ही कहा था कि “मेरी फुलवारी गंगा की लहरों ने लूट ली ।” और दुलारी केवल साँस भर-कर मौन रह गई थी । इस पर भिखारिन ने फिर पूछा था कि “क्या तुम्हें अपने आशिको-माशुक खोकर उनकी कोई ऐसी निशानी हाथ न लगी जिसे तुम अपने प्यारों के पुवज्ञ प्यार कर सकते, उसे ही देखकर मेरे के नाम पर जी सकते ?” इस पर बेनी ने बताया था कि “हृवी पत्नी की खोज करने में मैं एक गाय पा गया ।” और दुलारी ने कहाथा कि “मेरा प्रेमी मरने के पहले खद्दर की एक धोती मुझे दे गया ।”

यह सुनते ही वह बृद्धा नारी बड़ी कडवाहट से बोल उठी थी— “तब तुम दोनों ही भारी बुजादिल हो । ऐसी नायाब चीजें पास रहते भी जिन्दा नहीं रह सकते ?” दुलारी ने दबी जबान से उसे जवाब दिया था कि “दुख में जिन्दगी बिताना बहुत ही मुश्किल है” और प्रौढ़ा ने इस

जवाब पर विगड़कर कहा था—“गलत, बिलकुल गलत ! दुनिया में सबसे सहल काम है सुख में भी दुख से मर जाना और सबसे सुश्किल काम है दुख में भी सुख से जिन्दगी वित्ताना !” प्रौढ़ा की बात पर दुलारी को हँसी आ गई थी । उसने कहा था—“ये सब कहने की बातें हैं, दुनिया में कौन ऐसा है जिसने दुख में भी सुख से जिन्दगी विताई हो ?”

दुलारी की इस बात पर प्रौढ़ा जल उठी थी और उसने जवाब दिया था—“दूर कहाँ देखने जाओगी ? मुझे ही देखो ! किले का हतना बड़ा खण्डहर भेरे सिवा और किसका है ? जब चाहती हूँ, कहीं भी धूमती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं । जब चाहे सोऊँ, जब चाहे जागूँ, कोई टोकने वाला नहीं । सुबह सुँह पर नकाश डाल और हाथ में कासा लेकर भीख माँगने निकल पड़ती हूँ । जो भी मिल जाता है, खुशी-खुशी खा लेती हूँ और उसी कब्र की बगल में बिस्तरा जमाकर अपने यार की याद के मजे लेती हूँ । और जो मेरा दुख देखना चाहो तो मेरी राम-कहानी सुनो । सुनोगे ?”

बेनी और दुलारी दोनों के सिर हिलाकर आग्रह प्रकट करने पर प्रौढ़ा ने यों कहना आरम्भ किया था—

“बर्याँ खाब की तर्ह जो हो रहा हो

वह किससा है तब का जब आतिश जवाँ था ।

“श्री सीताराम का मन्दिर दूटा, महन्त सीताराम ने गुहार मचाई और बाबू सीताराम लुट गए । बनारस में दो दिनों के लिए भूकम्प आ गया, कितने ही नौनिहाल मिट्टी में मिल गए । अदतालीस घण्टे ऐसी आग जली कि मेरे सुहाग का चमन जल गया, मेरे अरमानों के फूल राख हो गए । उस बवाल को, उस जबाल को, उस तबारीखी हावसे को बनारस में रामहल्ला कहते हैं ।”

बेनी और दुलारी ‘राम हल्ला’ शब्द से परिचित थे, परन्तु वह घटना पूरी-पूरी नहीं जानते थे जो बनारसियों की पिछली पीढ़ी की

स्मृति में एकदम ताजा थी। उनको उत्सुकता बढ़ी और प्रौढ़ा कहती गई—

“मेरे बाप शाह अताउल्ला एक दरगाह में गदीनशीन थे। माँ हिन्दुआनी थीं जो किसी वजह से अपनी जात से निकाली जाने पर मुसलमान हो गई थीं। बाप ने मेरा नाम रखा था आसमान तारा। माँ पुकारती थीं सिवारा, लेकिन मैं होश सँभालने पर खुद अपने को जमीन का चाँद समझती थी। चैत के महीने में मैं पैदा हुई थी, चैत के महीने में ही मेरी शादी हुई और उसी चैत के महीने में मैं बेवा हो गई। अम्माजान कहा करती थीं कि इसी चैत के महीने में राम जी पैदा हुए थे।”

समय का आवरण जैसे भेदकर भूतकाल को प्रत्यञ्ज-सा देखते हुए भिखारिन कहती गई थी—“हाँ, तो चैत के महीने में ही जवाकि मेरी उम्र पूरी पन्द्रह साल थी, मेरी शादी हुई भेरे शौहर शाह शहाबुद्दीन ऐसे कल्पे-उल्ले के जवान थे कि जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। वह मेरी शादी का पहला दिन था। कमरे में अपने सूरज शौहर के पास चाँद-सी दुल्हन बनी बैठी थी। सड़क पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक कुन्दन-बदन जवान हाथ-मर लम्बी शानदार दाढ़ी बड़ाये दौड़ाता जाता था और कहता जाता था कि बनारस के हिन्दुओं और मुसलमानों, सुनो, अस्सी पर पालीकल बैठाने के लिए श्री सीताराम का प्राचीन मन्दिर तोड़ा जा रहा है। आज मन्दिर टूट रहा है, कल मस्जिद टूटेगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ!”

इतना कहने के बाद भिखारिन ने साँस ली थी और किर कहना आरम्भ किया था—

“उस आदमी की, जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि महन्त सीताराम था, दिलकश आवाज सुनकर हम सभी तड़प उठे। अम्माजान दौड़ी हुई थाई, बोलीं बेटा शाहाव, देखो तो क्या बात है? मेरे शौहर, जिन्हें मैंने प्यार में शाह शबाब कहना शुरू किया

था, फौरन ही बाहर चले गए। अम्माजान मुझसे कहने लगीं, ‘वेटी, सितारा, यह बात बहुत बुरी हुई। राम भी तो खुदा का ही नाम है और सब पूछो तो इश्को-मुहब्बत को ही खुदा कहते हैं।’ माँ की बात सुनकर मेरे बाप ने भी हँसते हुए उनकी ताईद की ओर कहा ‘अल्लाह भी मजून को लैला नजर आता है।’ मेरे शाह शबाब भी गलो से लौटकर चौखट पर खड़े थे बातें सुन रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि ‘अम्माजान, हजाजत है न?’ बाबा और अम्मा ने फौरन कहा, ‘हाँ बेटा, यह खुदा का काम है’ और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। शाह शबाब ने भीतर आकर मुझसे पूछा, ‘तुम्हारी भी हजाजत है न?’ एक बार तो मैं उनका सबाल सुनकर सन्न हो गई और फिर हिम्मत बांधकर इतना ही कहा—‘मेरा ठिकाना?’ शौहर ने अपने गले में पढ़ी गुलाब की माला मेरी गरदन में डाल दी और खुद चले गए।

यह कहते-कहते भिखारिन की आँखों में आँसू भर आए थे। उसने ठण्डी साँस ली थी और फिर कहा था—

“फिर क्या था? बनारस के हिन्दुओं और मुसलमानों ने अस्सी घाट पर रखी बड़ी-बड़ी मरीने उठाकर गेन्द की तरह गंगा में फेंक दीं। उसके बाद लूट होने लगी। लोगों ने समझा कि मन्दिर तुड़वाने में भैंसी के रईस बाबू सीताराम का हाथ है। भीड़ तो भेड़ होती ही है; लोग उनके मकान पर टूट पड़े। उस वक्त मेरे शौहर ने कहा कि भाई लूट में हम शामिल नहीं और सभी मुसलमानों को लेकर वह वहाँ से हटने ही चाले थे कि खुदा जाने किसने गोली चला दी। वह गोली मेरे शौहर को लगी। भीड़ भाग निकली, मगर वह किसी तरह गंगा-किनारे पड़ूँचे और वहाँ गिर पड़े। उसी रात मैं उन्हें खोजने निकली—बिना माँ-बाप से पूछे। दरिया-किनारे उन्हें बेहोश पड़ा पाया। किसी तरह उन्हें उठाकर एक नाव पर लाद दिया और उन्हें इस भूँधेरे में ले आई। वहुत चाहा कि उन्हें बचा लूँ। लेकिन अफसोस

उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। वह रामनौमी की रात थी। सारी रात जागकर मैंने अपने हाथों उनकी कब्र बनाई। देखो !”

भिखारिन की यह बात सुनकर बेनी और दुलारी की निगाह कब्र की ओर उठ गई थी, जिस पर भिखारिन ने हँसकर कहा था—“वह नहीं, यह देखो !” और अपने गले में लटकते हुए डोरे में बँधी एक डिविया दिखाई। उसे खोला। उसमें फूलों का चूर पड़ा था। भिखारिन ने उसमें से वह सूत निकाला जिसमें कभी वे फूल गूँथे गए थे। उसे दिखाते हुए उसने दुलारी से कहा था—“देखो, इस सूत के बल पर मैंने अपनी दुखी जिन्दगी सुख से बिताई और तुम्हारे पास तो समूची धोती है।”

रास्ता चलते हुए बेनी ने मन-ही-मन कहा, “सचमुच दुलारी ने धोती का उपयोग कौसी लगाने में खूब किया !”

## एहि पार गङ्गा ओहि पार जमुना

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

: १ :

गङ्गा उस भोली छोकरी का नाम था जिसने मुहल्ले वालों की आहों पर मचलना और निगाहों पर चलाना स्वीकार नहीं किया था, जिसकी एक उपेत्ति चित्रन के भिखारी मुहल्ले के 'बादशाह' राय साहब साधूराम से लेकर मुहल्ले-भर के नौकर सिधुआ कहार तक प्रायः सभी लोग थे। यदि राय साहब उसे अपने कारखाने की मजदूरनियों का मेठ बनाने को तैयार थे तो सिधुआ भी उसे अपने हृदय की रानी बनाकर पूजना चाहता था। वूडे और जवान, जवानी की ओर पैर बढ़ाने वाले छोकरे और जवानी से विदा लेने को तैयार अधेड़, सभी 'गंगा-लाभ' करना चाहते थे। गंगा की आँखों में चिलायती अँगूरी भी थी और देसी ठर्ठी भी। यही कारण था कि प्याले वाले अपना प्याला और चुक्कड़ वाले अपना चुक्कड़ एक-एक बूँद बटोरकर भर लेना चाहते थे।

गंगा जब सर्वे-शाम काली धोती पहन और मिट्टी की कलसी कमर पर रखकर नल की ओर चलती तो शङ्गारी कवियों और शायरों का भाग मानो जाग जाता। उनकी कविताओं की धावृत्ति आरम्भ हो जाती। गंगा बूँदों की जवानी पर हँस देती, जवानों के लड़कपन पर मुँफलाती और अपना रास्ता लेती। देखने वालों के कथनानुसार उसके मुँफलाने में भी एक खास रस था।

गंगा अहीर की लड़की थी। बाप-भाई से विहीन और पति द्वारा

त्यक्ता । घर में वह थी और उसकी माता । गंगा की माँ ने गंगा से संगाई कर लेने को कितनी ही बार कहा, किन्तु गंगा का एक चुद 'ना' उसकी माँ के अनुरोध और क्रोध पर भी 'हाँ' न हो सका । प्रायः 'संगाई प्रकरण' को लेकर माँ-बेटी में एक झड़प हो जाती । उस दिन तो इस अभिनव का आशम सोकर उठते ही हुआ । गंगा आँगन में फाड़ लगाने चली और उसकी माँ दही मथने । दोनों अपने-अपने काम में व्यस्त थीं, एक एक गंगा की माँ ने पुकारा—“गंगा !” गंगा ने उत्तर न दिया; वह अपने मन के बले अन्धकार में प्रकाश का कण खोज रही थी । उसकी माँ ने पुनः पुकारा—“गंगा !” गंगा ने फिर भी अनसुना कर दिया । उसकी फाड़ से उड़ती हुई धूल के साथ-साथ प्रकाश-कण भी उड़ा जा रहा था । इस बार गंगा की माँ का धैर्य लूट गया । उसने चिल्हाकर पुकारा—“गंगिया, बहिरि हैं क्या ? सुनतो काहे नाहीं ?”

मन की व्यथा को दबाती हुई गंगा ने चकित भाव से कहा—“क्या तुमने मुझे पुकारा है अम्मा ?”

“ओै नहीं तो कौन खसम तेरा यहाँ बैठा हुआ है, तुमने पुकारने चाला ?”

गंगा ने करुणा से भरी हुई आँखें अपनी माँ की ओर उठाई मानो उससे पूछ रही हो, क्या यही कहने के लिए पुकारा था ?

गंगा की माँ ने किङ्करते हुए कहा—“दुकुर-दुकुर देखती क्या है ? ले यह दूध और दही । दे आ रायसाहब के यहाँ, मेरी तबियत आज ठीक नहीं ।”

“मैं तो वहाँ न जा सकूँगी,” लण-भर ठहरकर गंगा ने धीरे से उत्तर दिया ।

“ठीक है, तू वहाँ कैसे जा सकती है ? तू ठहरी रानी-महारानी ! इतना छोटा काम भला कैसे करेगी ? हाँ, मुहल्ले-भर से नजारा मारने को हो तो अभी तैयार !”

“क्या झूठ-झूठ बकती हो ? जरा भगवान् से डरो !”

“भगवान् से डराती है रे हरामजादी ? दूध देने जायगी नहीं, काम-काज कुछ करेगी नहीं, फिर मेरे तन में भी तो अब पौख नहीं रहा । अब काम करने वाला और कौन है तेरा यहाँ ? कहती हूँ सगाई कर ले । लेकिन सगाई का नाम लिया कि तुम्हे जूँड़ी चढ़ी । ओर, तू कौन ठाकुर बाजन है कि सगाई करने से तेरी जात चली जायगी !”

“कै बार तो तुमसे कह दिया अम्मा, अपना-अपना मन ही तो है !”

“तो तू ऐसी अपने मन की हो गई है ? मैं कहती हूँ तुम्हे अपनी सगाई करनी पड़ेगी । और नहीं तो रायसाहब के यहाँ नौकरी ही कर । एक तो वे राजा आदमी और न जाने कितनी बार मुँह खोलकर कह दुके ।”

“क्या सगाई-सगाई ढङ्गा करती हो ! मैं न सगाई करूँगी, न रायसाहब के यहाँ नौकरी । हाँ किसी दूसरी जगह नौकरी लगा दो, कर लूँगी ।”

“तेरे लिए नौकरी रखी है न कि और कहीं लगा दूँ ! हूँ, अहीर की लड़की और सगाई नहीं करेगी !”

“तो तुम भी अहीर ही की लड़को हो तुम्हीं ने क्यों नहीं . . .”

“क्या कहा रे कुतिया कलमुहीं !” कहते-कहते गंगा की माँ ने मथानी फेंककर मारी । मथानी गंगा के सिर में लगी । आँख में आँसू और मस्तक पर रक्त-बिन्दु छलछला उठे । गंगा तड़पी और तूफानी विचार की तरह उठकर झपटी, किन्तु दूसरे ही चण उन आँखों की तरह बैठ गई जिनकी ज्योति में घना अन्धकार लहराता है ।

: २ :

गंगा के घर के सामने बेनी का बरोडा था । सूरज की पहली किरन बेनी के मुँह पर पड़ी और उसने आँखें खोल दीं । उसने हाथों से आँखों को मला, फिर हथेलियों को चूमकर हल्की-सी थँगड़ाई ली

और उठ बैठा। उठते ही उसकी निगाह गंगा के आँगन पर पड़ी। उससे गंगा और उसकी माँ की बातें सुनीं, गंगा की दीनता और उसकी माँ का क्रोध देखा और अन्त में देखा। गंगा के माथे का रक्त और उसकी आँख का आँसू। दया, धृणा, क्रोध और शायद स्नेह की भी एक धारा उसके मानस-उपकूल के मध्य से होकर वह गई। उसने सुना, बुढ़िया चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है—“हुँ, समझाते-समझाते जवान दूट गई। ये सी भी कोई जिद है! बच्चा हो तो कोई समझाये भी। और सुझे अब क्या करना है; आज मेरे कल दूसरा दिन। जो कहती हूँ तेरे भले के लिए। लेकिन कौन सुने, कौन समझे, करम में तो लगी हुई है आग। तेरे ही लिए मैंने रायसाहब से कहा, रो-धोकर, हाथ जोड़-जोड़ कर चिनती की। भगवान भला करे उसका, दूध-पूत से वर भरे, बेचारे ने तुरन्त कहा—“गंगा की माँ घवराती कहे हैं? जब जो मैं आए उसे मेरे यहाँ पहुँचा जा। घर में बाल-बच्चे हैं, नौकर-मजदूरिन हैं, काथदे से रहेगी। उसकी भी जिन्दगी कट जायगी।”

बेनी ने देखा कि गंगा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। फिर उठी, मस्तक का धाव पानी से धो डाला और कलसी उठाकर आँखें पोछती हुई घर से बाहर हो गई। बेनी की आँखें गंगा का अनुसरण कर रही थीं।

गली के चबूतरे पर जंगलेदार कोठरी में परिष्वतजी गीता-पाठ कर रहे थे—“असंशयं महाबाहो मनो दुर्निश्चलम्।” इतने में एक परिचित झवनि ने उनके दुर्निश्च मन को ग्रहण कर लिया। उन्होंने देखा कथर्ह साझी में गंगा को—उषा की छाया में तिरोहित होती हुई लण्डा की छवि को। उनके मुख से निकला था “हे कौन्तेय” और वाक्य की पूर्ति हुई “कुसुमभास्यं चाह चैर्ण वसाना” कहते हुए। गंगा आगे बढ़ गई। गीता-पाठ उस दिन स्थगित रहा।

मुन्शीजी—साठ बरस के मुन्शीजी—कानों पर एक अदद कलम खोंसे और स्थाही के धड़बों में भरा हुआ बस्ता बगल में ढाबा वर से

निकले। चौखट ढाँकते ही उनकी निगाहों ने रूप की चट्टान से टकरा-  
कर ठोकर खाई। सामने से गंगा आ रही थी। मुन्शीजी चमककर  
ठमक गए। गंगा और समीप आ गई थी। मुन्शी जी ने टोका—“कहो  
गंगा, क्या हाल-चाल है? कुछ और भी सुना? रायसाहब तुम्हारी  
सगाई की फ़िक्र में हैं। मगर हम तो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसी  
से हमने भी साफ-साफ कह दिया—‘राय साहब! वह सुहल्ले की खड़की  
है, भली है, शादी नहीं करना चाहती तो आपसे मतलब? सुहल्ले के  
हो आदमों अगर एक-एक दुकड़ा दे देंगे तो बेचारी को जिन्दगी कट  
जायगी, और भाई मैंने तो तुमसे कह ही रखा हूँ कि मेरे न बाल हैं न  
बच्चे, आकर दो रोटियाँ तुम्हीं खिला दिया करो। मेरे बाद तो सब  
तुम्हीं लोगों का है। नहीं तो सरकार ले लेगी। क्यों?”

गंगा ने उत्तर न देकर प्रश्न ही किया—“बाबा! अभी तुमने अपने  
कफन का इन्तजाम किया कि नहीं?”

मुन्शीजी का चेहरा उतर गया। पर मुस्कराकर बोले—“शायर का  
कलाम है ‘कफन बाँधि हुए सिर से…’”

शायर का कलाम गंगा की समझ में न आया, वह और आगे बढ़ी।  
वेनी ने आँखों को दूरबीन बनाकर उक्क दृश्य देखा और कानों में मानो  
बेतार का तार लगाकर उसकी बातें सुनीं। वेनी की आँखें भीग गईं,  
कर्णमूल लाल हो उठे। इसी समय आँगन से एक गुरु गम्भीर ध्वनि  
ऊपर उठी—“माँ!” वेनी की चेतना लौट आई। उसने उत्तर दिया—  
“जमुना, अभी आया,” और धड़धड़ता हुआ नीचे उतर गया।

: ३ :

जमुना आदमी नहीं, जानवर थो—चार पैर, दो सींग, एक पूँछ  
बाला पशु जिसे हिन्दू बड़े प्रेम से गज-माला पुकारता है। वेनी के परि-  
वार में दो ही प्राणी थे—एक वह स्वयं और दूसरी जमुना। वेनी तमोली  
था और खाता-पीता खुशहाल। ऊपर रहता था और नीचे दूकान करता

था। बेनी जब से पैदा हुआ तब से उसके घर में दो ही प्राणियों का तिवास होता आया था। पहले हस्त घर में बेनी के माँ और बाप रहते थे। बेनी को जन्म देने के बाद घरटे बाद उसकी माँ ने परलोक का पथ पकड़ा। घर में बेनी और उसके बाप रहने लगे। बाप ने माँ का काम भी किया, बेनी को पाला-पोला, बड़ा किया। बेनी की शादी देहात में ठीक हुई। बाप बड़े धूम-धाम से बारात ले गया। शादी हुई, बारात लौट आई, पर रास्ते में बेनी के बाप को साँप ने काट लिया। जहर के नशे में बेनी का बाप घर का रास्ता भूल परलोक के रास्ते पर चल पड़ा। घर में रहने लगे बेनी और उसकी पत्नी।

आवण का एक सोमवार था। बेनी और उसकी पत्नी गङ्गा नहाने गये। बरसाती गङ्गा का वेग बेनी की पत्नी को बहा ले चला। नावें छूटीं। ६-७ घण्टे निरन्तर परेशान होने के बाद भी बेनी को अपनी पत्नी का शब तक न मिल सका; मिली एक बहती हुई गाय। बेनी ने पत्नी खो-कर गाय पाई। तभी से उस घर में बेनी और उसकी गाय जमुना दोनों एक साथ रहते थे। बेनी जमुना की सेवा प्राणपण से करता था। उसे जमुना की सेवा करने में एक आनन्द, एक रस का अनुभव होता था। गरमियों में रात को दूकान बढ़ाने के बाद बेनी गाय को गड़ी में खोल लाता, स्वयं एक चबूतरे पर बैठ जाता और गाय को पंखा झलते-झलते एक करण्य हृदय-चिदारक स्वर में गा डड़ता—“मितवा मङ्गैया सूनी कर गैला।” सुहृत्ता-भर आराम से सोता, पर बेनी का यह गीत गंगा की नींद हरान कर देता। वह प्रयत्न करने पर भी सो न पाती। बेनी के गीत की प्रतिध्वनि गंगा के मुँह से गूँजती—“मितवा मङ्गैया सूनी कर गैला।” इस प्रकार आधी रात बीत जाती। बेनी आँगन में गाय को बाँध स्वयं ऊपर सोने लगता जाता; सुबह नल पर उसे नहलाकर तब स्वयं स्नान करता।

उस दिन भी जमुना की आवाज पर बेनी नीचे उतरा और उसे खोलकर नल पर ले चला। नल पर गंगा खड़ी थी। बेनी ने पूछा—

“कहो गंगा, मजे में हो न ?”

“दिन कट रहा है और क्या ?”

“सो तो हर्ष है !” बेनी जमुना को मल-मलकर नहलाने लगा।  
गंगा ने कहा—

“बेनी, तुम जैसी सेवा जीवर की करते हो वैसी तो कोई आदमी की भी काहे को करता होगा ?”

“कौन सेवा करता हूँ गंगा ! आदमी को कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है । न करे तो जिये कैसे ? सुनापन ढँस न ले !”

दोनों खुप रहे । गंगा ने अपनी कलसी भरी । जमुना और बेनी ने स्नान किया । तानों लौटे । गंगा ने अपनी हिन्दू दृष्टि जमुना घर फेंककर कहा—“बड़ी सुन्दर है तुम्हारी गंगा ! जभी तो इतना प्यार करते हो !”

“सुन्दर अपनी निगाह है गंगा ! जिसको जो भा जाय उसको वही सुन्दर है ।”

गंगा ने धीरे से कहा—“ठीक कहते हो ।” दोनों का घर आ गया था । गंगा अपने घर में चली गई । सन्ध्या हो गई थी । बेनी का दिन आज बड़ी अशानित और उत्तमन में कटा, उसके मन में वह रसाकशी हो रही थी जिसे वह बहुत दिनों से टालता आया था । एक ओर गंगा थी, दूसरी ओर जमुना । बेनी की दूकान भी आज बन्द ही रही । दिन-दिन धूमिल होने वाली स्मृतियाँ एक के बाद एक आने और जाने लगीं । जन्म से लेकर अब तक का जीवन उसे चलचित्र की तरह दिखाई पड़ा । उसकी आँखों में गंगा थी और उसका हाथ जमुना की पीठ पर था । उसके मुँह से निकला—“गंगा !”

गंगा ने किवाड़ खोलकर बेनी के घर में प्रवेश किया । उसने कहा—“क्या है ? तुम कैसे जान गए कि मैं आ रही हूँ । क्या गरीब का कोई धरम नहीं होता ?”

“होता है गंगा पर तन में नहीं मन में । गरीब का धरम मन में

होता है।”

गंगा की ओर से चमक उठी, बोली—“तब लोग हमारे शवु क्यों बने हैं? हमारा वरम क्यों छीनना चाहते हैं?” बेनी ने अपनी जिजासु दृष्टि गंगा की ओर उठाई। गंगा ने कहा—“आज मैं रायसाहब के यहाँ दूध देने गई थी। गई क्या थो जबरदस्ती भेज दी गई थी। वह मुझसे कहने लगे—‘गंगा, अगर तुम दया न करेगी तो मैं साधू हो जाऊँगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार नष्ट हो जायगा, मेरे बाल-बच्चे भूखे मर जायेंगे और इसका सारा पाप तुम्हें पड़ेगा।’ वह पर अम्मा भी कहती है—‘अगर तू रायसाहब के यहाँ नौकरी न करेगी तो मैं जान दे दूँगी।’ उस मूरख को क्या पता कि रायसाहब कैसा आदमी है। अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ?”

“कुछ नहीं गंगा, न तो रायसाहब साधू होंगे और न तुम्हारी अम्मा मरेंगी।”

“नहीं बेनी, आज रायसाहब कसम खाकर कह रहे थे।”

“भूठ है। वह कभी साधू नहीं हो सकते।”

“और अगर हो गए तो?”

“कुछ नहीं होगा गंगा ! ऐसे लोग साधू-वैरागी नहीं होते।”

“तो कैसे होते हैं?”

“कैसे होते हैं? तो लो, आज से यह घरबार, रुपया-पैसा, वरतन-भाँड़ा, सब-कुछ तुम्हारा और मैं जमुना को लेकर चला। जिसे साधू होना होता है गंगा, वह तो हो ही जाता है। उसे कहने की क्या जरूरत!”

तन पर एक थँगोला और हाथ में जमुना की पगड़ियां लिये हुए बेनी अपने मार्मिक स्वर में आलाप लेता हुआ घर के बाहर हो गया। गंगा ने आश्चर्यचकित होकर सुना—

“एहि पार गंगा ओहि पार जमुना विचवा मडैया छवाये जै हो।”

गंगा के मुख से भी गीत की प्रथम पंक्ति निकल पड़ी—“कैसे दिन कटिहै, जतन बताये जैहो!”

## चैत की निंदिया जिया आलसाने

• • • • • • • • • •

: १ :

अधकरण सृगब्दौने की तरह बिछौने पर सारी रात लडपते रहने के बाद अठहत्तर वर्षीय बुद्ध परिषत पञ्चानन्द पाण्डेय ने भोग की दक्षिणी वायु में अपनी चिन्ता विभोर कर देने के लिए छत पर निकलकर उहलना आरम्भ किया। उन्होंने देखा कि मधुमास में भी पावस की घटाएँ विशी हुई हैं और दूर गंगा की लहरों पर बुढवा भंगल का मेला नृत्य कर रहा है। उन्होंने अपनी धुँधली आँखों से मेला देखने का प्रयत्न किया, परन्तु इष्टि की दुर्बलता के कारण वह केवल छिट-फुट आलोक ही देख सके।

इतना अवश्य हुआ कि किसी बजाए से उठी भैरवी की सरस तान वायु का वितान विदीर्ण करती हुई उनके कानों से आ उकराई—“जोबनवां चार दिना दीनो साथ !” पञ्चानन्द ने जैसे गायिका के कथन का समर्थन करते हुए गम्भीरता से अपना सिर हिलाया, कहा—“सच-मुच ‘जोबनवां चार दिना दीनो साथ’,” और उनकी झुकी हुई कमर कुछ और झुक गई।

नीचे की संजिल में किराये पर कोठरी लेकर रहने वाली गंगा आँगन बुहारने के लिए निकल पड़ी थी। धीरे-धीरे अन्धकार दूर होकर आकाश में ललाई छा गई। पञ्चानन्द भी आँगन में आने के लिए सीढियां उतरे। आँगन में बंधी उनकी पगड़वनि से परिचित दोनों

गायों ने अपने कान खड़े किये। उनके मुँह से रेंभाने की हुर्वल ध्वनि निकली। पश्चानन्द सी आँगन में आकर खड़े हो गए और हथिनी जैसी डीलडौल वाली अस्थिसार अपनी नन्दिनी और कामधेनु की ओर कुछ देर एकटक निहारते रहे। फिर लम्बी साँस भरकर बगल की एक लम्बी-चौड़ी कोठरी—भूसे वाली कोठरी—में घुसे और चांगों ओर दृष्टि दौड़ाई। एक कोने में भूसे की प्रायः आध सेर मिट्ठी मिली तबल्लूट पड़ी थी। उन्होंने उसे हलोर कर प्रायः चार मूढ़ी भूसा उठाया और नन्दिनी तथा कामधेनु की नौदों में ढेढ़-ढेढ़ सेर पानी मिलाकर घोल दिया। दोनों ही गायें एक बार तो बड़े चाव से नौद पर टूट पड़ीं, परन्तु दूसरे ही चण अपना मुँह हटा पश्चानन्द की ओर देखने लगीं। पश्चानन्द की आँखें भर आईं, मानो वे कह रही थीं—‘मैं खुद कई दिनों का भूखा हूँ, गऊ माता। क्या करूँ?’

उधर उनकी भड़ैत गंगा आँगन के एक कोने में अपनी कोठरी के सामने फ़ाड़ लगाती और साथ ही कलशियों से पश्चानन्द की गतिविधि भी देखती जाती थी। उसने उनकी आँखों में वह आँसू भी देख लिया जिसे उन्होंने अपने शतक्रिन्न अँगोंसे से तत्काल पौछ लिया था। वह संसंकोच उनके पास आई और बोली—“बाबा! इस महीने का भावा तो चड़ ही गया है। कई दिन से सोच रही हूँ कि दे दूँ, पर हाथ में पैसा था नहीं। अब आ गया है। कहिए तो दे दूँ!” पश्चानन्द चुप रहे। गंगा तुरन्त अपनी कोठरी में गई और पाँच रुपये का एक नोट लाकर पश्चानन्द को देते हुए बोली “बाबा, यह पूरा नोट ही रख लीजिए, ढाई रुपया इस महीने का और ढाई रुपया पेशरी।”

पश्चानन्द नोट लेकर बोले—‘पाँच रुपये और न होगे? मुझे दस रुपये की बहुत जरूरत थी।’ गंगा ने दबी जबान से कहा—“हैं तो नहीं, लैकिन, अच्छा जरा ठहरिए।” गंगा ने वहीं से आवाज दी—“गंगो, तुम्हारी माँ क्या नहाकर लौट आई?” गंगा की आवाज पर पाँच-छ़वें की एक लड़की सामने की कोठरी से निकली। उसने कहा—“हाँ

जीजी, अम्मा नहाकर आ गई हैं, बैठी जप कर रही हैं। क्या है ?”

उसकी बात का जवाब न देकर गंगा उसकी माँ के पास गई और अपने हाथ का चाँदी का कड़ा देते हुए उसने कहा—“इस पर पाँच रुपये तुम सुमेर उधार दे दो गंगो की माँ ! टकासी सूद दूँगी और आज्र के महिनें दिन छुबा लूँगी !”

प्रति रुपये दो पैसे सूद की बात सुनकर गंगो की माँ आनाकानी न कर सकी। यदि गंगा ने सूद की बात न कही होती और यों ही रुपया उधार माँगा होता तो निश्चय ही गंगो की माँ अपना सीधा उत्तर देती—“मेरा रुपया तो रायसाहब की कोटी में जमा है, वह बेफजूल उड़ाने के लिए नहीं देते। कहते हैं कि तेरे बाद तेरी गंगो के काम आशगा !” परन्तु प्रति मास दस पैसे की अनायास आमदनी वह न छोड़ सकी। उसने गंगा के कड़े इख उसे पाँच रुपये दे दिये। गंगा ने भी वह रुपया लाकर पद्धानन्द को दे दिया। रुपया पाते ही बूढ़े का चेहरा खिल उठा। वह तुश्न्त ही घर से निकल पड़े।

## : २ :

पैरों में पर लगाये काशी की टेढ़ी-मेड़ी गलियों में बूढ़ा बूढ़ा चला जा रहा था। उसे आतुरतापूर्वक घर से निकलते देख गंगा ने समझा था कि वह अपने लिए गलता और अपनी गायों के लिए चारा लाने जा रहा है। परन्तु यदि वह देखती तो सचमुच आश्चर्य में भर जाती कि मध्यकालिक संस्कृति में पला बूढ़ा न तो विश्वेश्वरगंज की ओर जा रहा है, और न खोजवां के बाजार की ओर, जो नगर में गलते की मुख्य मणिडर्यां हैं, अपितु उसका लक्ष्य एक अंधी गली में स्थित पुक खण्डहर-चुमा मकान है। बूढ़े ने वहाँ पहुँचकर कुण्डी खटखटाई। तत्काल ही खिचड़ी-केश और दो-चार दूटे दाँतों वाली एक स्थूलांगी महिला ने द्वार खोल दिया और पूछा—“क्या रुपये लाये हो ?” बूढ़े ने बूढ़ा की फैली हथेली पर पाँच-पाँच रुपये के दो नोट रखते हुए उत्तर दिया—

“हाँ, ले आया हूँ। लेकिन तुमने तो मुझसे माँगा था नहीं।”

“किर भी मैं जानती थी कि तुम रूपये जरूर लाओगे,” बृद्धा ने स्नेह विगतित स्वर में उत्तर दिया।

दोनों ही जीवन के अस्ताचल पर खड़े थे। दोनों ही जानते थे कि मृत्युरुपी महानिशा की गोधुलि बेला उनके बापसने है। किर भी दोनों की बातों में तरुण स्नेह की रंगीनी उषा की अरुण आशा के समान उनके मन की शून्यता को जैसे अनुरंजित कर रही थी। बृद्ध ने हँसकर पूछा—“हृतना तो बता ही दो कि तुमने यह कैसे जान लिया कि तुम्हारे बलराम और बखेड़ द्वारा हसी द्वार पर बार-बार अपभानित होने के बाबजूद तुम्हारे चिना माँगे ही मैं रूपया ले आऊँगा?”

बृद्धा खिलखिलाकर हँसी—बिहारी की ‘दैन कहे नटिजाइ’ वाली तरुणी नायिका की अदा से; और फिर कुछ संयत होकर बोली—“खैर, तुम जान भी कैसे सकते हो? मर्द हो न! मर्द को इष्टि होती है, केवल समूची दुनिया का रूप देखने के लिए, लेकिन औरत के पास होती है अन्तर्दृष्टि। वह बाहर ही नहीं, भीतर भी झाँक लेती है। समझे!”

“न समझे हाँगे तो अब मैं समझे लेता हूँ” कहते हुए एक हाथ में जूता उठाए बखेड़ राम बाहर भिक्खे। उन्हें अपनी जननी सोनामती से दैदाइशी घुणा थी। उनके पिता बुद्धिदत्त पाण्डे जन्म के बुद्धू थे। उनकी आँखों में धूला झोकते बखेड़ राम को तनिक भी कठिनाई नहीं पड़ती थी। परन्तु उनकी माता उन्हीं के शब्दों में पूरी ‘कउजाक’ थी और इसीलिए उनकी स्वतन्त्रता में बाधक। परन्तु सौभाग्य से लड़कपन में ही बखेड़ राम को अपनी माता के सम्बन्ध में एक ऐसी सूचना मिल गई कि वह उस दिन से शेर हो गए।

अब से प्रायः ५० वर्ष पूर्व उनकी माता ने १५ वर्षीया वधु के देश में अपने पति के चर्चेरे छोटे भाई पद्मानन्द के घर अर्थात् अपनी ससुराल में प्रवेश किया था। उस समय उस परिवार में एक साथ कहीं घटनाएँ घटीं। सर्वप्रथम पद्मानन्द की पत्नी सहसा मर गई। प्रवाद

फैला कि उसने आत्महत्या की है। लक्षित कलाओं पर प्राण देने के लिए प्रसिद्ध पश्चानन्द तब तक अपनी अधिकांश सम्पत्ति स्वाहा कर चुके थे। परन्तु फिर भी इतनी सम्पत्ति बच गई थी कि तत्काल ही उनका दूसरा विवाह ठीक हो गया और उन्होंने सबको आश्चर्य में डालते हुए विवाह करना अस्वीकार कर दिया। उसके थोड़े ही दिन बाद पश्चानन्द पर पूर्ण रूप से आश्रित बुद्धिदत्त ने उनके घर में रहना स्वीकार नहीं किया और किराये पर मकान लेकर अलग चले गए। वहाँ भी पश्चानन्द पहुँचते थे और अपनी भावज सोनामती से पूर्ववत् सम्मान पाते थे। ऐसी वारों पर संसार जो कुछ सोचता आया है वही सोचता रहा और बखेड़ राम को वह अस्त्र मिला जिससे वह अपनी माँ का कलेजा निरन्तर छेदने लगे। बुद्धिदत्त बीमार पड़े थे। पैसा था नहीं कि चिकित्सा कराएँ, परन्तु उद्गरण बखेड़ राम ने पश्चानन्द का त्याग नहीं समझा और उन पर जूता चला दिया। बूढ़े पश्चानन्द रो पड़े, सोनामती सिहर उठी, बोली—“ओरे मूर्ख ! जनक पर जूता ?”

बखेड़ ने बिगड़कर कहा—“चुप बेश्या ! मेरे जनक—मेरे पिता पंडित बुद्धिदत्त हैं।”

“बुद्धिदत्त परिषड़त नहीं हैं, कलीव हैं,” बृद्धा गरज उठी। बखेड़ राम घबरा उठे और इस स्थिति से लाभ उठाकर बूढ़े पश्चानन्द वहाँ से खिसक गए।

### : ३ :

पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए पश्चानन्द दिन-भर इधर-उधर घूमते रहे और जब सौंक हुई तो हरिश्चन्द्र घाट पर जा पहुँचे और बाढ़ के कारण तट पर जमी बलुई मिट्टी के टीक्कों को काट-काटकर निर्मित सीढ़ियों पर एकत्र बच्चों का खेल देखने लगे।

सबसे ऊपर सीढ़ी पर खड़ी एक लड़की ने पूछा—“मछली-मछुली, कित्ता पानी ?” सबसे नीची सीढ़ी पर खड़े बालक-बालिकाओं के समूह ने

कवायद की मुद्रा में एक साथ अपने दोनों हाथ अपनी पसलियों से लगाते हुए एक स्वर से उत्तर दिया—

“सोनचिरैया ! इत्ता पानी !” और सबसे ऊँची सीढ़ी पर खड़ी लड़की दूसरी सीढ़ी पर उत्तर आई। उसने पुनः प्रश्न किया—“मछुली-मछुली, कित्ता पानी ?” इसी प्रकार सोनचिरैया का अभिनय करने वाली लड़की छन्द के बन्धन में कसी हुई भावपूर्ण कविता के समान प्रथेक सीढ़ी पर खड़ी होकर अपना प्रश्न दुहराती हुई एक-एक चरण नीचे उत्तरती जाती थी और उधर नीचे फर्श पर खड़े होकर मछुली का अभिनय करने वाले लड़के-लड़की अपनी पसली, पेट, कमर, जाँघ, घुटना आदि पर क्रमशः हाथ रखते हुए उसके प्रश्न का बँधा जवाब दिये जा रहे थे।

उनका शोरगुल पश्चानन्द को अच्छा न लगा। उन्होंने उनकी ओर से मुँह फेरकर अपनी धूँधली आँखों से गंगा जी में एक-एक गज लम्बी लहरों को उठाते और उन पर बड़े-बड़े बजड़ों को डगमरा होते देखा, शरीर की मूलती हुई खाल पर उन्होंने प्रबल वेगमयी वायु के झकोरों का अनुभव किया और उन्हें अपनी तस्याई की वह घटना याद आई जब कि अपने पिता की मृत्यु का शोक साल-भर भी न मनाकर उन्होंने इसी चैत के महीने में बुढ़वा-मंगल के इसी अवसर पर नावपटैया की थी और काशी-नरेश तथा विजयानगरम्-नरेश के कच्छ के आद-उन्हीं के कच्छे ने मेले में सर्वाधिक धूम मचाई थी। इतने में ही हवा का एक करारा झोंका आया, पहले की अपेक्षा लहर कुछ और ऊँची हुई और तट पर बैठे पश्चानन्द नहा-से गए। वह लहर जैसे गंगा की लहर नहीं, स्मृतिसागर की तरफ थी। छप्पन वर्ष पूर्व वाले उस बुढ़वा-मंगल का विवरण, जो उस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मासिक पत्र कविवचन-सुधा में प्रकाशित हुआ था, उनके मुँह से बड़बड़ाहट के रूप में प्रकट हुआ। तीन बरस तक लगातार प्रतिदिन दो-तीन बार उक्त विवरण की उद्धरणी करने के कारण वह उन्हें सदा के लिए रट-सा गया था। वह कह चले—

“गत बुढ़वा-मंगल में एक बात ऐसी अपूर्व हुई थी जो स्मरण रहे। वह यह है कि शुक्र के दिन वायु इस वेग से बहती थी कि उसने सब मेला इधर-उधर कर दिया और रामनगर के नीचे नावों का पहुँचना असम्भव हो गया। श्री महाराज विजयानगर के कच्छे इसी पार रह गए। परन्तु श्री महाराज काशीराज ने जब देखा कि कच्छे आगे नहीं हटे तब अपने हाथियों को बुलवा भेजा। आज्ञा होते ही बड़े-बड़े मत्तग नंग-धड़ंग कूमते हुए एकसंग गंगाजी में हल गए। कोई तो अपने दाँतों से दबाता था और कोई सिर से ठोकर देता था और कोई उड़े का बल लगाता था और कोई अपनी दाँतों से कच्छों को कोर पकड़कर खींचता था। निदान यह कौतुक और शोभा देखने के ही योग्य थी, लिखी नहीं जा सकती।”

पिछल पश्चानन्द अपने मन की तरझों में उभ-चुभ होने लगे। उनकी दरिद्रता ने उन्हें महीनों से आंशिक अनशन करा रखा था, उनकी अनैतिक जवानी ने उनकी दुर्बल बुढ़ीती के लिए एक भीषण समस्या पोस रखी थी और उनका चिरतस्य मन आज भी पुरानी रंगरेखियों के लिए उन्मन हो रहा था। पेट में प्रज्वलित भूख की आग के कारण उनकी आँखों के आगे नाचने वाली चिनगारियों की संख्या बढ़ चली थी। उन्होंने ज़ुधा की ज्वाला बुझाने के लिए गंगाजल का आश्रय लिया। कठिनाई से दो-तीन चुरलू पानी वह पी सके, परन्तु ज्वादा पानी भी नहीं पिया जा सका। उनका पेट मरोड़ उठा, वह अद्भुताकर वहीं लोट गए।

लड़के-लड़कियों का खेल चल रहा था। अन्तिम सीढ़ी पर आकर लड़की ने पूछा—

“मछली, मछली, कित्ता पानी?” सधा हुआ उत्तर मिला—“सोन-चिरैया हज्जा पानी!” और लड़की धम्म से नीचे फर्श पर कूदी। मछलियों की भूमिका में खड़े बालक-बालिकाओं ने सोनचिरैया को छिपा लिया। सोनचिरैया ने पहले फड़फड़ाने का अभिनय किया और तत्पश्चात् उसने

हाथ-पैर ढीले कर दिए ।

पत्थर को सीढ़ी पर पछानन्द ठण्डे पड़े थे । उन्हें खोजती हुई उन्मादिनी के वेश में सोनमती भी वहाँ आ गई । कुछ निटल्ले दर्शक भी एकत्र हो गए । एक ने पूछा—“यह मर गया है क्या, डठता क्यों नहीं ?”

सोनमती उसे उत्तर देने जा ही रही थी कि दूर किसी बजड़े पर इस हुईटना से अनभिज्ञ गायिका ने तान लड़ाई—“चैत की निंदिया जिया आलसाने हो रामा !”

## इस हाथ दे उस हाथ ले

\* \* \* \* \*

: १ :

रायसाहब साधूराम के आलीशान मकान के नीचे की दूकान में किरायेदार मिट्टू कोयले वाले ने दूकान खोली और ऊपर खिड़की की ओर मुँह उठा जैसे स्वर से गा उठा—

“इलाही खाव में शब को  
न जाने कौन आता है ;  
जलाने, चुटकियाँ लेने,  
खलाने कौन आता है ?”

पूस का सवेरा था और सात बजे का समय । रात-भर गहरी वर्षा होकर सुबह पानी थम-सा गया था । हवा में सरदी भी बढ़ गई थी । जाड़े के डर से फटा-पुराना कम्बल ओड़े रायसाहब के मकान में निचले खण्ड की एक कोठी में सम्पादक शर्मजी सिकुड़े पड़े थे । मिट्टू के दर्द-भरे गले की आवाज उनके कानों में आई । मिट्टू ने गजल का दूसरा शेर कहा—

“अगर तकदीर हो सीधी  
तो तुम हो जाओगे सीधे ;  
रहो खामोश देखो तो  
मनाने कौन आता है ?”

शर्मजी मिट्टू की गजल का एक-एक शब्द जैसे अनुभव कर रहे

थे । ऐसा जान पड़ता था जैसे मिट्टु नहीं, मिट्टु की आत्मा गा रही हो । उन्होंने सोचा कि मिट्टु की उम्र अभी कुल सौलह-सत्रह साल की होगी । यदि वह कोयला बेचना छोड़कर किसी गुनी से गानविद्या का अभ्यास करे तो कौन कह सकता है कि एक दिन वह कुशल कलाकार न हो जायगा । इसके हृदय में संगीत-कला का बीज वर्तमान है; यदि अनुकूल परिस्थिति मिले तभी वह प्रस्फुटित और पछियत हो सकता है, अन्यथा वह कोयले का व्यवसाय तो उसे जला ही डालेगा ।

बाहर मिट्टु गा रहा था, भीतर शर्माजी उसके भविष्य के सम्बन्ध में विविध कल्पनाएँ कर रहे थे । इतने में ऊपर खिड़की खुली और मधुर स्वर में किसी ने कहा—

“मिट्टु, गंगो जा रही है । इसे सेर-भर कोयला दे दो ।”

मिट्टु ने गाना बन्द करके जवाब दिया—“बहुत अच्छा बहुजी ! कितना कोयला ? सेर-भर न ??”

“हाँ !” जवाब मिला और खिड़की बन्द हो गई । पत्पश्चात् तराजू-बटखरे की आवाज, गंगो के पैर की चूड़ियों की झनकार और ‘इलाही खवाब में शब को न जाने’ की ध्वनि सुनाई पड़ी ।

## : २ :

रायसाहब साधुराम हर तरह से असाधारण व्यक्ति है । साधारण व्यक्ति खाने-भर को भी कठिनाई से कमा पाते हैं । रायसाहब की कमाई हत्तनी है कि खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ और बैंक में भी मोटी रकम जमा कर लें । साधारण व्यक्ति के लिए एक भाई का भरण-पोषण भी भले ही समस्या बन जाय, परन्तु रायसाहब दो विवाहिता पत्नियों को सच्चिद रानी बनाकर रखते हैं और सुहल्ले-भर की बहु-बेटियों को ही नहीं अपितु अपने कारणाने की मजदूरनियों तक को वही पद ‘अस्थायी’ रूप से देने को तैयार रहते हैं ।

रायसाहब की दोनों ही पत्नियाँ सुन्दर हैं । एक श्यामा है, दूसरी

गौरी; एक चंचला है, दूसरी परम गम्भीर। शयामा अत्यन्त गम्भीर और निर्भीक है अर्थात् गृहपवन्धका अपनी विधवा ननद चमेली से वह बिलकुल नहीं डरती। उसकी निर्भीकता उस सीमा तक पहुँच खुकी है जिसे वेहयाई कहते हैं। गौरी अत्यन्त लजीली है; उसे बोद्धी भी कह सकते हैं। शयामा का नाम है प्रेमवती, गौरी का नाम है सुधा।

प्रेमवती का स्वभाव सर्वथा रायसाहब के स्वभाव के अनुकूल है। जब रायसाहब अपने कारखाने और विभिन्न दूकानों का निरीक्षण करने निकलते हैं तो प्रेमवती भी पाल-पड़ोस में केरी लगाने निकल पड़ती है। रायसाहब सोलह आगे उसी के वशीभूत हैं। प्रेमवती ने शहर में कई रिश्टेदूरियाँ भी खोज निकाली हैं। ब्रह्मनाल में ताऊजी रहते हैं, तो अस्सो पर फूफाजी, जिनके थहाँ आकर वह दो-दो-चार-चार दिन मेहमान रहती है।

बरतन/साफ करने से लेकर रसोई पकाने तक का काम सुधा के जिम्मे है। यह दूसरी बात है कि रायसाहब ने अपने कारखाने के सूरत नामक एक मजदूर की बालिका पत्नी गंगो को बरतन भाँजने के काम में सुधा की सहायिका नियुक्त कर दिया है। सुधा अपनी सौत प्रेमवती से उतना ही डरती है जितना बाधिन से बकरी। पति के समीप उसका मूल्य कीटदासी से भी घटकर है। छोकरी दासी गंगो के मुँह से सुनकर शर्माजी सुधा के बारे में हतनी ही जानकारी प्राप्त कर सके थे।

: ३ :

दूसरे दिन रविवार था। बादल भी खुल गए थे और लोगों को हफ्ते-भर बाद सूर्य का दर्शन मिला। शर्माजी की दफ्तर जाना नहीं था। जब दोपहर को रायसाहब अपनी दूकान पर चले तो उन्होंने भी धूप खाने के लिए उनसे छत पर जाने की अनुमति माँगी। रायसाहब को ऐसे काम बहुत प्रिय थे, जिनमें गाँठ का पैसा खर्च किये बिना ही अहसान जताने का अवसर मिलता हो। उन्होंने अनुमति दे दी।

शर्मजी छत पर जाकर धूप स्राते हुए एक ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने लगे। उपन्यास में अलाउद्दीन खिलजी के नामदं सेनापति मलिक काफूर की मर्दानगी का विशद वर्णन था। शर्मजी की आदत किसी भी पुस्तक को मन में नहीं, जोर से पढ़ने की है। उन्होंने पढ़ा कि रानी कमला काफूर से कह रही है—

“तुम नामदं हो, हम नारी की मर्यादा क्या जानो? नामदं अपनी भार्या तक को दूसरे के हाथ सौंप देता है, मैं तो किर भी परनारी हूँ।”

इतने में आवाज आई—“ठीक है, बहुत ठीक!” शर्मजी ने चौंककर सिर उठाया, देखा कि छत पर प्रेमबती खड़ी है और कह रही है—“ठीक है, बहुत ठीक।” इस नारी की वाचालता पर उन्हें कुछ क्रोध आया और अग्निमय नेत्रों से उसे देखते रह गए। इस पर वह मुस्कराकर बोली—“बाबू! क्या देखते हो? यह कौनसी किताब है?”

शर्मजी को उसकी निर्लज्जता पर लट्ठा आई। उसने पुनः कहा—“कौनसी किताब है बाबू, वहाते क्यों नहीं?”

“एक उपन्यास है,” उन्होंने उत्तर दिया।

“उपन्यास तो अच्छा जान पड़ता है। एक दिन के लिए मुझे भी देना। दोगे न?”

“आज ही तो मैं लाया हूँ,” बात टालने के लिए उन्होंने कहा।

“तो मैं अभी थोड़ा ही माँग रही हूँ? जब खत्म कर लेना तब देना। कब तक खत्म कर सकोगे?”

“अभी तो पड़ना प्रारम्भ किया है,” उन्होंने कहा।

“बरडे-भर से तो पढ़ रहे हो, कुल दो पन्ना पढ़ पाए? बहुत धीमा पड़ते हो!” कहकर उसने अविश्वास से हँस दिया। शर्मजी भौंपे, परन्तु तुरन्त ही सँभलकर बोले—

“बस किताब-भर हाथ में थी। खयात दूसरी ओर था।”

“ऐसी अच्छी किताब पढ़ने में भी? बाबू! बुरा न मानना। तुम्हारी हिन्दी में कुछ नहीं है। वही सीता, वही सावित्री! वही आदर्श का

पच्छा ।”

“आपको आदर्श अच्छा नहीं लगता क्या ?”

“अच्छा लगने की बात नहीं है । बात यह है कि आदर्श मर गया है । जिस तरह बन्दिश्या अरने मरे हुए बच्चे को भी, जब तक वह सँड न जाय, लिये-लिये फिरती है वैसे ही तुम हिन्दी वाले आदर्श का सुरदा लिये डोल रहे हो ? अच्छा, आज यहीं तक ।”

वह नीचे चली गई । शर्माजी उसकी विकृत प्रतिभा पर आश्चर्य करते रह गए ।

: ४ :

उसी दिन शाम को प्रेमवती शर्माजी की कोठरी में आई । शर्माजी दूसरे दिन निकलने वाले अखबार के लिए अग्रलेख लिख रहे थे । शीर्षक रखा था—‘आदर्श और यथार्थ’ । आते ही प्रेमवती ने कहा—“बाबू ! साड़ीवाला आया है । उसकी एक साड़ी मैंने पसन्द की है । रायसाहब घर पर हैं नहीं । आप पच्चीस रुपये सुनके दे दो । उनके आते ही लौटा दूँगी ।”

उसकी माँग सुनकर शर्माजी बड़े असमंजस में पड़े । कुल अस्सी रुपये मासिक वेतन पाने वाला पच्चीस रुपये कर्ज़ कैसे दे दे ? वह इन्कार करने जा ही रहे थे कि उसने कहा—“अगर रुपये न हों तो रहने दीजिए, फिर कभी देखा जायगा । हुख इतना ही है कि साड़ी बहुत अच्छी है और कम दाम में मिल रही है ।”

उसके चेहरे पर वेदना को रेखाएँ स्पष्ट उमड़ आई । शर्माजी ने अभिभूत होकर कह दिया—“नहीं, नहीं ! मैं रुपये देता हूँ,” और पेट काटकर संचित सौ रुपयों के अपने ‘स्थायी’ कोष से पच्चीस रुपये निकालकर उन्होंने उसके हाथ में रख दिए । उसने मुस्कराकर कहा—“धन्यवाद” और पलक मारते ही तूफान की तरह वह बाहर चली गई ।

इस प्रकार एक महीने के भीतर उसने शर्माजी से प्रायः पचासी रुपये ऐठ लिए। फलतः उन्हें उसके चरित्र पर जो सन्देह हुआ था वह दिनोंदिन बढ़ता ही गया। वह मन-ही-मन परदे में कैद उसकी सकुचीली सौत सुधा के चरित्र और स्वभाव से इसके चरित्र और स्वभाव की तुलना करते और यह सोचकर दुखी होते कि प्रेमवती किस प्रकार मौज उड़ा रही है और बेचारी सुधा कितने कष्ट में है।

शुद्धि के एक दिन वह आपनी कोठरी में बैठे इन्हीं बातों पर विचार कर रहे थे कि प्रेमवती पुनः उनके पास आई। उनके पास उसका आगमन केवल रुपया ही लेने के लिए होता था, अतः आज भी उसके आने का उद्देश्य वह समझ गए और उसके कुछ कहने के पहले ही जबरदस्ती हँसते हुए बोल उठे—“बड़ा अच्छा किया जो मेरे रुपये ले आई। इधर कई दिनों से मुझे रुपये की बड़ी आवश्यकता भी थी।”

“मैं रुपये देने नहीं और भी रुपये लेने आई हूँ,” उसने अत्यन्त निर्लंजतापूर्वक हँसते हुए कहा।

“रायसाहब आपको जेब-खर्च कम देते हैं क्या?” उसने गम्भीर होकर पूछा।

“मैं आपको किस राजा साहब से कम समझती हूँ?” उसके मुख पर वैसी ही निर्लंज मुस्कान थी।

“इसका मतलब?” शर्माजी ने कड़ाई से पूछा।

“तुम इतने मुर्ख हो,” उसने कहा और दरवाजे का रास्ता लिया।

शर्माजी ने झपटकर उसकी राह रोक ली। वह कतराकर यगल से चली। उन्होंने डॉटकर उससे रुकने के लिए कहा। वह हाँफती हुई कुरसी पर बैठ गई और बोली—“ओफ !”

“ओफ-सोफ कुछ नहीं। बताइए आप मेरा रुपया देंगी कि मैं रायसाहब से कहूँ?” शर्माजी का कण्ठ-स्वर अनावश्यक रूप से कठोर हो गया था। परन्तु उसने इसकी तनिक परवाह न की। वैसे ही बोली—“रायसाहब से क्या पाओगे? वह अल्लाउद्दीन है, तुम मलिक काफूर !”

ज्ञाण-भर वह मौन रही, परन्तु शर्माजी के बोलने के पहले ही कुरसी से उठते हुए योक्ती—“अच्छा जाती हूँ। लेते बने तो रायसाहब से रूपये ले लेना।” वह चलने लगी।

शर्माजी के मुँह से निकला—“यह ग्रिया-चरित्र ?” उसने सिर धुमाकर हँसते हुए जवाब दिया—“नारी ग्रिया-चरित्र न करेगी तो क्या पुरुष-चरित्र करेगी ?” और दूसरे ही ज्ञान वह उनके कमरे के बाहर चली गई।

#### : ५ :

दूसरे दिन चार घटनाएँ एक साथ हुईं। रायसाहब ने पिछली रात घर लौटने पर शर्माजी को सवेरा होते ही मकान खाली करने का नादिरशाही अथवा खिलजवी आदेश प्रदान किया। उक्त आदेशालुसार दूसरे दिन बड़े ही तड़के उठकर शर्माजी अपना अल्प असशाब समेटकर उसकी गठरी बाँध रहे थे कि ऊपर गृह-प्रबन्धका चमेलीदेवी का हाहा-कारमय कब्दन सुन पड़ा। वे रो-रोकर चिल्ला रही थीं—‘सात पुश्त की नाक कट गई !’ और रायसाहब उन्हें चुप रहने के लिए डॉट रहे थे। सुधा की दासी गंगो दौड़ी हुई शर्माजी की कोठरी में आई। उन्होंने उससे पूछा—“क्या हुआ रे ?” उसने बताया कि छोटी रानी जी का घर में कहीं पता नहीं है। सुधा के कष्टों का समरणकर शर्माजी को दुख हुआ। उस घर में गंगो ने उनकी बड़ी सेवा की थी और शर्माजी उस घर से सदा के लिए जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उसे एक रूपया पुरस्कार देते हुए उससे सस्नेह पूछा—“तुम्हारी मालकिन तो कहीं चली गईं गंगो ! अब तुम इस घर में किसके पास रहोगी ?”

गंगा ने बड़े ही भौले रूप से कहा—“अब मैं अपने ‘उनके’ साथ रहूँगी !”

शर्माजी की गठरी बँध चुकी थी। उसे एक कोने में रख दह स्नान के लिए नल की ओर चलो। देखा, रायसाहब आज बड़े सवेरे ही बाहर

चले जा रहे हैं। स्नान में उन्हें कुछ चिलम्ब हुआ। छः महीने इसी नल के नीचे नियमित स्नान के बाद आज यह सोचकर उनका चिन्त भावुक हो रहा था कि कल से नहाने के लिए कोई दूसरा घाट मिलेगा। इसी समय आँगन में जोर से शोर हुआ। शर्मजी शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि बीच आँगन में ग्रेमवती रायसाहब के पक्ष ममेरे भाई को कोई भद्दा मज़ाक करने का पुरस्कार चप्पलों से दे रही है। हँसी दबाये हुए शर्मजी अपनी कोठरी में बुसे। आँगन में से ही ग्रेमवती ने पूछा—“अभी गये नहीं?” उन्होंने उसकी बात का उत्तर दिये बिना ही कपड़े पहने, गली उठाई और गली का रास्ता लिया। बाहर निकलते ही देखा कि मिट्टी की दूकान के तरती के नीचे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा है। अधिक पूर्ण ढंग से कौतूहलवश उन्होंने उसे उठा लिया और त्योही देखा कि मिट्टी गली की मोड़ धूमकर दूकान पर आ रहा है। शर्मजी ने पैर बढ़ाया। मिट्टी दूकान पर पहुँचकर ताला खोलने और ऊपर खिड़की की ओर मुँह उठाकर गाने लगा—

“गरचे वेजार तो है, पर  
उसे कुछ प्यार भी है।  
साथ इनकार के परदे में  
कुछ इकरार भी है।  
दिल भला ऐसे को  
ऐ ‘दर्द’ न क्यूँ कर दीखे।  
एक तो यार है और, उसपै  
तरहदार भी है।”

उधर शर्मजी और भी आगे बढ़कर लिफाफा खोल पत्र पढ़ते हुए चले। पत्र में लिखा था—

“जनाय आत्मी,  
“जा रही हूँ। आपकी तीनों किताबें साथ लिये जा रही हूँ, इस-  
लिए कि जिन्दगी का पहला पाप और आखिरी भी, हमेशा याद रहे।

जैसा कि मेरा ख्याल है, अगर यह पाप जिन्दगी का पहला और आखिरी पाप हुआ तो यह इकलौता पाप कहा जायगा। बेटा चाहे कपूत हो या सपूत प्यारा होता है। पर अगर कहीं वह इकलौता हुआ तो किर क्या कहना ! यह मेरा इकलौता पाप है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है।

“मैंने पाप किया था आपको दिल देकर। जबानी, वासना और अभाव की विवशता ने मेरे दिल में बदले की आग सुलगा दी। बदले की आग जो न करा दे ! इसी ने सोने की लंका जला दी थी। मैं समझती थी मेरा शौहर मेरी सौत को प्यार करता है। बस बदले की आग भड़क उठी। उसे बुझाने के लिए पानी की जखरत थी—चाहे वह समुन्दर का खारी पानी होता, चाहे वह गंगा का पवित्र पानी होता, चाहे वह नाली का गंदला पानी होता। इसी समय तुम मिल गए—नाली के गंदले पानी की तरह। मुझे प्यास बुझनी थी, स्वाद थोड़े ही लेना था ! मैंने गन्दे पानी से ओंठ लगा दिया। अब प्यास बुझ जाने पर मतली आती है। इधर असलियत भी खुल गई। मेरा शौहर दुनिया की किसी भी औरत को कभी प्यार नहीं कर सकता। वह तो खुद को—अपनी खुदी को—प्यार करता है, बस !”

पत्र पढ़कर जैसे शर्मजी के गाल पर तमाचा पड़ा। उसकी पीड़ा से चौंकते हुए उन्होंने सिर उठाया तो क्या देखा कि गली की मोड़ पर बैनी तमोली की दूकान पर बैठी गंगा तमोलिन से रायसाहब बुल-बुल कर बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि रायसाहब की बात सुनकर गंगा घर के भीतर चली गई और रायसाहब उसे सुनाते हुए यह कहकर कि “अब भी मेरे कारबाने में तुम मजदूरनियों को ‘मेठ’ बन सकती हो,” अपनी दूकान की ओर बढ़े।

## दिया क्या जले जब जिया जल रहा

\* \* \* \* \*

: १ :

गंगो नित्य की अपेक्षा आज कुछ जलदी ही उठ गई थी। उसने के बाद से ही वह अनमनी थी। वह समझ नहीं पा रही थी, पर उसे सब-कुछ अधूरा-अधूरा दिखाई पड़ रहा था। चारों ओर अत्रुसि उसांस-सी भरती जान पड़ती थी और अभाव मचल-मचलकर चिकोटी काटता-सा मालूम पड़ता था। उठते ही उसने अपनी पालतू बिल्ली को एक चैला खींचकर मारा; कारण, वह नित्य उसके निकलने के बाद कोठरी से बाहर निकला करती थी, पर आज वह उसके पहले ही बाहर निकल आई। उस दिन घर में उसने बुहारी नहीं लगाई, बरिक माड़ उठाकर उसने सारा घर पीट ढाला। उसका सारा आक्रोश अपने पति सूरत पर था जिसे वह अपने सारे अभावों का मूल कारण समझती थी। वह चाहती थी कि सूरत उससे कुछ कहे। उसे अपना अभाव, अभियोग उपस्थित करने का मौका मिले। सूरत भी सबेरे से ही निगाह दबाएँ सब-कुछ भाँप रहा था। देख रहा था कि दिशाएँ निस्तव्ध हैं और गंगो का मुख बादलों की तरह भारी है। वह डर रहा था कि अभी-अभी वह कहीं बरस न पड़े। उसने तुपचाप नित्यक्रिया समाप्त की। बाल संवारे, गुड़ का एक टुकड़ा मुँह में ढाला, पानी पिया और फिर एक अधजली बीड़ी सुलगाकर वह दबे पाँव बाहर निकल जाने का प्रयत्न करने लगा। करीब-करीब वह सफल हो चुका था, अर्थात् एक

पैर चौकट के उस पार कर चुका था, जूता भी पहन चुका था, दूसरा पैर भी उठ गया था, सहस्रा बज्रपात हुआ। उठा हुआ पैर जहाँ-कातहाँ आ रहा। पैर सखने से बने हुए पहले निशान पर इस बार पैर वापस होकर इस प्रकार चारों खाने लीक ढैठा जैसे समान कोण और भुजा वाले त्रिभुज एक-दूसरे पर सरोतर बैठ जाते हैं। सिर सहस्रा धूम गया, आँखें सभय हो गईं, मुँह खुल गया, जैसे कह रहा हो—‘भाई तू भी तो खुल! ’ यह बन्द-बन्द-सा तो खल रहा है। कानों में कम्पन हुआ। कम्पन से ध्वनि हुई।

“हाँ तो दिवाली कल है कि परसों ?”

“कब है, हमें नहीं मालूम। मिल से छुट्टी होती तो मालूम होता।”

“तुम्हारे-ऐसा निकम्मा-आदमी तो त्रिखोक में न होगा। कब परव है, कब त्यौहार है, इसका भी तुम्हें पता नहीं।”

“पता लगे तो कैसे? सबेरा हुआ, दौड़ते भिल पड़ूँचा। दिन-भर कोयला झोककर दिया जले हाथ और मुँह में कारिख पोते घर लौटता हूँ। दिन-भर का थका-माँडा, लेटते ही नींद आ जाती है। हमको तो यह भी नहीं मालूम होता कि आज दिन कौनसा है?”

“घर की परवाह हो तो मालूम हो।”

“आखिर तुम्हें दिवाली याद कैसे आई?”

“साल-भर का त्यौहार है, और क्या?”

“अच्छा तो पता लगाकर बताऊँगा।”

“तुम क्या पता लगायोगे? मैं खुद पता लगा लूँगी। राम, राम! दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं!”

सूरत भूरत बना हुआ सारी फटकार हजम कर रहा था। गंगो शेरनी की तरह बकरती हुई घर से बाहर निकली।

सूरत अधजली बीड़ी से अधजला हृदय सुखगता हुआ घर से बाहर निकल गया।

“रामू की माँ ! रामू की माँ !” की आवाज से मुहरला गूँज उठा । गंगो अपनी पड़ोसिन रामू की माँ को दुखा रही थी । रामू की माँ भी अपने दरवाजे पर आई । गंगो ने पूछा—“क्यों बहन, दिवारी तो कल ही है न ?”

“हमको क्या मालूम बहन ! कि दिवारी कब है और भैयाडूज कब ?”

“ऐसा क्यों कहती हो ? साल-भर का त्यौहार है !”

“मेरे यहाँ तो इस साल कोई त्यौहार न मनाया जायगा ।”

“क्यों ?”

“तुम्हें नहीं मालूम ? आसाम के भूकम्प में हमारे जेठ मर गए । उसी गम में इस साल हम कोई त्यौहार न मनाएँगे ।”

गंगो निशां होकर उधर से लौटी । दूसरी ओर जाकर उसने अपनी दूसरी पड़ोसिन को पुकारा—“ललता ! ओर ओ ललता !”

“क्या है गंगो ?” ललिता ने आकर पूछा ।

“यही पूछना है कि दिवारी इस साल परसों पढ़ेगी कि नरसों ?”

“दिवारी न परसों है, न नरसों, कल ही है ।”

“कल ही है !” गंगो के मुख पर आश्चर्य के सभी लक्षण स्पष्ट हो उठे । उसने पूछा—“दिवारी के लिए तुमने क्या तैयारी की है ?”

“हम गरीबों के यहाँ त्यौहार की तैयारी कैसी ? यहाँ तो बाहरों महीने वही रुखी रोटी और वही सूखा साग ! त्यौहार तो है अमीरों का, चमेली बुआ का, जो ललहोच्छु तक धूमधाम से मनाती हैं ।”

“ठीक ही है, भगवान् ने चार पैसे दिये हैं, वह क्यों न धूमधाम करें ?”

गंगो की आँख में प्रकाश आ गया, जैसे घने अन्धकार में उसने आळोक-रेखा देख ली हो । उसने चमेली बुआ के घर की राह ली ।

: ३ :

चमेली बुआ नौकर को बाजार भेजने के लिए वस्तुओं की लम्बी सूची बना रही थी। उन्होंने गंगो को देखकर भी न देखा, तथापि वह उन्हीं के पास जा बैठी।

गंगो अन्तःसत्त्वा थी। हथर उसकी तविधत 'उद्दे' के बड़े पर आ गई थी। पर वह अपनी यह इच्छा किससे और कैसे प्रकट करे? लोक-दृष्टि के समक्ष अपने मन का आवरण उठाने में वह लजाती थी, कारण आवरण उठाने में लजाता लगती ही है—चाहे वह दैहिक हो या मानसिक। यही कारण था कि वह अपने पति सूरत से भी खुलकर अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। वह चाहती थी कि कोई स्वयं उसकी इच्छा भाँप जाय और उसे पूरी कर दे।

चमेली बुआ का काम समाप्त होने पर गंगो ने कहा—“क्यों बुआ! कुछ मेरे लायक भी काम है?”

“काम तो कुछ वैसा नहीं है, पर त्यौहार का दिन है, इसलिए काम की क्या कमी? हो सके तो जरा तड़के चली आना। पीठी-बीठी पीसना है।”

गंगो दिन-भर चमेली बुआ के यहाँ जी-तोड़ परिश्रम करती रही। रात के आठ बजे घर लौटी। सूरत मिल से लौट आया था। गंगो के आते ही उसने कहा—“दिवारी कल ही है।”

“तुमसे पहले ही मुझे मालूम हो गया है। बकवाद मत करो। हमें सबेरे तड़के ही उठना है।”

: ४ :

अर्धनिशा की नीरवता को चीरता हुआ सभीपवर्ती पुलिस थाने का घटटा बजने लगा—एक! दो! तीन! चार! पाँच! छः! गंगो तड़पकर उठ बैठी। उसने सूरत का कन्धा झकझोरकर उसे उठा दिया और मल्लाती हुई बोली—“मैंने तुमको सहेज दिया था कि हमें जल्दी उठा

देना, चार ही बजे जाना है। यह खो छः बज गया।” सूरत ने लेटे-लेटे ही जवाब दिया—“तुम तो बड़ी पागल हो। न सोती हो, न सोने देती हो। अभी तो कुल बारह बजे हैं, बारह।”

थाने का घण्टा अभी बजता ही जा रहा था। गंगो को अपनी भूल मालूम हुई और वह लंजित हो गई। पुनः लैट तो गई, पर आँख फिर न लग सकी। उसने जागते हुए सुना—घण्टे-भर बाद दो; घण्टे-भर के च्यवधान के बाद तीन बजा। गंगो के लिए पल-पल भारी होने लगा। बड़ी देर हो गई। चार का घण्टा नहीं बजा। गंगो ने समझा कि शायद तन्द्रा के कारण चार बजना वह नहीं सुन पाई। वह उठ पड़ी और सूरत को घर से होशियार रहने का आदेश देती हुई बाहर निकल पड़ी।

### : ५ :

कुलजा-दातुन तक किये विना चमेली बुआ के यहाँ दस बजे तक अथक परिश्रम करके गंगो घर लौटी। सूरत बाजार गया था। उसने जलदी-जलदी स्नान आदि समाप्त किया और इस प्रतीक्षा में कि अब चमेली बुआ के यहाँ से उसे कोई भोजन के लिए बुलाने आयगा, वह दरवाजे पर जा बैठी। ग्यारह बजा, बारह बजा। अब तक कोई नहीं आया। गंगो ने देखा कि रामू की माँ रामू को गोद में लिये और रामू रन्नों को उँगली पकड़ाये चमेली बुआ की ओर जा रही है। गंगो ने पूछा—“कहाँ जा रही हो बहन?”

“चमेली बुआ के यहाँ से बुलावा आया है, वहीं जा रही हूँ।”

“कब बुलावा आया?”

“कल ही शाम को।”

गंगो को धक्का लगा; रामू की माँ आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद दो-चार दूसरी पहोसिनों के साथ लकिता भी चमेली बुआ के घर की ओर जाती दिखाई पड़ी। गंगो ने जानकर भी प्रश्न किया—“कहाँ

जा रही हो ?”

“बमेली डुच्चा के बहाँ से भोजन का बुलावा आया है न ! बहाँ !”

“अच्छा, यह बात है ! मैंने भी सोचा कि कहाँ जा रही हो !”

“न्योता नहीं मिला है तुमको क्या ?” लिंगिता ने पूछा ।

“न्योता मिले भी तो मैं नहीं मानने वाली । मैं क्या किसी के दुकड़े की मोहताज हूँ या तुम लोगों की तरह पेट धोया है । तुम अमीर हो, अपने घर की हो !”

“अरे, तो लड़ती क्यों हो ?”

“मैं लड़ती हूँ कि तू ? डाइन कहाँ की !”

लिंगिता और उसकी साथिनें समझ न पाईं कि गंगा सहसा इतनी नाराज क्यों हो गई । वे अपने रास्ते बढ़ गईं । हताश होकर अपने—गरीबों के—भण्डार-घर में जाकर यह जानती हुई भी कि उसकी अभिलिखित वस्तु उसे नहीं मिलेगी, गंगा ने हाड़ियाँ टटोलनी शुरू कीं, पर किसी भी हँडिया में उसे उर्द्द की दाल का एक दाना भी न मिला । वह अभाव के उस समुद्र-सी फैल गई जिसमें केवल चट्ठानों से टकराकर बिखरने के ही लिए निराशा की लहरें उठा करती हैं । इसी समय कण्डोल की दूकान पर से विमर्दित सूरत राशन लिये हुए घर आया । उसे देखते ही गंगा उसकी ओर लपकी । राशन की गठरी उसके हाथ से छीनकर जमीन पर पटकती और आँचल पसारकर रोती हुई उसने पूछा—“बोलो ! बोलो ! मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं उर्द्द का बड़ा खाऊँगी ?”

इसी समय मकान-मालिक के पुत्र लल्लन ने कटोरे-भर उर्द्द की दाल उसके फैले हुए आँचल में उलट दी ।

सूरत भौंचक हो रहा । सारा दृश्य उसके लिए पहेली था ।

## नारी तुम केवल श्रद्धा हो

• • • • • • • • • • •

: १ :

माँ-चाप पुकारते थे लक्ष्मन !

कालेज-रजिस्टर में नाम था रघुवीशशरण और सहपाठियों में उसकी प्रसिद्धि थी 'विमेनहेठर' (नारी-बिहू-बी) के नाम से। क्या कालेज, क्या शहर, क्या खेत का मैदान, क्या चौक का बाजार, सभी जगह उसे जानने वाले निकल आते जो उसके नाम और उस नामकरण के कारण दोनों से परिचित रहते।

उसके शरीर का वर्ण असाधारण काला था। उसकी आँखों की अनावट कुछ ऐसी थी कि यदि वह देखता बाएँ तो दाहिने खडे लोगों को यह भ्रम होता कि वह हमारी ही ओर देख रहा है।

वह खद्दर की धोती, बण्डी और चादूर पहनता-ओढ़ता था। पैरों में रहती थी काठ की चटपटिया। टौपी की उसे आवश्यकता ही न थी; कारण, सिर पर लम्बे सघन केश-जाल थे—रुखे और बिखरे, उसके हृदय की अस्तव्यस्तला और रुचता के परिचायक।

कक्षा में वह सबके पीछे बैठता था, परन्तु जब परीक्षा-फल प्रकट होता तो उसका नाम सबसे आगे मिलता। सबसे पीछे उसके बैठने का मौलिक परन्तु कुछ कारण यह था कि कक्षा में सबके आगे छात्राएँ बैठती थीं। यदि सामने से कोई छात्रा दिखाई देती तो वह सुँह फेर लेता, परन्तु यदि वही छात्रा कुएँ में गिर जाती तो उसे बचाने के लिए

वह सबसे पहले कुएँ में कूद पड़ता ।

किसी ने उसे एक कैलेंग्डर भेंट किया । उस पर राधाकृष्ण का एक नयनाभिराम चित्र था । दूसरे ही दिन उसके कमरे में लोगों ने देखा कि कैलेंग्डर टैंगा है, उस पर कृष्ण की आकृति ज्यों-की-त्यों चमक रही है, परन्तु राधा का स्थान दीवार की नीलिमा ने ले रखा है ।

उसके अंग्रेजी पाठ्यक्रम में एक ऐसी पुस्तक भी थी जिसके आरम्भ में लेखिका का मनोहर चित्र था । उसने अपने कुछ सहपाठियों के साथ जाकर उक्त पुस्तक खरीदी । दूसरे दिन उन सहपाठियों ने देखा कि 'विमेनहेटर' की उक्त पुस्तक पर बहिया भोटा, चिकना कागज चढ़ा है, परन्तु लेखिका का चित्र बड़ी सफाई से साफ कर दिया गया है ।

छियों से भदा मजाक कर उनकी चप्पल तक खाने वाले उसके पिता देवीचरण ने जब अपनी रक्षिता को घर में ही ला विठाया तो उसने पितृभक्ति को ठोकर भार दी और पिता के सामने ही उनकी रक्षिता को केश-कर्षण द्वारा बाहर निकाल दिया; परन्तु उसी दिन शाम को जब उसके पिता के मोटर-चालक झींगुर ने उससे यह कहा कि एक बड़े घराने की पहां-लिखी कुल-वधू पति की बदबलनी से व्यथित होकर गृहत्याग करने को तैयार है और यदि उसने उससे विवाह न किया तो वह गुरड़ों के पंजे में पड़ जायगी तो 'विमेनहेटर' ने तुरन्त उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया ।

ऐसा था विरोधी गुणों का सम्मिश्रण वह 'विमेनहेटर' !

: ८ :

उस दिन 'ए' होस्टल में इस संवाद से बड़ी सनसनी फैल गई कि उसी होस्टल का निवासी एक छात्र कालेज से निकाल दिया गया । जगह-जगह लड़कों के मुरगड इसी घटना की चर्चा कर रहे थे । एक छात्र अस्वस्थतावश कालेज न जा सका था । उसके कमरे में एक ढल ने पहुँचकर खबर सुनाई—“बेचारा जनादेन 'रस्टिकेट' हो गया ।”

“क्यों, क्यों, उसने क्या किया था ?” प्रश्न हुआ। उत्तर मिला।—“कुछ नहीं, यों ही बेकार !” पुनः प्रश्न हुआ—“फिर भी कुछ बात तो होगी ही। अकारण तो कोई निकाला नहीं जाता।”

“सुन्दरियों की सनीचरी दृष्टि पड़ जाना ही क्या पर्याप्त कारण नहीं ?” एक छात्र ने कहा। “सुन्दरियों की या सुन्दरियों पर ?” दूसरे छात्र ने टीका की। “एक ही बात है। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, परिणाम एक ही होगा—कटेगा खरबूजा ही,” तीसरे छात्र ने दार्शनिक भाव से उत्तर दिया।

“ठीक कहते हो,” चौथे छात्र ने समर्थन के स्वर में कहा, “हमारा नजर सुन्दरियों पर पड़े या सुन्दरियों की नजर हम पर, हर हालत में बरबाद हमें होंगे ।”

“आप क्यों बरबाद होने लगे जनाव ?” छात्रों की वार्ता को बीच ‘विमेनहेटर’ का जलद गम्भीर स्वर सुनाई पड़ा। वह धीरे-धीरे आकर कमरे में एक कुरसी पर बैठ गया। कीधबश वह कौप रहा था। मण्डली में सन्नाटा छा गया था जिसे तोड़ते हुए वह किरण गरजा—“इतना बड़ा अन्यथा देखकर भी आप लोग उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं ? इसका परिणाम क्या होगा, जानते हैं ? आज जनार्दन निकाला गया, कल मैं निकाला जाऊँगा, परसों अन्य निकाले जाऊँगे ।”

“जो जैसा करेगा वैसा भरेगा—हम हों, आप हों या अन्य कोई,” एक छात्र ने कहा।

“जनार्दन ने क्या किया था जिसका उसे यह फल मिला ?” विमेनहेटर ने गुस्से से पूछा।

“कुछ तो किया ही होगा तब ऐसा हुआ। अगर जनार्दन ने कुछ न किया होता तो लड़की शिकायत ही क्यों करती और अधिकारी उस पर ध्यान ही क्यों देते ?” पहले छात्र ने ढिठाई से बात आगे बढ़ाई।

विमेनहेटर आपे से बाहर हो गया। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा—“क्या अधिकारी मनुष्य नहीं हैं ? क्या सुन्दरता का

उन पर प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या लड़कियाँ भूठ नहीं बोल सकतीं ?”

“लड़की क्यों भूठ बोलेगी ?”

“जी हाँ, लड़कियाँ तो अब हरिशचन्द्र हो गई हैं !”

“चाहे आप लड़कियों को भूठी कहें या अधिकासियों को पक्षपाती बताएँ महाशय, लेकिन सच पूछिए तो पक्षपाती आप हैं। वह ज्ञानान्तरा कि औरतें पुरुषों द्वारा सताई जाती रहें, उनकी बेइजती होती रहे और शरम उनकी जबान न खुलने दे। यह समानता का युग है। यदि आप परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं तो कुसुम भी द्वितीय स्थान प्राप्त करने में पीछे नहीं रहती। जिस कहाँ में आप पढ़ते हैं, उसी में लड़कियाँ भी। जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, वही उन्हें भी। अब सबके साथ समान व्यवहार होगा।”

“बाबा मेरे ! यहीं तो मैं भी कह रहा हूँ,” चिह्नते हुए विमेनहेटर ने जबाब दिया, “समानता का व्यवहार करते हो तो निष्पत्त भाव से करो। दोषी लड़के को निकालते हो तो दोषी लड़की को भी निकालो !”

“अब आये आप रास्ते पर,” पहले छात्र ने कहा।

“यह तो मानेंगे ही कि छेड़-छाड़ पहले लड़के ही शुरू करते हैं ?”

“जी हाँ, पर इसके लिए उन्हें बाध्य करती हैं लड़कियाँ ही। किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं कि यिना इशारा पाए वह किसी लड़की की ओर आँख भी उठा सके !”

“यह तो आप धौँधली पर उत्तर रहे हैं !”

“हरगिज नहीं ! आज की ही घटना मेरे कथन का प्रमाण है। मैंने आदि से अन्त तक आज का तमाशा देखा है !”

“कहिए !”

“मुनिष ! कुमारी कुसुम अन्य दो लड़कियों के साथ होस्टल से आ रही थी। जनादेन भी उधर ही टहल रहा था। कुसुम ने उसकी ओर देखकर लड़कियों से कुछ कहा और तीनों ही हँस पड़ीं। जनादेन ने भी तबियतदारी दिखाई और मुस्करा दिया। कुसुम ने उसकी

सुस्कराहट के जवाब में अपनी चप्पल की ओर हशारा कर दिया। बदले में जनार्दन ने अपने 'बटनहोल' का फूल निकालकर उस पर फेंक दिया। वस अब कुमुम की बेइजती हो गई। उसने फूल उठा लिया और प्रिंसिपल के पास जाकर रिपोर्ट की। प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत सुन दोनों लड़कियों की गवाही ली और जनार्दन को वर्ष-भर के लिए कालेज से निकाल दिया। अब बताइए गोपी बाबू, इसमें किसका दोष था?"

"सरासर कसूर जनार्दन का है। कुमुम ने उसे चप्पल मारा तो था नहीं, केवल दिखला दिया था तब उसने फूल क्यों फेंका?" गोपी ने पूछा।

मुँह चिहाता हुआ विमेनहेटर बोला—“तो जनार्दन ने भी तो केवल फूल ही फेंका था, कोई बत्र नहीं गिराया? गोपी बाबू, जब लड़कियाँ चमक-दमक, बनावट-सजावट, चलन और सभ्यता में घूरोप की आदर्श मानती हैं तो गौरव का इतना भारतीय भाव क्यों? आधा तीवर और आधा बटेर यह तो अच्छा नहीं।”

अभी विमेनहेटर की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि उसके एक-मात्र मित्र शर्मा ने कमरे में प्रवेश किया और कहा—“यार, तुम यहाँ बैठे बहस कर रहे हो, वहाँ जनार्दन जा रहा है। उसका सामान दूर्के पर रखा जा चुका।”

सभी लड़के जनार्दन से मिलने दौड़ पड़े। जनार्दन सीढ़ी उतर रहा था। रेलिङ पर से झुककर गोपी ने पूछा—“कहो जनार्दन, क्या हाल है?”

जवाब में जनार्दन एक शेर पढ़ता हुआ नीचे उतर गया—

“जान तो कुछ गुजर गई उस पर

मुँह छिपाके जो कोसता जाये।

लाश उट्ठेगी जबकि नाज़ के साथ

फेरकर मुँह वह सुस्करा जाये।”

सदा की भाँति विमेनहेटर कक्षा में सबके पीछे बैठा था। हिन्दी के अध्यापक 'कामायनी' पढ़ा रहे थे। उनके मुँह से निकला—“नारी, तुम केवल शब्दा हो!” और तुरन्त ही विमेनहेटर ने अपने मित्र शर्मा का हाथ दबाकर बाहर निकल चलने का इशारा किया। दोनों बाहर निकल आए और कक्षा के पीछे उद्यान में चले गए। वहाँ जाते ही शर्मा ने पूछा—“यार ! तुम्हें औरतों से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है ?”

उत्तर में विमेनहेटर मुस्करा दिया। शर्मा ने फिर कहा—“भई, तुम्हारी मुस्कराहट तो तुमसे भी अधिक रहस्यमयी है। फिर भी आज तुम्हें अपने इस स्वभाव का कारण मुझको बताना ही होगा।”

“वह बड़ी लम्बी कथा है शर्माजी !”

“संचेप में कहो !”

“बिना सुने तुम न मानोगे !”

“नहीं !”

“अच्छा तो फिर सुनो,” विमेनहेटर कहने लगा, “मैं, गोपी, जनार्दन और कुसुम चारों ही एक सुहलें के अर्थात् चौखम्भा के रहने वाले हैं। चौखम्भा बहुत बड़ा मुहल्ला है इसलिए एक ही मुहल्ले में रहते हुए भी हम लोगों के घर एक-दूसरे के बहुत पास नहीं हैं। केवल मेरा और कुसुम का मकान एक-दूसरे से सटा हुआ है। मेरी और कुसुम की प्रारम्भिक शिक्षा एक साथ ही आरम्भ हुई। मैं स्कूल में भरती हुआ, वह कन्या-पाठशाला में। समय बीतता गया और हमारी मित्रता गाढ़ी होती गई। उस साल हम दोनों एक साथ हाई स्कूल परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा के बाद गरमी की छुटियाँ थीं। एक दिन शाम को टहल-कर जब मैं घर वापस आया तो मेरी छोटी बहन दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली—

“‘भैया ! मिठाई खाने को दो तो एक बात बताऊँ ।’

“‘ना, न मैं मिठाई खिलाऊँगा और न तेरी बात सुनूँगा ।’

“‘अच्छा ! मिठाई मत दो, बात तो सुन लो ।’

“‘ना ! मैं तेरी बात भी न सुनूँगा ।’

“अपनी बहन को यही जवाब देकर मैं अपने कमरे में बुस गया । बाहर से ही बहन ने कहा—‘कुसुम के साथ आपका व्याह होगा । कुसुम की माँ आई थीं ।’

“जिस बात की आशा न थी, जिसके बारे में कभी कुछ सोचा तक न था वही बात सुनकर भी सुझे कुछ आश्चर्य न हुआ । सुझे ऐसा जान पड़ा जैसे मैं बहुत दिनों से कुसुम का पति हूँ और उस पर मेरा चिर अधिकार है । मैं यह भूल गया था कि मैं कुरुप हूँ, मेरा रंग काला है, मेरी आँखें नीरस हैं और मेरी समूची बनावट बीभत्स है । मैं सुनदरी कुसुम के योग्य नहीं ।

“रात बीत गई; प्रभात हुआ । मैं अपनी छृत पर से डाककर कुसुम की छृत पर पहुँचा । कुसुम भी अभी-अभी सोकर उठी थी । प्राची का अरुण सौन्दर्य उसके कोमल कपोलों पर अनुराग बनकर नृत्य कर रहा था । अलसाई आँखों में जैसे शत-शत वसन्त की मधुमाया लहरा रही थी । मैंने उससे कहा—‘कुसुम ! मेरे साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है । तुम्हें स्वीकार है न ?’ कुसुम ने मामिक दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया—‘नहीं ।’

“‘मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ।’

“‘मैं तुम्हारे प्यार को धृणा करती हूँ ।’

“‘क्यों ?’

“‘बयोंकि तुम असुन्दर हो ।’

“यह सुनकर मैं ठहर न सका । धूमा, धूमकर सीधा भागता हुआ अपने कमरे में शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया । मैंने देखा जैसे विश्व का समस्त असौन्दर्य मेरे शरीर में समाया हुआ है । जिस प्रकार सारस की श्रीवा, बारहसिंहों की टाँगों, गधे की मूर्खता और अन्य पशुओं की विभिन्न कुरुपताओं की समष्टि ऊँट है, वैसे ही मनुष्यों में

मैं हूँ। सच कहता हूँ भाई, मेरी कुरुपता ने जैसी पीड़ा सुनके दी वैसे किसी ने किसी को कभी न दी होगी। उसी दिन से वह समझकर कि सौन्दर्य की अधिकारिणी स्त्रियाँ हैं, उनसे सुनके घोर बुणा हो गई। इसके बाद कुसुम के यहाँ से जाना छूटा और गोपी का बड़ा। गत वर्ष मैंने सुना कि कुसुम की शादी जनार्दन से होने वाली है, किन्तु उस पर गोपी का आसाधारण अधिकार है। उसी के कहने से उस दिन कुसुम ने जनार्दन को कालेज से निकलवा दिया; इसलिए कि वह कुसुम के माँ-बाप की दृष्टि में गिर जाय।”

रघुवीर की बातें अभी समाप्त भी न हो पाई थीं कि किसी की पगधनि सुन पड़ी। दोनों ने धूमकर देखा कि कुसुम आ रही है। कुसुम ने वहाँ आकर अपना हाथ रघुवीर के कन्धे पर रख दिया। शर्मा धीरे से टल गया।

कुसुम का हाथ कन्धे पर पड़ते ही रघुवीर चौंका जैसे बिजली का करेण्ट छू गया हो। वह भागना चाहता था कि कुसुम ने उसके कुरते का छोर पकड़ लिया।

“तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दो,” रघुवीर ने गरजकर कहा।

“तुम पुरुष हो, बली हो, छुड़ा लो।”

“तू त् नहीं मानेगी, वेहया!” विसेनहेटर ने करारा धक्का दिया।

कुसुम गिरते-गिरते बची। उसे धक्का देकर ज्यों ही वह धूमा कि प्रॉक्टर मिस्टर सिन्हा खड़े दिखाई पड़े। उन्होंने पूछा—“क्या बात है?” रघुवीर चुप हो गया। प्रॉक्टर ने कुसुम से कहा—“चलो रिपोर्ट करो। इसने क्या किया है?”

“कुछ नहीं,” कुसुम ने कहा।

“इसने तुम्हें धक्का देकर गिराया है,” प्रॉक्टर बोले।

“कहाँ, वह तो मेरी धोती मेरे पैरों में फँस गई थी।”

“सिन्हा मुस्कराते हुए चले गए। विसेनहेटर सिर नीचा किये खड़ा

रहा; बोला—“कुसुम ! तुम रिपोर्ट करो ।”  
“नहीं !”  
“क्यों ?”  
“वैसे ही ।”  
“मैं तुम्हें वृणा करता हूँ ।”  
“मैं तुम्हारी वृणा को प्यार करती हूँ ।”  
वृणा बोला । लड़के कक्ष से गुनगुनाते हुए निकल पड़े—“नारी, तुम  
केवल श्रद्धा हो !”

## मृषा न होइ देव रिसि बानी

\* \* \* \* \*

नगवा घाट पर बैठे सुक्खू ने स्वच्छ जल से धोकर सिल पर लोडा खड़ा करं दिया और उस पर नारियल की खोपड़ी से दूधिया भाँग गिराता हुआ वह चिल्लाया—“लेना हो बाबा भोलेनाथ !” पानी में छटक पड़ी साड़ुन की बट्टी खोजने के लिए उसके साथी झींगुर ने उस समय गोता लगा रखा था। वह भी पानी के भीतर से ‘विजयामन्त्र’ पढ़ता हुआ बाहर निकला और ‘मन्त्र’ के शेष भाग की पूर्ति करता हुआ-सा चिल्लाया—“जो विजया की निन्दा करे उसे खाय कालिका माई !” और फिर सुक्खू की ओर धूमकर उसने पूछा—“का भाई सुक्खू ! माल तैयार हो गयल ?”

“मसाला तड़ कढ़बै से तैयार हौ। देखीं, तोहैं साफा पानी से कब ढूँढ़ी मिलड़ला ?”

“हम्में त तनिक देरी लगी भाई !”

“अच्छा, तड़ तोहार हिस्सा रखके हम आपन पी जात हैं !”

झींगुर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और सुक्खू ने नारियल में भाँग भरकर पीने की तैयारी की। वह नारियल में मुँह लगाने ही जा रहा था कि पीछे से आवाज आई—“क्या बच्चा, अकेले-ही-अकेले ?”

सुक्खू ने धूमकर देखा कि एक बाबाजी की भव्य मूर्ति पीछे खड़ी बत्तीसी चमकाते हुए उसकी ओर याचना की मुद्रा से देख रही थी। बाबाजी के शरीर पर चोंगानुमा अलफी मूल रही थी। उनके एक

हाथ में लकड़ी का कमरण्डल और दूसरे में सिन्धुर-चित लोहे का त्रिशूल था। सिर पर लम्बे भटीले केश और नाभि तक सूखती दाढ़ी थी। उनकी इस अद्भुत मूर्ति का प्रभाव सुकरू पर पड़ा और उसने कहा—“सब आपै लोगन कठत माया हौ गुहजी। आपका अस्थान कहाँ हौ महराज !”

“साधू तो रमते राम हैं, बेटा ! उनका बँधके स्थान कहाँ ? बाबा कवीरदास ने कहा है—

‘साधु बहता नीर भल,  
जो नहिं सिन्धु समाय ।  
अचल होय पाथर बनै  
या गड़ही है जाय ।’

साधु का कथन अभी समाप्त नहीं हो पाया था कि झींगुर ने पत्थर पर धोती पछारते हुए कहा—“का भाई, है काबुली कौआ कहाँ से आयल ?”

साधु ने ‘काट खाऊँ’ मुद्रा से झींगुर की ओर देखा, पर चुप रहा। उत्तर दिया सुकरू ने—“तू कहसन बतियावत हौअड भाई झींगुर। महात्मा हौवन देखलन् चल अहलन !”

साधु ने भी झींगुर की पूरी उपेक्षा कर सुकरू से कहा—“बचा, देरी क्यों करता है ? दे न !”

“लड बाबाजी ! कमरण्डल में लेबड का !”

“हाँ, हाँ, दे दे इसी में !”

बाबाजी ने कमरण्डल आगे बढ़ाया। सुकरू ने थोड़ी सी भाँग उसमें डाल दी। बाबाजी ने एक सौंस में उसे सोखकर अलफी की जेब से पीतल-मढ़ी लम्बी सी एक चिलम और गाँजे की पोटली निकाली और उसमें से थोड़ा गाँजा निकाल हथेली पर भलने लगे। उधर झींगुर धोती सूखने के लिए फैलाकर बहाँ आया। उसने देखा कि भाँग बहुत थोड़ी बच्ची है। उसने क्रोध से सुँह विकृत करते हुए कहा—“का

सुक्खू, तोहँ मायाजाल में फँस गइलाए ।”

सुक्खू ने उत्तर दिया—“अरे भाई, साधुन महातमन के देके तबै परसाद लेवै के चाही ।”

| “अच्छा देर म्यान जिन छुँड़ । अहसन तोता-एटन्त साधू हम बहुत देखले हई । साधू कड़ सकल अहसन होला ?”

बाबाजी गाँजा मलकर सुलफा सुलगा चुके थे । जलदी-जलदी दो-चार दम लगाकर उन्होंने लाल-लाल आँखों से झींगुर को घूरा । झींगुर ने उनकी आँखों से आँखें मिलाते हुए कहा—“बनर-घुड़की जिन देखावड । बाबाजी, नाहीं तड अच्छा न होई ।”

“तेरा नास हो जायगा,” बाबाजी शाप देने की मुद्रा में गुराए ।

“जबान सँभाल के थोक,” झींगुर ने गरम होकर कहा ।

“साधू का अपमान करता है ? तेरा ना-ना-ना-नास हो जायगा,” बाबाजी ने हकलाते हुए कहा ।

“फिर अपने बुकले जाला ! बड़का बाबा बनके आयल हौ । जानत नाहीं कि ‘काशी’ के कंकर सिवसंकर समान हैं । अइसे सराप से हम नाहीं डेराहृत ।”

“तू क्या चीज है बे छोकडे ! सराप से तो बड़े-बड़े काँप जाते हैं । सुना नहीं है कि गीताजी में क्या लिखा है—‘मृषा न होइ देव रिसि वानी ।’”

“बहुत देखले हई हो ।”

“कुछ नहीं देखा है । देखना है तो देख सामने रामनगर की ओर । देख कैसा होता है साधू का सराप !”

साधू की अंगुली के साथ ही झींगुर की दृष्टि गंगा-पार सामने की ओर घूम गई । समूचा किला दीपावली मनाता हुआ आलोक-स्नान कर रहा था । कार्तिक कृष्ण अष्टमी की सन्ध्या थी । पश्चिम में अग्नि-गोलक तिरोहित हो चुका था, परन्तु पूर्व में अभी स्वर्णगोलक की रेखा भी प्रकट न हो पाई थी । गोधूलि समाप्त होते-होते अनधकार छा-

गया। उस काली पृष्ठभूमि में प्रकाशोज्ज्वल किला उस चित्र के समान दिखाई पड़ रहा था जिसमें कृष्ण केशों की व्यापक सघनता में चित्रकार ने किसी सुन्दरी के चन्द्रमुख का आलेखन किया हो। झींगुर की बहस की प्रवृत्ति शान्त ही चुकी थी। वह मन्त्रमुग्ध किले की ओर देखता रहा। बाबाजी के होठों पर भी मुस्कान की जीण रेखा खिच गई जिससे उनका रूप कुछ और अदर्शनीय हो उठा।

परन्तु बाबाजी की इस मुस्कान पर सुकूप की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने परम विनीत स्वर से पूछा—“साधू के सराप और किलासे का मतलब महाराज !”

“मतलब बहुत है बच्चा। तेरे में सरधा है, मैं तुझे सारा मतलब बताए देता हूँ। राजा चेतसिंह का नाम सुना है बच्चा ?”

“हाँ बाबाजी, महाराज वरबण्डसिंह कड़ लड़िकाड़ न ? सूब जानीला है का अगवें ओन कर किला है !”

“तू तो बहुत ज्ञानी है बेटा ! हाँ, तो चेतसिंह की बात है। वह जब काशी-नरेश रहे तो काशी में उस बखत एक बहुत बड़े सिद्ध का निवास रहा बेटा !”

“के गुरुजी !” सुकूप ने हाथ जौङ्कर पूछा।

“बाबा कीनाराम !”

“बाबा कीनाराम ?” सुकूप ने विस्मय-मिश्रित हृषि से कहा, “बाबा कीनाराम के हम खूब जानीला गुरुजी ! ओनकर बनावल भजन हमार मार्ह आजतलक गावडला। हाँ तड़ महाराज का भयल ?”

“तो बेटा, उसी किले के नीचे राजा चेतसिंह एक दिन टहला रहे थे। उधर से रमते जोगी बाबा कीनाराम आ निकले। राजा ने उनको देख तेरे इसी साथी की तरह अभिमान में भरकर उन्हें नमस्कार तक न किया। बाबाजी भी रुक गए। सन्तों को अभिमान कहाँ, बेटा ! जैसे मैंने अपने से आकर तुझसे याचना की वैसे ही उन्होंने राजा से कहा—‘राजा भूख लगी है।’ राजा ने घृणा-भरी मुस्कान से उनकी ओर।

देखा और कहा कि ‘ठहरो, खाना मँगाता हूँ।’ राजा ने अपने एक कर्मचारी की ओर हङ्कारा किया। वह कर्मचारी था कायस्थ, बहुत चतुर। समझा न बेटा ?”

बेटा सुक्ख बाबा की बात बड़े भक्ति-भाव से सुन रहा था। उसने मूल-गूल समझा था। शास्त्र की उल्लंघन उसकी समझ में न आई थी। पर उसने सिर सुकाकर कहा—“हाँ महाराज, समझ गइली ।”

“कुछ नहीं समझा बेटा, समझने की बात तो अब आगे आयगी, समझ ! कर्मचारी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, ‘सरकार, बाबा से वैर न करो ।’ पर सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। कहा—‘हम भी छत्री, बाबा भी छत्री । लेकिन हम राजा, वह भिखारी । उसने हमें सलाम क्यों नहीं किया ?’ ”

“राम, राम, राजा कड़ हूँ बुद्धी !” सुक्ख ने विनीत निवेदन किया।

“हाँ बेटा, यही बात है। सूरदास ने भी कहा है—‘समय चूकि पुनि का पछिताने ।’ सो कर्मचारी ने फिर कहा—‘अच्छा तो फिर हमें बाबाजी के लिए भोजन लाने का हुक्म हो ।’ राजा ने कहा, ‘हाँ जाश्रो, ले आओ । देखो, किले के उधर दोपहर कहीं से एक लाश आकर किनारे लग गई है। बहुत दुर्गन्धि है उसमें। उसे डोमड़ों से उठवा मँगाओ ।’ ”

“अरे !” विस्मय से सुक्ख का मुँह खुल गया और मिनट-भर खुला ही रहा।

बाबाजी पूर्ववत् मुस्कराए और कहने लगे—“तो उस कर्मचारी ने कहा, ‘सरकार सूली दे दें पर ऐसा काम मुझसे न होगा ।’ बाबा कीनाराम खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ‘सदानन्द, यह जैसा कहता है, करो। अपने बंश में सदा आनन्द नाम रखना, आनन्द रहेगा ।’ सदानन्द ने भी तुरन्त वह मुरदा उठवा मँगाया। राजा ने बाबाजी से कहा, ‘भोग लगाइए !’ सारे पार्षद और कर्मचारी मुँह फेरकर खड़े हो गए। राजा ने ढौँढ़ा। तब सब सामने देखने लगे।

बाबा ने अपना दुपट्टा उतारकर सुरदे पर डाल दिया। पाँच मिनट बाद सदानन्द से कहा, 'दुपट्टा उठाओ।' सदानन्द कॉपते पैरों से आगे बढ़े। उन्होंने कॉपते हाथों से आँख मुँदकर कपड़ा उठा लिया। जयकारा सुनकर जब उन्होंने आँखें खोलीं तो क्या देखा; बोल !' बाबाजी ने डपट्टर सुखू से पूछा।

सुखू सकपका गया। उसने सोचा कि क्या कहें। फिर खाल आया कि राजा की करनी पर बाबा को क्रोध आया ही होगा। सो उसने धीरे से कहा—'मुरदवा अजगर बन गयल होई !'

'थोड़ा सा चूक गया बेटा !' बाबाजी ने स्नेहसिक्ष अद्वृहास करते हुए कहा, 'अजगर नहीं बना बेटा ! पकवान बन गया, पकवान—खड्डू, पेड़ा, बरफो, जलेबी, इमरती, मोहनभोग !' कहते-कहते बाबाजी हँसे। परन्तु बात जारी रखी। उन्होंने कहा—'बाबा का चमत्कार देख राजा की आँख खुल गई। वह घबराकर पैर पर गिर पड़ा। परन्तु बाबा ने कहा—'नहीं, अब तुम राजा नहीं रह सकते। और जानते हो तुम्हें गढ़ी से कौन उतारेगा ? यही सदानन्द !' राजा थरथरा गया बेटा। बड़ी विनती की। तब बाबा पसोज गए। उन्होंने कहा—'तुम्हें तो गढ़ी से उतरना ही पड़ेगा। हाँ तेरी विनती पर मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरे बाद तेरा वह राज खण्डित रूप में तेरे प्रतापी पिता के वंशधरों को मिलेगा। छः पीढ़ी तक राज करने के बाद तब तेरे राज्य का विलय होगा !'

अद्वाविभोर सुखू अभी विलय का अर्थ भी नहीं समझ पाया था और न यह पूछ पाया था कि हससे किले की सजावट का क्या सम्बन्ध, कि भींगुर ने हँसकर कहा—'नसा जोर कहले हौ का बाबाजी ?' और बाबाजी ने उसकी ओर फिर बूरकर देखा। भींगुर हँसता ही रहा।

जिस समय बाबाजी ने भींगुर का ध्यान किले की सजावट की ओर आकृष्ट किया तो कुछ देर तक भींगुर किले की ओर देखता और विचार करता रहा कि आज किले में यह सजावट कैसी है। बाबाजी के अद्वृहास

से उसका ध्यान भंग हुआ और उसके बाद उसने बाबाजी के मुँह से जो कुछ सुना वह उसके मन में जमा नहीं। उसने कौतुक अनुभव किया और हँसने लगा।

“लेकिन महाराज !” सुकर्ख ने पूछा, “विलय माने का ?”

इतने में कहीं से सीटी की ध्वनि आई। बाबाजी चौंक गए। उन्होंने उठते-उठते कहा—“इसका माने यही कि आज चेतसिंह का राज्य समाप्त हो रहा है। दिल्ली की सरकार यह राज्य लखनऊ की सरकार को दे रही है। समझा बेटा ?” और बाबाजी कदम बढ़ाकर चले। मोड़ धूमते ही उन्हें पुलिस के कुछ कर्मचारी और एक बड़े अफसर दिखाई पड़े। बाबाजी ने इधर-उधर देखकर फौजी ढंग से अफसर को सलाम किया। अफसर ने कहा—“कहो बाबाजी, तुम अपनी ड्यूटी तो बड़ी चौकसी से बजाते हो ?”

“वह तो मैंने कह ही दिया है हुजूर ! मृषा न होइ देव रिसि बानी। हजूर से क्या छिपा है ?” बाबाजी ने कहा।

“इसीलिए तो कहता हूँ,” अफसर ने कहा, “मुझसे सचमुच कुछ नहीं छिपा है। तो वहाँ गाँजा-भाँग पीकर जो कुछ बक रहे थे वह सरासर बेहदी बात थी। कायदे के खिलाफ काम की सजा जानते हो ?”

“जब हुजूर कहते हैं तो ठीक ही होगा। ‘मृषा न होइ देव रिसि बानी।’ सीताराम, सीताराम !” बाबाजी ने जोर से कहा और उसी समय दो-तीन आदमी मोड़ धूमकर आते दिखाई पड़े। अफसर भी खुर्चियाँ जमादारा की चतुराई पर मुस्कराता हुआ आगे बढ़ गया।

उधर झींगुर ने बाबा की बात सुनते ही सुकर्ख से सहसा पूछा—“कहो, आज १२ तारीख त नाहीं न हौ ?”

“का जानी भाई ! पनरह तारीख के का हौ ?”

“तू सुकर्ख नाहीं छुक्क हौआ,” झींगुर ने मुस्कराकर कहा। सुकर्ख भी चिना कुछ समझे ही हँसने लगा।

किले की ओर बड़ी ही तीव्र उल्जास-ध्वनि हुई। झींगुर भी उसी

ओर ताकने लगा। वह एक कमरे की ओर, जिसे महाराज के कमरे के नाम से जानता था, एकटक निहारता खड़ा रहा। सहसा उसने देखा कि कमरे की खिड़की में कोई आकर खड़ा हो गया है। मींगुर ने निगाह जमाकर देखा और तब अपने साथी से बोला—“अरे, सामने महाराज हौस्त्रन। हरहर महादेव कहेके चाही।” लेकिन मींगुर ने कुछ सोचकर कहा—“जब राजै नहीं रह गयल तब...?”

“तब तोहार कपार!” मींगुर ने सुक्ख से कहा, “राज नाहीं रह गयल तब ऊरजौ नहीं रह गइलन का? मन्दिर टूट गयल तड़ का भगवानौ गायब हो गइलन? तुँ चुप रहड़” और स्वयं वह खिड़की की ओर मुँह उठाकर जोर से चिछाया—“हरहर महादेव!”

## सारी रंग डारी लाल-लाल

\* \* \* \* \*

: १ :

गुलाबबाड़ी की गुलाबी महफिल में गुलाबी परिच्छद और गुलाब के ही गहने पहनकर गुलशन, गुलबदन और गुलबहार ने अपने को किल-करठ से वसन्तराग में गलेबाजी का वह गुल खिलाया कि श्रोताओं की मण्डखी बुलबुल बन बैठी ।

उपर गुलाबी चौंदवे-से लटकते गुलाबी शीशे के झाड़-फानूस से गुलाबी प्रकाश झलक रहा था और नीचे फर्श गुलाब की पंखुरियों से ढूँक-सा गया था । उस पर बैठे श्रोताओं की आँखें नैश-जागरण और नशा-सेवन से लाज हो रही थीं । उस पर गुलाबी वातावरण में 'सारी रंग डारी लाल-लाल' की टीप ने उनका रंग और भी गाढ़ा कर दिया । प्रभाती बयार में सूरजमुखी के गुच्छों की तरह उनके सिर हिलने लगे और मस्ती का समाँ ऐसा बँधा कि हिमालय के मुकुट की शोभा बढ़ाने वाले भारी-भरकम देवदार के वृक्षों की भाँति वे बार-बार झूमगे लगे । वे भौंरों की तरह गुनगुनाते रह गए—'सारी रंग डारी लाल-लाल !'

जाड़े के उत्तरते दिन थे, फिर भी सेठ देवीचरण ने साधारणतया चैत्र मास में होने वाली गुलाबबाड़ी की महफिल बैमौसम ही जमा रखी थी । काले-बाजार की बरकत से सुँह की लाली बच्ची रह जाने का यह स्वाभाविक परिणाम था । उनका दीवाला पिटने ही वाला था कि सभय ने पलटा खाया और उनकी साल की जड़ ने सीधे शैषनाग के मस्तक पर

जाकर आसन जमा किया । इसी खुशी में चैती गुलाब फूलने की प्रतीक्षा न कर उन्होंने गुलाब के साधारण फूलों से ही गुलाबबाड़ी का आयो-जन कर डाला, और इसके लिए उन्हें बहाना मिल गया अपने हक्कोंते बेटे लखलन की वर्षगाँठ का । व्यापार के जंगली शिकारी ने एक ही देले से दो शिकार कर लिए ।

## : २ :

जिस जवान बेटे की वर्षगाँठ के व्याज से बूढ़ा बाप महफिल सजाने का लड़कपन कर नगर के बाहर मदुआड़ीह के बगीचे की बाहदरी में विलास का रास रचा रहा था वही बेटा उसी बगीचे के एक कोने में उपेक्षित खड़ी भोंपड़ी की एक कुत्सित और अन्धकारमयी कोठरी में अपने साईंस सुलोचन के शिशु पुत्र की परिचर्या के व्याज से बैठ अपने साथियों अर्थात् अपनी पार्टी के लाल सदस्यों के साथ उसी शाम हुई एक घटना की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में गूढ़ विचार कर रहा था ।

घटना बहुत साधारण थी, परन्तु अपने अनोखेपन के कारण वह परम अलाधारण थन बैठी थी । बात यह थी कि एक ऊँचे सरकारी अधिकारी की कम्युनिस्ट पुत्री को उसके कॉलेज के होस्टल में गिरफ्तार करने जाकर कोतवाल को बड़ी झक उठानी पड़ी थी, और जब कोतवाल ने उसे गिरफ्तार करने में किसी प्रकार सफलता पाई तो उस तस्णी ने उनके श्रम के पुरस्कारस्वरूप उन पर अपनी चप्पल फेंक दी । चप्पल कोतवाल को लगी या नहीं, यह किसी ने न देखा, लेकिन शहर में शोर मच गया कि एक तस्णी ने कोतवाल को चप्पलों से मारा । यह समाचार प्रकाश में आते ही शहर-भर के कम्युनिस्ट सहसा अन्धकार में चले गए ।

वे अँधेरे में छिपकर और छिटपुट गुट बनाकर मन्त्रणा करने लगे । लखलन का कामरेड दल विचार कर रहा था कि कुल रात-भर की बात है, सबेरे घटना की प्रतिक्रिया स-ष्ट हो उठेगी, तब भावी कार्यक्रम

बना लेना सरल होगा। लखलन देख रहा था कि 'कम्युनिस्ट क्रीडे में दीक्षित उसके ये छात्र साथी इस साधारण-सी बटना से ही भयभीत हो उठे हैं। वह उन्हें उत्साहित करने के लिए बोला—“साथियो, घब-राना नहीं, मैं साज़-दो साल तक जखरत पड़ने पर तुम्हें छिपाए रख सकता हूँ।”

उसकी बात काटकर एक लाल तखण ने कहा—“साथी, तुम समझते हो कि हम डर रहे हैं? हरगिज नहीं, भय तो अज्ञान का परिणाम होता है।”

दूसरा बोला—“फ्रायड ने इसे ‘सेक्स काम्प्लेक्स’ (यौन-दुर्बलता) बताया है। हम लोग कमज़ोरी के शिकार कभी नहीं हो सकते।”

तीसरे लाल जवान ने कहा—“समाज में आज जो यह भीषण विषमता व्याप्त है, उसके मूल में भी यही भय की वृत्ति काम कर रही है।”

लखलन ने समझ लिया कि उसके साथी आश्वस्त हैं और इसीलिए वे अब बहस में इस ले रहे हैं। उसने बगल वाली कोठरी की ओर देखा और धीरे से उठकर वह उसमें घुसा।

यह कोठरी ऐसी थी जिसमें एक छोटे दरवाजे को लौटकर वायु के प्रवेश के लिए दूसरा रन्ध्र तक न था। दिन में भी उसमें प्रकाश ले जाने की आवश्यकता पड़ती थी। लखलन ने सिर झुकाकर कोठरी में प्रवेश किया। उसने घुसते ही देखा कि उसके पिता के मोटरचालक फँगुर की पत्नी सुधा सास के बच्चे को गोद में लिये कोने में जलते मन्द दीपक के प्रकाश में उसका मुँह बड़े ध्यान से देख रही है। उस धूमिल प्रकाश में सुधा के सुरुचि से सँवारे केशपाश के बीच ललाट से लेकर आधे सिर तक लिपटी सिन्दूर की मोटी रेखा चमक रही है। उसके कानों की लौ से लटकते लाल कौच-जड़े टप दीपक के लौ की तरह रह-रहकर हिल उठते हैं। उसके शुभ्र परिधान ने कोठरी के कुर्सित बातावरण को भी जैसे ढक रखा है।

लल्लन पैर दबाएँ खड़ा मिनट-भर सुधा को देखता रह गया। सुधा अब युवती नहीं रह गई थी, आश्री ३७ वर्षों तक निरन्तर दुनिया देख लेने के बाद नारी में युवती का अलहड़पन नहीं रह जाता, समझदारी आ जाती है और समझदारी की प्रशंसा उसके प्रौढ़त्व पर निर्भर है। सुधा समझदारी थी और वह स्नान से भीगी पतली साड़ी की तरह धीरे-धीरे कठिनाई से अपना घौवन-चौर उताइती जा रही थी; फिर भी वह किसी-किसी आँग से लिपटा ही रहता था।

वह सुन्दरी तो थी ही, शुचिता भी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने झींगूर-जैसे परम असांस्कृतिक नाम बाले एक अपद और श्रमिक श्रेणी के व्यक्ति को पति रूप में कैसे वरण कर लिया। सील-भरी उस गन्दी कोठरी में शुचिता की सूर्ति उस नारी को देखकर लल्लन के मुँह से लम्बी सौंस निकल पड़ी।

उस शून्य और शान्त कोठरी में निःश्वास की ध्वनि धनुष-टकार हो गई। सुधा ने चौंकंकर सिर उठाया। लल्लन को सामने खड़ा देख उसने कहा—“दबा तो कुछ भी असर नहीं कर रही है।”

लल्लन उसकी बात अनसुनी करता हुआ उसे एकटक देखता रहा। सुधा ने स्थितिपूर्वक पूछा—“क्या सोचते हो लल्लन बाबू?”

“यहीं सोचता हूँ सुधा देवी, कि राजा से विवाह होने के बावजूद एक कंगाल के साथ दीनता और अभाव का यह कराहमय जीवन तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? इतने ऊपर रहकर भी इतने नीचे क्यों उत्तर पढ़ीं?”

“बहुत ऊपर जाने के लिए कभी-कभी बहुत नीचे आना पड़ता है, लल्लन बाबू!”

“फिर भी?”

“लल्लन बाबू! आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कब किसने दिया है? कहना ही पड़े तो यही कह सकती हूँ कि राजा के समीप मेरा कोई मूल्य न था। उसके यहाँ मैं काँच की माला थी—कोने में पड़ी,

उपेक्षित । परन्तु जब भिखारी के हाथ लगी तो उसने मणिमाला की भाँति सुझे सिर पर स्थान दिया, अपने गले का हार बना लिया । बताएँ मैंने उच्चति की या अवनति ?”

सुधा की गोद के पड़े बच्चे ने हिंदकी ली । सुधा ने घबराकर कहा—“गरीब के बच्चे की जान बचाइए लखलन बाबू !”

बच्चे की हालत खराब होती जा रही थी । लखलन ने भी परिस्थिति की गुहता महसूस की । उसने सुधा से पूछा—“क्या झींगर को डाक्टर बुलाने नहीं भेजा ?”

“भेज तो दिया है शाम ही से । इधर आधी रात बीत रही है । न जाने क्यों नहीं लौटे ?” सुधा ने जवाब दिया ।

लखलन ने कुछ सोचते हुए कहा—“वैसे तो झींगर अपह होते हुए भी समझदार हैं । गरीब भी हैं फिर भी न जाने कैसे उसके संस्कार बूँद्धा हो गए हैं । गरीबों से तुम्हारी-जैसी सहानुभूति और शोधण के प्रति तुम्हारे-जैसा आक्रोश उसे कहाँ ?”

सुधा को लखलन की बात में चापलूसी की गन्ध लगी । उसने लखलन की ओर मासिक डृष्टि से देखते हुए कहा—“बूँद्धा संस्कार और प्रोलेटेरियट संस्कार में सुझे तो कुछ विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता लखलन बाबू ! एक में हृदय का योग आवश्यकता से अधिक है तो दूसरे में बुद्धि का । पहला स्वार्थ की अधिकता से चिपचिपा हो गया है तो दूसरा प्रतिहिसा से रुखा । यही कारण है जो आप प्रोलेटेरियट संस्कार रखते हुए भी इस पीड़ित शिशु की उपेक्षा कर बहस में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं ।”

लखलन के मुँह पर जैसे तमाचा पड़ा । उसने तत्काल कहा—“मैं ही डाक्टर बुलाने जाता हूँ ।”

: ३ :

सेठ देवीचरण की बारहदरी में सरदी भले गुलाबी हो गई हो, परन्तु

सङ्क पर चलने वालों के लिए वह अब भी बहुत कड़ी थी। उस पर जिस समय ललतान डॉक्टर दुखाने के लिए सङ्क पर निकला उसी समय न जाने कहाँ से बादल का एक टुकड़ा भी आकाश में भटकता हुआ आ निकला। वह जैसे शून्य में अकेले भटकते-भटकते दुखी होकर रो पड़ा और टपाटप बूँदे गिरने लगी। अँधेरे में ललतान भी ठोकर खाता हुआ बढ़ा जा रहा था। वह कटु स्वर में बड़बड़ा उठा—“पिताजी को मेरी वर्षगांठ मनाने की जितनी चिन्ता है उतनी जाड़े की वर्षा में मेरे भीगने की नहीं!”

वैसौसम की इस वर्षा को ललतान ने विष-दणि से देखा। उसे अपने ऊपर यह आकाश का अत्याचार प्रतीत हुआ। उसने सोचा कि आकाश भी बहुत ऊँचा है न, इसके भी संस्कार बूर्ज़ा ही दिखाई पड़ते हैं। और अपनी रसिकता पर वह मन-ही-मन हँस पड़ा। उसे खाल आया कि यही रात आज मेरे पिता की बाहदरी में मधु की वर्षा कर रही है। वहाँ उच्छृङ्खल उल्लास की बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ पर मदिरा की मादकता का फैल उत्ताप्या बहता जा रहा है। सौरभ की तरफ़े उठ रही हैं और प्रगल्भ रस की धारा में उठती हुई भूविलास की भँवर में भोग-लोलुप मन उभ-चुभ कर रहे हैं।”

गली में उभेरे पथर के एक टुकड़े से उसे ठोकर लगी। वह गिरते-गिरते बचा। उसे अपने पिता पर उत्तरोत्तर छूणा होती जा रही थी। अपने सारे कष्टों का दायित्व बाप के सिर रखते हुए वह सोच रहा था कि ‘बैचारे साईस का बचा बीमार है। उसकी स्त्री भी पितृ-गृह गई हुई है। बालक को कोई देखने-सुनने वाला नहीं और मेरे पिता हैं कि उसे ऐसी रात में भी छुट्टी नहीं देते। अपने विलास के सहयोगियों को जाने ले जाने के लिए उसे गाड़ी में जोत रखा है।’

उसे एक ठोकर और लगी और उसकी विचारधारा को भी। उसे झींगुर पर गुस्सा आया—‘ऐसी रात में कम्बख्त काहे को डॉक्टर खोजने निकला होगा?’ और झींगुर का खाल आते ही उसे सुधा का ध्यान आ गया।

उस रात की बात याद आई जब झींगुर सुधा को दरवाजे पर खड़ी कर उसके पिता के पास न जाकर उसी के पास आया था और सभी कथा सुनाकर उससे आश्रय की भिजा माँगी थी। उन दिनों लखलन वियेन-हैटर के नाम से प्रसिद्ध था, परन्तु सुधा का मुख देखते ही उसका नारी-देष न जाने कहाँ उड़ गया था। उसने तत्काल दोनों को आश्रय दे दिया। “उस घटना के तेईस वर्ष बाद आज वह पुनः सोचने लगा कि ‘आखिर सुधा ने झींगुर में देखा क्या?’

और डॉक्टर का मकान आ गया।

#### : ४ :

रात के चौथे पहर जब शीत की अविकता बढ़ी तो सुधा की गोद में पड़े रुग्ण वालक को हिचकी आई और उसने दम तोड़ दिया। सुधा की आँखों से आँसू की दो बूँदे सूत शिशु के पीले चेहरे पर चू पड़ीं। उसने आँचल को छोर से तुरन्त अपनी आँखें पॉक डालीं और सूत शिशु को अपनी गोद से उतार भूमि पर पड़ी कन्था पर डाल दिया। कोठरी में हवा का तीखा झोंका आया और निष्प्रभ दीप एक बार फड़ककर लुभ गया। अन्धकार में एक नन्हे-से जीवन के अन्त के सामने सुधा अपने अन्धकारमय जीवन पर विद्युत दृष्टि डालने लगी।

वह सोचने लगी कि दुनिया समझती है कि मैं झींगुर के प्रैस में पड़कर गृह-त्यागिनी हो गई। उसे यह कौन बताए कि मेरे गृह-त्याग का कारण प्रेम नहीं था, उत्कट वृणा थी। और, किर भ्रमानिवत हीने में अनजान दुनिया का क्या दोष? मैं भी तो, इसी भ्रम में कि मेरे पति मेरी सौत को प्यार करते हैं, एक कोयले वाले की ओर आकृष्ट हो परिवार के मुँह पर कालिख लगाने के लिए तैयार हो गई थी और पति के प्रति वृणा ने मुझे एक सोटर-चालक की अंकशायिनी बना दिया।

सुधा अपने जीवन का अतीत चलचित्र की भाँति देखने लगी। उसने देखा कि वह अपने पति रायसाहब साधूराम के कमरे में सफाई

कर रही हैं। शाम के सात बजे थे। उस समय नगर में विजली नहीं लगी थी, यद्यपि विजलीघर बन रहा था। रायसाहब की शरण के सिरहाने खिड़की के ठीक सामने मोसी शमादान जल रहा था। उसी समय उसकी सौत ने पति के तस्ण मोटर-चालक झींगुर को कोई चीज़ ले आने के लिए उसी कमरे में भेजा। झींगुर वहाँ आकर माँगी हुई वस्तु खोजने लगा। आज ही की तरह उस दिन भी हवा का ऐसा ही करारा म्लेंका आया। उस झौंके से कमरे का दरवाजा बन्द हो गया, शमादान भी बुझ गया। उसने जब रोशनी लाने के लिए बाहर निकलने का प्रयत्न किया तो टेब्ल से टकराकर वह पति की शरण पर गिर पड़ी। क्षण-भर का भी निलम्बन न हुआ था कि दरवाजा खुला और रायसाहब ने कमरे में प्रवेश किया और यह पूछते हुए कि कौन है, उन्होंने टार्च का बटन दबा दिया। कमरे में उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। रायसाहब ने देखा कि सुधा शरण पर से उठ रही है और पायथाने घबराई मुद्रा में उनका मोटरचालक झींगुर खड़ा है। यह दृश्य देख रायसाहब निर्विकार भाव से हँसे और कमरे का दरवाजा पूर्ववत् बन्द करते हुए बाहर निकल गए।

सुधा सोचने लगी कि यदि अपने मन के अमवश रायसाहब ने उसे दो तमाचे लगा दिये होते या दस-पाँच ऊँची-नीची ही सुना दी होतीं तो शायद वह कुल-त्यागिनी न बनती, परन्तु रायसाहब के इस उपेक्षापूर्ण आचरण ने भली-भाँति प्रकट कर दिया कि उसके पत्नीत्व का मूल्य उसके पति की दृष्टि में कौड़ी-भर भी नहीं है। वह न उनके प्यार की वस्तु है और न उनके गौरव की। उसके किसी भी आचरण से उनका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। वह उनको उपेचिता दासी-मात्र है। उसने उसी रात बारह बजे झींगुर के साथ गृह त्यागकर पति के उपेक्षा-रोग की चिकित्सा करना निश्चित किया और परिणामस्वरूप स्वर्थ ही जीवन-भर के लिए कलंक-व्याधि से ग्रस्त हो गई।

सुधा का मानस-मन्थन चल ही रहा था कि लखलन ने कोठरी के

द्वार पर से ही कहा—“सुधा देवी ! हमारा डाक्टर तो स्वयं बीमार पड़ गया है । अब सवेरा हो ही रहा है । दूसरा डाक्टर खुलवाऊँगा ।”

“अब डाक्टर की जरूरत न पड़ेगी लल्लन बाबू ! कफन का बन्दोबस्त कीजिए । हाँ, यह तो बताहूए कि कहीं उनका भी कुछ पता चला ?” सुधा ने झींगुर के सम्बन्ध में चिन्तापूर्ण जिज्ञासा की ।

“हाँ सुधा ! अभी ऊपर से देखे चला आ रहा हूँ । पाजी महफिल में बैठा वेश्याओं से आँखें लड़ा रहा है । आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा था सुधा ?”

जागरण, अनाहार और श्रम से अवसर सुधा का मस्तिष्क लल्लन के स्वर में निहित व्यंग्य की झनकार से झनझना उठा । अपने स्पर्श से लोहे को भी पारस कर देने के उसके अभिमान को धक्का लगा । उसने जवाब दिया—“मैंने उसे अपनी सिद्धि का साधन समझा था लल्लन बाबू ! लेकिन उसने मेरी नाक काट ली ।”

लल्लन खोखले गले से हँसा । सुधा ज्ञोभ से तिक्कमिला उठी । उसने ताक पर रखा हँसिया टटोलकर उठा लिया और कोठरी के बाहर निकल वह बारहदरी की ओर झपटी । लल्लन ने पूछा—“उधर कहाँ जा रही हो सुधा ?”

“जा रही हूँ झींगुर डाइवर की नाक काटने,” सुधा ने कहा । लल्लन भौंचक वहीं खड़ा रह गया ।

#### : ५ :

जूतों के पास चौथी श्रेणी के दर्शकों में बैठा हुआ झींगुर भी गाना सुनकर मस्त हो रहा था । जिधर वह बैठा था उसी ओर नाचते हुए सुँह कर गुलशन ने बड़ी ही मीठी टीप लड़ाई—‘सारी रंग डारी लाल-लाल !’

झींगुर ने अपनी रागरंजित आँखें गुलशन की नशीली आँखों से मिला दीं और सुग्रह मुद्रा में लालकारा—“जरा भाव बता के बाईं जी !

कैसे रंग डारी लाल-लाल ?”

गुलशन हाथों को पिचकारी बनाकर भाव बताने जा ही रही थी कि रणचण्डी की हुंकार-जैसी सुधा को मेघमन्द ध्वनि ने समूची महफिल को चौका दिया । वह चिल्लाकर कह रही थी—“ठहर जा, अभी बताती हूँ कैसे रंग डारी लाल-लाल,” और उछलकर उसने हँसिया से झींगुर की नाक पर वार किया । वार ओढ़ा पड़ा, फिर भी नाक का कुछ हिस्सा कट ही गया । रक्त की धारा वह चली । झींगुर ने दुपट्टे से अपनी नाक ढबा ली । सुधा ने अद्वास किया । उसके अद्वास से सेठ देवीचरण चैतन्य हुए । उन्होंने चिल्लाकर कहा—“निकालो इस हरामजादी वेश्या को बाहर । सिर पर सेर-भर सिन्दूर पोतकर सती बनने चली हैं ।”

सुधा के सिर से उत्तेजना में आँचल हट गया था और माँग में सिन्दूर की मोटी रेखा चमक रही थी । उसने हँसिया वहीं फेंक दिया और उछलकर सेठ के पास पहुँच उनकी बगल में रखा गुलाबपाश उठा उसने अपने सिर पर उड़ेल लिया और हाथ से मज्जा-मलकर सिन्दूर धोने लगी । सेठजी पर छींटा पड़ा तो वह भी उछले और सुधा की चोटी पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाए—“निकल डाइन ! अभी निकल ! ले जा अपने खसम को भी । उसकी हस महफिल में क्या जरूरत ?”

सुधा ने सेठजी के सिर पर गुलाबपाश से तड़ातड़ सुरभित प्रहार करते हुए कहा—“छोड़ छोड़ चारडाल ! महफिल का मज्जा अकेले तेरे ही लिए है ? जीवन-भर अन्याय अस्याचार सहकर भी जिन्होंने कभी सुँह नहीं खोला, प्रेम करने की भूख में जिनका सारा जीवन कर्तित हो गया, क्या उनके लिए इस महफिल का मज्जा नहीं है ? जो किसान हैं, मजदूर हैं, कुली हैं, क्या उनके लिए यह महफिल नहीं ? जिनके घर में सदा अभाव रहता है, जिन्हें पर्याप्त भोजन और काफी वस्त्र तक नहीं प्राप्त होता, जो नकली इजजत के बोझ से दबे हुए खुलकर साँस तक नहीं ले पाते, जिन्हें तेरे-जैसे सेठ मध्यवर्गीय कहते हैं, क्या उनके

लिए इस महफिल का आनन्द नहीं ? बोल बैर्हमान ! लेख ! इस गुलाबबाड़ी के गुलाबों का रूप-रस-गन्ध तेरे ही लिए है और उनके काँटे हमारे ही लिए ? मैं तेरी इस महफिल में आग लगा दूँगी ।”

प्रहार से घबशकर सेठजी ने सुधा के केश छोड़ दिए थे । उसने लपककर दीवारगीर उतार ली और उसका शीशा जमीन पर पटककर चूर-चूर करती हुई उसमें की सोमवत्ती दीवारों पर टॅगे रेशमी परदों में लगा दी ।

झींगुर ‘हाँ हाँ’ करता हुआ दौड़ा, परन्तु परदों में आग लग चुकी थी । झींगुर उसेजनावश पागल-सा हो गया । उसने तबखची की कमर में खोंसा हुआ हथौड़ा उठाकर सीधे सुधा के सिर पर जमा दिया । नारियल फूटने-जैसी आवाज हुई और सुधा जमीन पर गिर पड़ी । झींगुर भी हथौड़ा फेंक कर बृह्म की तरह सुधा के निश्चेष्ट शरीर पर गिर पड़ा । हथौड़ा धमाके की ध्वनि के साथ हँसिया की बगल में जा गिरा ।

बारहदरी जल रही थी । समूची महफिल भागकर झींगन में निकल आई । लोगों ने सुधा और झींगुर को भी खींचकर बाहर निकाल लिया । पुलिस और दमकल बाले भी पहुँच गए । सुधा तो न उठ सकी, परन्तु झींगुर उठकर बैठ गया । उसने देखा कि अरुणोदय की लालिमा, सिन्दूर की लालिमा, गुलाब के फूलों की लालिमा, आग की लालिमा, रक्त की लालिमा और पुलिस की लाल पगड़ी की लालिमा ने एक होकर उसकी लाल-लाल आँखों के सामने लाल सागर लहरा दिया है । लखन ने पूछा—“झींगुर, तुमने यह क्या किया ?”

झींगुर ने रोते हुए जमीन पर पड़ी सुधा की ओर उंगली उठादी और भरची हुए गले से उत्तर दिया—“सरकार ! सारी रँग डारी लाल-

लाल !”

Durga Sah Municipal Library,

Naini Tal,

झींगुराट मुनिसिपल लाइब्रेरी  
१८०

भैलीताला

